



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2016—जनवरी 6, 2017 (पौष 10, 1938)

No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2016—JANUARY 6, 2017 (PAUSA 10, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2016

सेना शाखा

सं. 259, दिनांक 15 नवम्बर 2016—राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 17 सितम्बर 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 17 सितम्बर 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

एस एस सं.	आई सी सं. आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
एसएस 41477के	आईसी 66507एफ	सूरज सिन्हा	सिगनल
एसएस 41478एम	आईसी 66508के	भूपेन्द्र हांग सुब्बा	सिगनल
एसएस 41482पी	आईसी 66511के	पंकज वर्मा	सिगनल
एसएस 41483एक्स	आईसी 66512एम	संदीप धरवाल	सिगनल

एसएस 41486एल	आईसी 66515ए	विनय कुमार फौगाट	ई एम ई
एसएस 41497एक्स	आईसी 66524एफ	राकेश	इंजीनियर
एसएस 41498ए	आईसी 66525के	हर्ष वर्धन सिंह	इंजीनियर
एसएस 41504एच	आईसी 66528एक्स	राजु बी	इंजीनियर
एसएस 41508वाई	आईसी 66531एक्स	नवीन मिश्रा	ई एम ई

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख -17 अक्टूबर 2003

पदोन्नति के लिये तारीख -17 अक्टूबर 2003

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 18 मार्च 2016 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 18 मार्च 2016 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आई सी सं. आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
एसएस 41790पी	आईसी 72793के	हरबीर सिंह गील	इंजीनियर

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख -21 अप्रैल 2004

पदोन्नति के लिये तारीख -21 अप्रैल 2004

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके द्वारा 19 मार्च 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 19 मार्च 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आई सी सं. आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
एसएस 41337एक्स	आईसी 66465ए	आत्म प्रकाश	ए ओ सी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख -19 मार्च 2005

पदोन्नति के लिये तारीख -19 अक्टूबर 2005

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों, जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके द्वारा 17 सितम्बर 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 17 सितम्बर 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आई सी सं. आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
एसएस 41651एल	आईसी 66636एफ	सूबोध सूदन	मैक इंफैं
एसएस 41692पी	आईसी 66665डब्ल्यू	प्रतीक गुप्ता	इंजीनियर्स

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख -17 सितम्बर 2005

पदोन्नति के लिये तारीख -17 अप्रैल 2006

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों, जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके द्वारा 17 सितम्बर 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 17 सितम्बर 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आईसी सं. आबंटित	नाम	आर्म / सर्विस
एसएस 41513के	आईसी 66538एफ	सुधीर गुलिया	मैक इंफै
एसएस 41520ए	आईसी 66543एम	त्रिपुरारी सिंह	इंजीनियर्स
एसएस 41530के	आईसी 66550एच	हरनीत सिंह संघा	मैक इंफै
एसएस 41537एन	आईसी 66555एफ	शमशेर सिंह	इंजीनियर्स
एसएस 41549एच	आईसी 66565एल	सौरभ शर्मा	एएडी
एसएस 41555डब्ल्यू	आईसी 66571वाई	दुष्यंत	मैक इंफै
एसएस 41560एफ	आईसी 66575पी	लक्ष्मण सिंह	इंफै
एसएस 41579ए	आईसी 66588एम	मुकेश शर्मा	इंफै
एसएस 41597एच	आईसी 66601एल	जितेन्द्र नरुका	इंफै
एसएस 41601ए	आईसी 66604वाई	सुकांत कृष्ण जोशी	इंफै
एसएस 41635एन	आईसी 66627ए	चन्द्र शेखर यादव	आर्टी
एसएस 41638एफ	आईसी 66629एल	गौरव पाण्डेय	इंफै
एसएस 41641एफ	आईसी 66630ए	गोलवेलकर हेमांग कमलाकर	इंफै
एसएस 41678एच	आईसी 66657एक्स	अक्षय दीप शर्मा	इंजीनियर्स
एसएस 41703डब्ल्यू	आईसी 66673पी	हरप्रीत सिंह वालिया	ए एस सी
एसएस 41711पी	आईसी 66679डब्ल्यू	दिग्विजय जुयाल	इंफै

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख -17 सितम्बर 2005

पदोन्नति के लिये तारीख -17 अप्रैल 2006

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों, जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 24 नवम्बर 2014 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 24 नवम्बर 2014 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आईसी सं. आबंटित	नाम	आर्म / सर्विस
एसएस 42483के	आईसी 73301एम	किशन सिंह	ए सी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख -17 मार्च 2007

पदोन्नति के लिये तारीख -17 अक्टूबर 2008

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 02 जून 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 02 जून 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आईसी सं. आबंटित	नाम	आर्म / सर्विस
एसएस 42694एम	आईसी 73452एल	विवेक वशिष्ठ	आर्टी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख -22 सितम्बर 2007

पदोन्नति के लिये तारीख -22 अप्रैल 2009

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 02 जून 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफिटनेंट के रैंक में 02 जून 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आईसी सं. आबटित	नाम	आर्म/सर्विस
एसएस 42680एम	आईसी 73451एच	अजित भारद्वाज	आर्टी
एसएस 42749एल	आईसी 73453एन	प्रणव उपाध्याय	इंफैं
एसएस 42805वाई	आईसी 73454डब्ल्यू	मधुर शुक्ला	इंफैं
एसएस 42829एच	आईसी 73456एफ	संग्राम सिंह देवड़ा	इंफैं

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख -22 सितम्बर 2007

पदोन्नति के लिये तारीख -22 अप्रैल 2009

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 04 नवम्बर 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफिटनेंट के रैंक में 04 नवम्बर 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आईसी सं. आबटित	नाम	आर्म/सर्विस
एसएस 42913एच	आईसी 73619के	विक्रमआदित्य त्यागी	आर्टी
एसएस 42918एफ	आईसी 73620वाई	पंकज द्विवेदी	ए ओ सी
एसएस 42983एफ	आईसी 73622के	भाटी सिद्धराज सिंह	इंफैं

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख -22 मार्च 2008

पदोन्नति के लिये तारीख -22 अक्टूबर 2009

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 04 नवम्बर 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफिटनेंट के रैंक में 04 नवम्बर 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आईसी सं. आबटित	नाम	आर्म/सर्विस
एसएस 42908एक्स	आईसी 73618एफ	अन्जेश कुमार यादव	ई एम ई
एसएस 42922के	आईसी 73621एफ	रविन्द्र कुमार	ई एम ई
एसएस 42997एफ	आईसी 73623एम	अनिश सिंह तूड़	इंफैं
एसएस 43016वाई	आईसी 73624पी	वरुण त्रिसल	आर्टी
एसएस 43021के	आईसी 73625एक्स	वरुण राव	इंफैं

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख -22 मार्च 2008

पदोन्नति के लिये तारीख -22 अक्टूबर 2009

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 20 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफिटनेंट के रैंक में 20 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आईसी सं. आबटित	नाम	आर्म/सर्विस
एसएस 43213एफ	आईसी 73662एल	अभिनंदन	आर्टी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख -20 सितम्बर 2008

पदोन्नति के लिये तारीख -20 अप्रैल 2009

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 19 मार्च 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 19 मार्च 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आई सी सं. आबटित	नाम	आर्म / सर्विस
डब्ल्यूएस 01067एल	आईसी 66377के	लीना बजाज	एइसी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 19 मार्च 2005

पदोन्नति के लिये तारीख - 19 सितम्बर 2005

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 17 सितम्बर 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 17 सितम्बर 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आई सी सं. आबटित	नाम	आर्म / सर्विस
डब्ल्यूएस 01079ए	आईसी 66697वाई	गुरप्रीत कौर दयाल	जेग

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 17 सितम्बर 2005

पदोन्नति के लिये तारीख - 17 सितम्बर 2006

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 17 सितम्बर 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 17 सितम्बर 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आई सी सं. आबटित	नाम	आर्म / सर्विस
डब्ल्यूएस 01075के	आईसी 66692ए	हरजोत कौर	एइसी
डब्ल्यूएस 01108के	आईसी 66693एच	ज्योति सिंह	एइसी
डब्ल्यूएस 01119डब्ल्यू	आईसी 66695एन	दिव्या सिंह	एइसी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 17 सितम्बर 2005

पदोन्नति के लिये तारीख - 17 मार्च 2006

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 18 मार्च 2016 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 18 मार्च 2016 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आई सी सं. आबटित	नाम	आर्म / सर्विस
डब्ल्यूएस 01203डब्ल्यू	आईसी 72956एम	सरिमता महापात्र	एइसी
डब्ल्यूएस 01207एम	आईसी 72957पी	श्यामली आर्या	एइसी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 18 मार्च 2006

पदोन्नति के लिये तारीख - 18 सितम्बर 2006

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 02 जून 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफिटनेंट रैंक में 02 जून 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आई सी सं. आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
डब्ल्यूएस 01367एम	आईसी 73315एम	निर्मला	एइसी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 22 सितम्बर 2007

पदोन्नति के लिये तारीख - 22 मार्च 2009

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 02 जून 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफिटनेंट रैंक में 02 जून 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आई सी सं. आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
डब्ल्यूएस 01370एम	आईसी 73316पी	मनीषा डबास	एइसी
डब्ल्यूएस 01435पी	आईसी 73317एक्स	विदुषी भट्ट	एइसी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 22 सितम्बर 2007

पदोन्नति के लिये तारीख - 22 मार्च 2009

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 04 नवम्बर 2015 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफिटनेंट रैंक में 04 नवम्बर 2015 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.	आई सी सं. आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
डब्ल्यूएस 01487एल	आईसी 73487एफ	योगेश शेखावत	एइसी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 22 मार्च 2008

पदोन्नति के लिये तारीख - 22 सितम्बर 2009

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

शैलेश उनियाल
कर्नल
कर्नल सेना सचिव 7

सेना सचिव शाखा

सं. 260, दिनांक 16 नवम्बर 2016—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-39436 ए/ले0 जनरल एस के सैनी, वाई एस एम, वी एस एम, जाट	21.05.16
आई सी-39846 ए/ले0 जनरल ए आर प्रसाद, सिग्स	30.06.16
वी-00359 ए/ले0 जनरल ए जे सिंह, वी एस एम, आर वी सी	30.06.16
आई सी-39465ए/ले0 जनरल ए जे एस बेदी, वाई एस एम, वी एस एम, गढ रिफ	01.07.16
आई सी-39492 ए/ले0 जनरल अनिल चौहान, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम, ग्रेन	01.07.16
आई सी-39522 ए/ले0 जनरल जे एस नेगी, ए वी एस वाई एस एम, वी एस एम, राज रिफ	01.07.16

महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-37882 ए/मेजर जनरल दलिप सिंह, ए ओ सी	02.04.16 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.06.12 से दी जायेगी।

देबाशिस प्रधान
उप निदेशक
एम एस (एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 261, दिनांक 17 नवम्बर 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं।

(स्थायी थल सेना)

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी सूबेदार मेजर (नर्सिंग सहायक)

पद	नाम	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
सूबेदार	पी रामामूर्ति	जेसी-698356वाई	01 सितम्बर 2015
सूबेदार	कुंचाला रवि कुमार	जेसी-698407एफ	01 नवम्बर 2015
सूबेदार	दर्शन सिंह	जेसी-698409एम	01 दिसम्बर 2015
सूबेदार	भीम सिंह	जेसी-698410एफ	01 जनवरी 2016
सूबेदार	के सुंदरा राजन	जेसी-698411के	01 जनवरी 2016
सूबेदार	भास्कर फुकन	जेसी-698441एफ	01 जनवरी 2016

सूबेदार	रमेश सिंह परिहार	जेसी-698443एम	01 फरवरी 2016
सूबेदार	कौशल किशोरी	जेसी-698444पी	01 फरवरी 2016

स्थायी सूबेदार मेजर (नर्सिंग तकनीकी)

सूबेदार	पी मूरली	जेसी-693732एक्स	15 सितम्बर 2015
सूबेदार	गणेश सिंह रावत	जेसी-693747ए	01 जनवरी 2016
सूबेदार	कर्मवीर	जेसी-694252ए	01 फरवरी 2016

स्थायी सूबेदार मेजर (एम्बूलेन्स असिस्टेन्ट)

सूबेदार	रावण महतो	जेसी-698544ए	31 जुलाई 2016'
(' सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 29 जुलाई 2016 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	सुधीर कुमार झा	जेसी-698590पी	01 अगस्त 2016
सूबेदार	संजय कुमार	जेसी-698594एल	01 अगस्त 2016
सूबेदार	प्रहलाद मल गुर्जर	जेसी-698625ए	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	चित्तम सेटटी श्रीनिवासुलू	जेसी-698626एच	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	महबुब आलम	जेसी-698174एल	01 अक्टूबर 2015
सूबेदार	राम बिलाश यादव	जेसी-698309एफ	01 अक्टूबर 2015
सूबेदार	राजेश कुमार	जेसी-698254एच	01 नवम्बर 2015
सूबेदार	राजेश कुमार	जेसी-698255एल	01 नवम्बर 2015
सूबेदार	देश राज	जेसी-698256एन	01 नवम्बर 2015
सूबेदार	एस दासन	जेसी-698306एन	01 नवम्बर 2015
सूबेदार	आम सिंह	जेसी-698368एन	01 दिसम्बर 2015
सूबेदार	कृष्ण कुमार	जेसी-698448एल	01 जनवरी 2016
सूबेदार	बिजेन्द्र सिंह	जेसी-698367एल	28 जनवरी 2016'
(' सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 02 जनवरी 2016 से दी जायेगी।)			
सूबेदार	शाम लाल	जेसी-698449एन	01 फरवरी 2016
सूबेदार	भगवान सिंह	जेसी-698450एच	01 फरवरी 2016

स्थायी सूबेदार (एम्बूलेन्स असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार	ललितेश्वर प्रसाद सिंह	जेसी-699762एल	09 जनवरी 2016'
नायब सूबेदार	मोहर सिंह	जेसी-69684वाई	01 जुलाई 2015
(' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	रघु बन्स सिंह	जेसी-699847एफ	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	रामाकान्त साहु	जेसी-699848के	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	सत्या शिव कुमार भारती	जेसी-699824ए	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	राजेश कुमार शाही	जेसी-699876डब्ल्यू	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	सन्जीत कुमार	जेसी-699826एल	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	रविन्द्रा	जेसी-699835एम	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	महेश राय	जेसी-699849एम	01 अक्टूबर 2015

नायब सूबेदार	दुली चन्द बेरवा	जेसी-699901के	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	मुकेश चन्द्रा	जेसी-699827एन	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	चन्द्रिका राम	जेसी-699897एम	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	अलोक मन्ना	जेसी-699956एन	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	राम नरेश	जेसी-699828डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	राज कुमार यादव	जेसी-699957डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	गोग राज	जेसी-699829वाई	01 अक्टूबर 2015
(" सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	रूप सिंह	जेसी-699864एफ	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	संजय कुमार	जेसी-699959एफ	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	गोपी चन्द	जेसी-699865के	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	अमरेश कुमार प्रधान	जेसी-699866एम	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	अक्षय कुमार शाहु	जेसी-699872ए	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	चन्देश्वर यादव	जेसी-699868एक्स	06 नवम्बर 2015'''
नायब सूबेदार	शुशील कुमार शाह	जेसी-699869ए	02 नवम्बर 2015'''
नायब सूबेदार	सुनील कुमार ठाकुर	जेसी-699870पी	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	राम अवतार सिंह	जेसी-699871एक्स	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	मिथलेश प्रशाद मिश्रा	जेसी-699981एम	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	चोहान महेन्द्रा सिंह धर्मपाल सिंह	जेसी-699982पी	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	बिभास चन्द्रा घोष	जेसी-699983एक्स	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	जॉर्ज थोमस	जेसी-699984ए	01 नवम्बर 2015
("' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	उदय कुमार सिंह	जेसी-699985ए	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	देव नन्दन सिंह	जेसी-699986एल	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	परमजीत कुमार	जेसी-699987एन	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	जोगिन्द्र सिंह	जेसी-700022एल	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	मनोज कुमार	जेसी-700023एन	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	गुना मोहन सिंघा	जेसी-700024डब्ल्यू	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	सुरेन्द्रा प्रसाद शर्मा	जेसी-700025वाई	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	सुनील कुमार सिंह	जेसी-700026एफ	04 फरवरी 2016''''
नायब सूबेदार	देव राजु डी एस	जेसी-700027के	08 फरवरी 2016''''
('''' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	शिव चंद्रा सिंह	जेसी-699825 एच	31 मार्च 2016
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	टेक चन्द	जेसी-699989वाई	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	सजीवन पिल्लई के	जेसी-700028एम	01 मार्च 2016

नायब सूबेदार	मुरली धरण पिल्लई के	जेसी-700517एक्स	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	पाखरे बालासो रामा	जेसी-700029पी	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	संजय कुमार	जेसी-700030के	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	सत्येन्द्रा चौहान	जेसी-700031एम	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	धन्ना राम यादव	जेसी-700032पी	01 मई 2016
नायब सूबेदार	सुनील डे अशी	जेसी-700221वाई	01 जून 2016
नायब सूबेदार	एम सेत्तु	जेसी-700222एफ	01 जून 2016
नायब सूबेदार	जी अप्पला नायडु	जेसी-700223के	07 जून 2016'
नायब सूबेदार	चौबे रविन्द्रा कुमार राजा राम	जेसी-700224एम	07 जुलाई 2016'
(' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सुखबीर सिंह	जेसी-700225पी	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	नरेश कुमार	जेसी-700226एक्स	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	सुरेन्द्रा कुमार पटेल	जेसी-700235वाई	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	मुंशी	जेसी-700227ए	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	अशोक कुमार	जेसी-700228एच	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	वेकटेश्वरा राव ग्रन्धी	जेसी-700229एल	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	उदयभानू वर्धन कण्डी	जेसी-700230ए	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	उमेश कुमार	जेसी-700262एच	17 अगस्त 2016''
नायब सूबेदार	प्रताप सिंह	जेसी-700236एफ	01 अगस्त 2016
('' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी)			

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग तकनीकी)

नायब सूबेदार	सान्ती नाथ डे	जेसी-697604एक्स	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार मिश्रा	जेसी-697607एल	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	जोध सिंह बोरा	जेसी-697608एन	06 अक्टूबर 2015 /
(/ सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2015 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	जयेन्द्र सिंह	जेसी-697609डब्ल्यू	18 फरवरी 2016 / /
नायब सूबेदार	राजेन्द्र कुमार	जेसी-697610एल	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	लक्ष्मण सिंह	जेसी-697611एन	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	सोनवणे भास्कर शंकर	जेसी-697612डब्ल्यू	21 नवम्बर 2015 / /
(/ / सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	अजय कुमार	जेसी-697725वाई	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	संजय कुमार सिंह	जेसी-697613वाई	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	विजेश कुमार	जेसी-697614एफ	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	श्याम चन्द्रा सिन्हा	जेसी-697615के	10 दिसम्बर 2015 / / /
(/ / / सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	दौलत सिंह	जेसी-697616एम	01 दिसम्बर 2015

नायब सूबेदार	कुल भूषण	जेसी-697617पी	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	सिरुल आलम	जेसी-697618एक्स	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	प्रननाथ गुप्ता	जेसी-697619ए	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	गोन्डेसी सन्यासी राव	जेसी-697620पी	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	वी जेम्स जेवियर राजा	जेसी-697621एक्स	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	राज कुमार	जेसी-697622ए	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	सुनील कुमार	जेसी-697623एच	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	गौराबा कुमार बेहरा	जेसी-697624एल	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	नरेन्द्र कुमार	जेसी-697625एन	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	मनोज कुमार गोस्वामी	जेसी-697626डब्ल्यू	01 फरवरी 2016

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग सहायक)

नायब सूबेदार	संतोष कुमार सिंह	जेसी-699165डब्ल्यू	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	योगश चन्द्रा मिश्रा	जेसी-699249के	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	पवन कुमार	जेसी-699250वाई	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	लक्कू बलैया	जेसी-699251एफ	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	जय भगवान	जेसी-699252के	02 नवम्बर 2015 /

(/ सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	मदन लाल साह गंगोला	जेसी-699253एम	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	थाना राम गोदारा	जेसी-699254पी	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	ओम प्रकाश सिंह	जेसी-699255एक्स	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	अरविन्द कुमार पंवर	जेसी-699256ए	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	दीपक शर्मा	जेसी-699257एच	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	आर वीजी	जेसी-699377एफ	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	नौबत सिंह	जेसी-699259एन	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	प्रेम चन्द	जेसी-699260एच	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	मनवीर प्रसाद तिवारी	जेसी-699264वाई	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	जाधव गोविन्द किशन राव	जेसी-699265एफ	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	गिरवर सिंह गडावल	जेसी-699266के	01 फरवरी 2016

स्थायी सूबेदार (डेंटल हाईजीनिस्ट)

नायब सूबेदार	योगेश चंद्रा	जेसी-698283एक्स	03 फरवरी 2014
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सुधीर कुमार सिंह	जेसी-698229के	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार मिश्रा	जेसी-698284ए	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	अशोहन टी	जेसी-698285एच	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	बाला सुब्राहमनियम	जेसी-698286एल	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	प्रेम बल्लाभ	जेसी-698287एन	01 अप्रैल 2014

नायब सूबेदार	अस्वनी कुमार सिंह	जेसी—698288डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	रहमान खान	जेसी—698289वाई	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	राजेश कुमार पॉडे	जेसी—698332पी	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	चंद्रा बाबु वी	जेसी—698333एक्स	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	महेन्द्र सिंह बिष्ट	जेसी—698386डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	उदय सिंह	जेसी—698421एन	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	अमर जीत	जेसी—698334ए	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	वेंकटेश के	जेसी—698335एच	18 मार्च 2015'
नायब सूबेदार	उमेश चंद्रा तिवारी	जेसी—698342वाई	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	श्याम लाल	जेसी—698343एफ	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	खुरशीद अहमद	जेसी—698467डब्ल्यू	02 मार्च 2015'

(' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार	सरफरांज	जेसी—698468वाई	01 मई 2015
नायब सूबेदार	सेबासटियन वरगिस ई	जेसी—698427पी	01 मई 2015
नायब सूबेदार	शाजी सी के	जेसी—688505एफ	04 जुलाई 2015''
नायब सूबेदार	प्रभुनाथ राजभर	जेसी—698777एफ	01 जुलाई 2015

('' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार	सन्दीप कुमार बनर्जी	जेसी—698778के	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	भोमा राम	जेसी—698786एच	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	सहदेव महाराणा	जेसी—699069एफ	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	राम प्रसाद दास	जेसी—698867एच	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	भूपाल सिंह मेहरा	जेसी—699221के	28 अक्टूबर 2015'''
नायब सूबेदार	गंगा सिंह बिस्ट	जेसी—698909के	01 अक्टूबर 2015

(''' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार	देवेश कुमार	जेसी—699299पी	02 नवम्बर 2015
--------------	-------------	---------------	----------------

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार	राजेश कुमार धीमन	जेसी—699105एफ	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	राम चरण सोनी	जेसी—699070डब्ल्यू	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	जितेंद्र सिंह घरवार	जेसी—699312एन	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	शंकर सिंह	जेसी—699379एम	01 फरवरी 2016

स्थायी सूबेदार (ओपरेशन रूम असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार	उमेश सिंह राणा	जेसी—697097पी	17 सितम्बर 2012'
नायब सूबेदार	ब्राजेंद्रा कुमार पाण्डे	जेसी—697098एक्स	14 सितम्बर 2012'
नायब सूबेदार	राम बिहारी	जेसी—697099ए	11 सितम्बर 2012'
नायब सूबेदार	डोर्ले अजय त्रिमबक	जेसी—697100के	11 सितम्बर 2012'
नायब सूबेदार	निम्बालकर अजितराव गुनाजी राव	जेसी—697101एम	15 सितम्बर 2012'

नायब सूबेदार	एस मारीमुथू	जेसी-697102पी	11 सितम्बर 2012'
नायब सूबेदार	बाला दत्त	जेसी-697103एक्स	29 सितम्बर 2012'
नायब सूबेदार	पूरण चन्द्रा जोशी	जेसी-697104ए	13 सितम्बर 2012'
नायब सूबेदार	राज कुमार	जेसी-697493एल	03 अक्टूबर 2012'
नायब सूबेदार	अशफाक अहमद	जेसी-697167एच	13 अक्टूबर 2012''
नायब सूबेदार	बीरबल	जेसी-697107एन	11 सितम्बर 2012'
नायब सूबेदार	दीपक मिड्डै	जेसी-697108डब्ल्यू	14 सितम्बर 2012'
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अमूल्य कुमार मोहन्ती	जेसी-697109वाई	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	अशविनि कुमार	जेसी-697111डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	उमाकान्त नायक	जेसी-697383डब्ल्यू	01 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार	सलोखे सुखादे सदाशिव	जेसी-697112वाई	12 जनवरी 2013''
नायब सूबेदार	यु बालामुरुगन	जेसी-696970पी	29 जनवरी 2013''
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	शेश नाथ गिरी	जेसी-697114के	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	पवन कुमार जाडूस	जेसी-697115एम	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	सत्यवान सिंह	जेसी-697117एक्स	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	अंगज नारायण दादू	जेसी-697118ए	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	राजन सिंह	जेसी-697120एक्स	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	चन्द्र पाल	जेसी-697385एफ	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	भगवान सिंह पुनियॉ	जेसी-697384वाई	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	मोरे शिवाजी श्यामराव	जेसी-697169एन	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	पाटिल सुरेश विठल	जेसी-697170एच	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	हुसनाक सिंह	जेसी-697172एन	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	गोबिन्दा चन्द्रा मल्लीक	जेसी-697121ए	22 जुलाई 2013'''
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार यादव	जेसी-697351एन	18 जून 2013'''
नायब सूबेदार	आजाद सिंह	जेसी-697494एन	08 जून 2013'''
नायब सूबेदार	उमेश कुमार तिवारी	जेसी-697495डब्ल्यू	29 जून 2013'''
नायब सूबेदार	टनीमश नाथ	जेसी-697499एम	18 जुलाई 2013'''
नायब सूबेदार	राकेश कुमार गुप्ता	जेसी-697507ए	04 जुलाई 2013'''
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	नवाले नितिन नामदेव	जेसी-697113एफ	07 अगस्त 2013
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 25 जून 2013 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	विक्रम सिंह बजीय	जेसी-697530एन	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	प्रेम नारायण	जेसी-697531डब्ल्यू	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	धिरी सिंह	जेसी-697532वाई	01 सितम्बर 2013

नायब सूबेदार	राम देव सिंह	जेसी-697533एफ	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	कुरेन्द्रा सिंह	जेसी-697575एन	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	अरुना कुमार मुखर्जी	जेसी-697739वाई	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	सुनील कुमार चौधरी	जेसी-697577वाई	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	सत पाल	जेसी-697578एफ	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	राजेन्द्रा सिंह	जेसी-697579के	02 नवम्बर 2013''''
(''''सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	खरक सिंह बिष्ट	जेसी-697580वाई	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	जयप्रकाश	जेसी-697741डब्ल्यू	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	विजेन्द्र सिंह	जेसी-697666एक्स	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	बिरादर सोमनाथ काशी नाथ	जेसी-698065वाई	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	कैलाश चन्द्रा	जेसी-697692वाई	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	अजोय कुमार यादव	जेसी-697667ए	02 दिसम्बर 2013!
नायब सूबेदार	उग्रसेन पटेल	जेसी-697693एफ	02 दिसम्बर 2013!
नायब सूबेदार	निरंजन लाल	जेसी-697701पी	02 दिसम्बर 2013!
नायब सूबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	जेसी-697702एक्स	11 दिसम्बर 2013!
नायब सूबेदार	चन्दन चटर्जी	जेसी-697703ए	02 दिसम्बर 2013!
नायब सूबेदार	रमेश चन्द्रा	जेसी-697704एच	02 दिसम्बर 2013!
नायब सूबेदार	कुमुद सर्मा	जेसी-697705एल	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	जगत पाल	जेसी-697706एन	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	राम सिंह	जेसी-697707डब्ल्यू	08 दिसम्बर 2013!
(! सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	पाटिल भीमगोन्डा कलागोन्डा	जेसी-697708वाई	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	नलावडे बलवंत रघुनाथ	जेसी-697709एफ	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	पाटिल राजेन्द्रा उदाजी	जेसी-697752एच	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	गायकवाड मनोहर साहेब राव	जेसी-697988एक्स	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	कोडग धयनेष्वर दादा	जेसी-697753एल	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	पवार शिवाजी तुकाराम	जेसी-697809एम	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	परब मोहन परशूराम	जेसी-697849एन	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	जेसी-697850एच	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	रनबीर सिंह	जेसी-697851एल	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	एस वेंकाटेशन	जेसी-697852एन	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	दयानन्द	जेसी-697853डब्ल्यू	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	सुन्दर लाल	जेसी-697867डब्ल्यू	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	जगदेव खारे नीमगोन	जेसी-697854वाई	01 फरवरी 2014

नायब सूबेदार	बिरेन्द्रा प्रसाद	जेसी-697914एच	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	उदय सिंह चौहान	जेसी-697891एम	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार	जेसी-697876एक्स	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार बेहरा	जेसी-697923के	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	राम नरेश दुबै	जेसी-697924एम	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	मनोज मंडल	जेसी-698012ए	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	शिव पादा मॉडल	जेसी-697975ए	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	प्रेम कुमार सिंह	जेसी-698014एल	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	मोहम्मद नसिरुद्दिन	जेसी-698015एन	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	मोहम्मद जलिलूर रहमान	जेसी-698016डब्ल्यू	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	बिक्रम सिंह रावत	जेसी-698017वाई	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	स्टेन्ली एम एम	जेसी-698062एल	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	सन्तोष कुमार सिंह	जेसी-698066एफ	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	माने गोविन्द रंगराव	जेसी-698122पी	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	महेन्द्र प्रताप सिंह राठोर	जेसी-698125एच	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	मोहम्मद अंजीर आलम	जेसी-698148के	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जनी उदय बाबू भाई	जेसी-698149एम	21 जून 2014!!
(!! सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	राजकुमार सिंह भाटी	जेसी-698153पी	15 जुलाई 2014!!!
नायब सूबेदार	बंसी लाल सुतार	जेसी-698181एफ	08 सितम्बर 2014!!!
(!!! सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	जी श्रीनिवासूलू	जेसी-698319एल	04 अगस्त 2014
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	बलवान सिंह	जेसी-698183एम	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	सुभाष चन्द्र	जेसी-699184पी	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	पुष्पीन्दर सिंह	जेसी-698185एक्स	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	मसारपू रामचन्द्रा नायडू	जेसी-698186ए	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	एच प्रगालादन	जेसी-698187एच	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	विरेन्द्र प्रसाद सिल्सवाल	जेसी-698188एल	08 जनवरी 2015/
नायब सूबेदार	धिरेन्द्रा सिंह रावत	जेसी-698189एन	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	नरेन्द्रा कुमार	जेसी-698190एच	04 दिसम्बर 2014/
नायब सूबेदार	चन्द्रा शेखर	जेसी-698191एल	01 दिसम्बर 2014
(/ सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सत्येन्द्रा सिंह	जेसी-698192एन	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	पूर्ण चन्द्र जोशी	जेसी-698193डब्ल्यू	01 जनवरी 2015

नायब सूबेदार	सुशील कुमार	जेसी-698194वाई	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	हरीकिसन भुरिया	जेसी-698195एफ	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	सुशील कुमार वी	जेसी-698196के	04 फरवरी 2015 / /
(/ / सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	भोला नाथ सिंह	जेसी-698197एम	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	विनोद कुमार पाण्डे	जेसी-698198पी	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	रमेश कुमार	जेसी-698384एल	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	रामचन्द्रा कुरुप डी	जेसी-698217पी	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	गणेश सिंह	जेसी-698320ए	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	जीतेन्द्रा कुमार राय	जेसी-698218एक्स	01 मई 2015
नायब सूबेदार	बालाचन्द्रन नायर वी	जेसी-698219ए	01 मई 2015
नायब सूबेदार	साजिमोन पी एस	जेसी-698220पी	01 मई 2015
नायब सूबेदार	विनोद के ए	जेसी-698387वाई	04 जून 2015 / / /
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	जेसी-698336एल	17 अगस्त 2015 / / /
नायब सूबेदार	गोলাম मोरतूजा	जेसी-698337एन	04 जुलाई 2015+
(+ सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	धर्मवीर सिंह	जेसी-698338डब्ल्यू	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार	सुरजित साह	जेसी-698339वाई	31 जुलाई 2015++
नायब सूबेदार	भरत तिवारी	जेसी-698388एफ	29 जुलाई 2015++
नायब सूबेदार	सोलंकी गुलाब सिंह देवाभाई	जेसी-698392के	10 जुलाई 2015++
नायब सूबेदार	पटेल घनश्याम भाई चन्दूलाल	जेसी-698393एम	01 जुलाई 2015
(++ सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	चमार नाटुभाई अलखाभाई	जेसी-698432ए	05 अगस्त 2015+++
नायब सूबेदार	सत्यन्द्रा कुमार	जेसी-698469एफ	01 अगस्त 2015
(+++ सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	के सौन्दरा राजन	जेसी-698433एच	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	प्रवीन कुमार शर्मा	जेसी-698470डब्ल्यू	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	अन्बू जे	जेसी-698474एम	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	रंजीव सिंह	जेसी-698476एक्स	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	कूशलेन्द्रा सिंह चौहान	जेसी-698513ए	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	अनिल कुमार सिंह	जेसी-698514एच	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	रविन्द्रा सिंह हडा	जेसी-698536एफ	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	चन्द्रा मनी प्रसाद उपाध्याय	जेसी-698555एम	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	गोলাম किब्रीया	जेसी-698556पी	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	सुरेश प्रताप सिंह	जेसी-698600एन	01 अक्टूबर 2015

नायब सूबेदार	शक्ति प्रसाद साही	जेसी-698601डब्ल्यू	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	कप्तान सिंह	जेसी-698602वाई	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	भुवन चन्द्रा मुवानी	जेसी-698603एफ	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	मारे प्रकाश भैरू	जेसी-698667एम	02 नवम्बर 2015:
नायब सूबेदार	पूरण सिंह नयाल	जेसी-698674एच	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार नेगी	जेसी-698706ए	02 नवम्बर 2015:

(:सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	विजय पाल	जेसी-698690ए	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	अनिल कुमार	जेसी-698791एन	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	सुखबीर सिंह त्यागी	जेसी-699150एन	18 दिसम्बर 2015::
नायब सूबेदार	माहेन्द्रा सिंह	जेसी-698676एन	01 दिसम्बर 2015

(:सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	जितेन्द्रा सिंह	जेसी-698692एल	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	राम अवतार शर्मा	जेसी-698693एन	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	नारायण सिंह	जेसी-698677डब्ल्यू	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	तकाले पान्दूरंग भानूदास	जेसी-698765एम	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	प्रविन कुमार शर्मा	जेसी-698768ए	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	रमेश चन्द्र	जेसी-698769एच	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	जय सिंह	जेसी-698770एक्स	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	शिवदेव कुमार	जेसी-698771ए	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	राजेश कुमार	जेसी-698772एच	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	लटेकर राजू महादेव	जेसी-698773एल	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	पठान रमजान अहमद	जेसी-698861एफ	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	देवेन्द्र	जेसी-699056के	01 फरवरी 2016

स्थायी सूबेदार (हेल्थ असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार	शंकर महतो	जेसी-696421पी	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	विजय कुमार	जेसी-696616ए	01 मई 2013
नायब सूबेदार	मिथला प्रसाद तिवारी	जेसी-696912एल	01 मई 2013
नायब सूबेदार	विनोय के पी	जेसी-696697एल	11 अक्टूबर 2013'

(' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	सुनील कुमार एस पी	जेसी-697008एल	02 सितम्बर 2013''
नायब सूबेदार	श्याम करन	जेसी-696820वाई	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	गंगा प्रसाद	जेसी-696727एक्स	02 सितम्बर 2013''
नायब सूबेदार	राजरूप तिवारी	जेसी-696821एफ	04 सितम्बर 2013''
नायब सूबेदार	अरुण कुमार	जेसी-696913एन	02 सितम्बर 2013''
नायब सूबेदार	नरेन्द्रा सिंह राठोर	जेसी-697490एक्स	02 सितम्बर 2013''
नायब सूबेदार	मुर्ताज अली अहमद	जेसी-697133पी	01 सितम्बर 2013

(' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	चन्द्र चुर प्रसाद	जेसी-697572ए	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	संजीव कुमार	जेसी-697695एम	08 जनवरी 2014'''
नायब सूबेदार	मनोज कुमार सिंह	जेसी-697135ए	07 फरवरी 2014'''
नायब सूबेदार	राजु टी	जेसी-697324के	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	छालके अशोक छन्दरू	जेसी-697136एच	11 फरवरी 2014'''
(''' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	धीरेन्द्रा कुमार सेनापती	जेसी-697137एल	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	नन्दजी सिंह	जेसी-697164पी	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	राजेश कुमार	जेसी-697165एक्स	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	देवानन्दा दास	जेसी-697138एन	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	मोहम्मद नाजी मुद्दिन	जेसी-697166ए	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	कमल दयो शर्मा	जेसी-697212के	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	सजित कुमार एस	जेसी-697367वाई	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	मोहसिन के के	जेसी-697475एच	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	कमल किशोर	जेसी-697509एल	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	अमरेन्द्र तिवारी	जेसी-697744के	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	एल अन्थोनी सामी	जेसी-697754एन	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	उदय कुमार एस	जेसी-697869एफ	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	अजय कुमार पी	जेसी-697802एच	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	साजू के पी	जेसी-697755डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	राम अवध सिंह यादव	जेसी-697881एच	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जरनैल सिंह	जेसी-697970एफ	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	उपिन्द्र जीत सिंह	जेसी-698118एम	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	छोटे लाल सिंह	जेसी-698120के	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जहर लाल दास	जेसी-698121एम	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	बृज किशोर सिंह	जेसी-698127एन	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	प्रताप सिंह जाखड	जेसी-698128डब्ल्यू	01 मई 2014
नायब सूबेदार	अविनाश चन्द्र	जेसी-698296पी	15 जुलाई 2014!
नायब सूबेदार	राज कुमार परमार	जेसी-698297एक्स	01 जुलाई 2014
(! सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	रमेश चन्द्रा त्रिपाठी	जेसी-698301पी	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	प्रदिप कुमार उपाधय	जेसी-698302एक्स	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	अशोक कुमार	जेसी-698303ए	01 अक्टूबर 2014

नायब सूबेदार	असोकन एम एस	जेसी-698394पी	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	कामैखया नारायण सिंह	जेसी-698395एक्स	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	श्रभाते राजेश बाजिराव जी	जेसी-698119पी	11 फरवरी 2015!!
(!! सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	शिवा प्रसाद बी आर	जेसी-698396ए	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	जेसी-698397एच	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार	राजा एफ	जेसी-698398एल	03 सितम्बर 2015!!!
नायब सूबेदार	धर्मेन्द्र कुमार कृष्णा	जेसी-698422डब्ल्यू	22 अगस्त 2015!!!
(!!! सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	किशोर चन्द्रा साहू	जेसी-698423वाई	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	प्रबोध कुमार हजरा	जेसी-698471वाई	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	महिपाल सिंह	जेसी-698515एल	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	सतीश कुमार	जेसी-698516एन	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	तपसकुमार दास	जेसी-698517डब्ल्यू	07 अक्टूबर 2015 /
नायब सूबेदार	बेनुधर नायक	जेसी-698596डब्ल्यू	06 अक्टूबर 2015 /
नायब सूबेदार	मकी रैड्डी ईश्वरा रैड्डी	जेसी-698728वाई	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	दयो चन्द्रा कुमार	जेसी-698729एफ	01 अक्टूबर 2015
(/ सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मनोज कुमार शर्मा	जेसी-698775डब्ल्यू	08 दिसम्बर 2015 / /
नायब सूबेदार	राजेन्द्रा भट्ट	जेसी-698776वाई	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार	जेसी-698787एल	26 नवम्बर 2015 / /
नायब सूबेदार	हेंगूलाम लहूवम	जेसी-699169एम	01 नवम्बर 2015
(/ / सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मनोज कुमार एन	जेसी-699170एफ	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	शम्भू कुमार ईश्वर	जेसी-699171के	14 दिसम्बर 2015 / / /
(/ / / सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अरुण कुमार यादव	जेसी-699172एम	01 जनवरी 2016

स्थायी सूबेदार (लैबोरेटरी असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार	रवीन्द्रा कुमार	जेसी-697359ए	05 मार्च 2012'
नायब सूबेदार	कुमार पाल सिंह	जेसी-697400एल	23 मार्च 2012'
(' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	रतनेशवर द्विवेदी	जेसी-697360पी	10 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	टाण्डले दायाराम पुण्डलीक	जेसी-697401एन	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार	प्रेम सिंह	जेसी-697402डब्ल्यू	03 अक्टूबर 2012''
नायब सूबेदार	पवन कुमार	जेसी-697361एक्स	11 अक्टूबर 2012''

नायब सूबेदार	मधुसुदन्न पिल्लई एन	जेसी-697362ए	09 नवम्बर 2012''
नायब सूबेदार	जंगावे अशोक शिव मुरती	जेसी-697764एक्स	29 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	जेसी-697925पी	28 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	कोडे सुब्बरायुदु	जेसी-697926एक्स	20 अक्टूबर 2012''
नायब सूबेदार	सुखविन्द्र सिंह	जेसी-697977एल	27 अक्टूबर 2012''
नायब सूबेदार	गंगाधर साहू	जेसी-697978एन	26 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	वि देबराज	जेसी-697979डब्ल्यू	27 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	धीरेन कुमार पानी	जेसी-698265पी	11 जुलाई 2013''
नायब सूबेदार	एम शिवसंकरन	जेसी-697980एल	29 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	राम मोहन के	जेसी-697981एन	03 अक्टूबर 2012''
नायब सूबेदार	अनिल कुमार	जेसी-697982डब्ल्यू	30 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	अनिल कुमार सिंह	जेसी-697983वाई	28 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	रंजन कुमार जेना	जेसी-697987पी	20 अक्टूबर 2012''
नायब सूबेदार	राम मनोहर यादव	जेसी-687984एफ	28 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	पावर जितेन्द्रा चिन्तामनी	जेसी-698028एल	29 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	सूर्यवंशी श्रीहरी गनपत राव	जेसी-698029एन	29 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	उपेन्द्रा प्रसाद	जेसी-698030एच	28 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	दिनेश कुमार	जेसी-688031एल	28 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	प्रवीन कुमार माल	जेसी-698216एम	29 सितम्बर 2012''
नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार चौधरी	जेसी-698178एफ	05 जनवरी 2013''
(" सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सोमेश्वर घोश चौधरी	जेसी-698057ए	05 जनवरी 2013'''
नायब सूबेदार	सन्तोश कुमार पाल	जेसी-698108एच	14 जनवरी 2013'''
('' सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सतीश कुमार	जेसी-698056एक्स	01 फरवरी 2013
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 11 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	जीवन सिंह खाटी	जेसी-698032एन	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	भोजि महादेव मल्लापा	जेसी-698033डब्ल्यू	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	मुश्ताक अहमद मीर	जेसी-698034वाई	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	विलवनाथन	जेसी-698011एक्स	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	एम एस अरुमु गम	जेसी-698035एफ	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	भीरके अरुन नहानु	जेसी-698036के	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	पिताम्बर रावत	जेसी-698037एम	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	किशोर महन्ता	जेसी-698038पी	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	भारत भूषण	जेसी-698039एक्स	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	जांगवे गणपती शिवमूर्ती	जेसी-698040एम	01 अगस्त 2013

नायब सूबेदार	मागडे जुंगजार रेवनसिधा	जेसी-698063एन	02 सितम्बर 2013!
(!सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	राम सहाय सिंह	जेसी-698109एल	03 अक्टूबर 2013!!
नायब सूबेदार	पुशप राज	जेसी-698110ए	04 अक्टूबर 2013!!
(!! सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सत्यपाल	जेसी-699139पी	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार शिवहरे	जेसी-698150एफ	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	युधबीर सिंह	जेसी-698151के	03 दिसम्बर 2013!!!
नायब सूबेदार	भुपाल सिंह	जेसी-698199एक्स	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	गजेन्द्र सिंह	जेसी-698200एफ	20 दिसम्बर 2013!!!
(!!! सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मोहम्मद जाबीर	जेसी-6983221एक्स	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	देवी सिंह	जेसी-698533एन	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	सागी पी	जेसी-698222ए	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	अरबिन्द कुमार शुकला	जेसी-698223एच	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	धनबीर सिंह	जेसी-698201के	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	लल्ला सिंह	जेसी-698307डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	राजेन्द्रा कुमार पान्डे	जेसी-698321एच	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	सुरेन्द्रा सिंह रावत	जेसी-698385एन	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	पूरण चन्द पाठक	जेसी-698331एम	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	हेम चन्द्रा	जेसी-698425के	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	प्रताप कुमार पान्ढब	जेसी-698477ए	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	बिसवानाथ सरकार	जेसी-698790एल	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	राज किशोर	जेसी-698561ए	07 फरवरी 2014+
नायब सूबेदार	प्रभाकर सिंह	जेसी-698554के	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	देवेन्द्रा कुमार	जेसी-698680डब्ल्यू	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	अनिल कुमार ओझा	जेसी-698681वाई	03 फरवरी 2014+
(+-सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मुनीश कुमार	जेसी-698695वाई	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	रोहताश कुमार	जेसी-698679एफ	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	सि एच वैकाटेस्वरा राव	जेसी-699592एम	11 जुलाई 2014++
नायब सूबेदार	राणा अनिल कुमार गजेन्द्र सिंह	जेसी-698696एफ	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	दौ नन्दन प्रसाद मान्झी	जेसी-698698एम	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	अविनास कुमार	जेसी-698699पी	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	अमर सिंह राज कुमार	जेसी-698697के	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	बी मधुसूदन	जेसी-698809वाई	02 जुलाई 2014++

नायब सूबेदार	राजीव कुमार	जेसी-698136एफ	01 अगस्त 2014++
नायब सूबेदार	प्राफुल कुमार चन्द्रा	जेसी-698810एन	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	कमल सिंह	जेसी-698811डब्ल्यू	01 अगस्त 2014++
नायब सूबेदार	जगदीश चन्द्रा टाटरारी	जेसी-699050एच	14 मार्च 2014++
नायब सूबेदार	विध्यासागर	जेसी-699103डब्ल्यू	24 मार्च 2014++
नायब सूबेदार	विनोद कुमार पी वी	जेसी-698988के	01 सितम्बर 2014++
नायब सूबेदार	सुबराता सरकार	जेसी-698934एच	01 सितम्बर 2014++
(++ सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मिरजा इसतियाक बेग	जेसी-698873डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	आनन्द बास	जेसी-698935एल	01 सितम्बर 2014:
नायब सूबेदार	नरेन्द्रा कुमार प्राधान	जेसी-698874वाई	01 सितम्बर 2014:
नायब सूबेदार	स्वामी नाथ यादव	जेसी-699157एक्स	01 सितम्बर 2014:
नायब सूबेदार	दभोलकर मोहन रामाकान्त	जेसी-699073के	01 अप्रैल 2014
(: सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	श्यामवीर सिंह	जेसी-699156पी	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	हराज सिंह	जेसी-698875एफ	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	वेद पाल सिंह	जेसी-698989एम	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	बुरुद शामराव गण्पती	जेसी-699110एम	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	उत्तरा कुमार	जेसी-699104वाई	07 नवम्बर 2014::
(:: सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अनिल कुमार गुप्ता	जेसी-699178एन	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	यादव संतोश शीतला प्रसाद	जेसी-698876के	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	दीपक कुमार मल्लीक	जेसी-698877एम	18 दिसम्बर 2014:::
(::: सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	जय सिंह	जेसी-699137के	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	प्रवीन कुमार	जेसी-699075पी	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	गोलक बिहारी साहू	जेसी-698990एफ	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	जाघव विजय कुमार गन्पतराव	जेसी-699209एच	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	नीलाछला साहू	जेसी-699276एन	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	आर राजेन्दीरन	जेसी-699277डब्ल्यू	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	रमेश चन्द्रा	जेसी-699305एक्स	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	राजेश कुमार यादव	जेसी-699306ए	02 मार्च 2015 /
(/ सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार	जेसी-699307एच	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	छतर सिंह	जेसी-699309एन	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	मान सिंह	जेसी-699479एक्स	20 अप्रैल 2015 / /

नायब सूबेदार	शैक अब्दुल रहीम	जेसी-699310एच	01 अप्रैल 2015
(// सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	पारसेकर बालकृष्णा मधुकर	जेसी-699311एल	01 मई 2015
नायब सूबेदार	दलबीर सिंह	जेसी-699317एम	01 मई 2015
नायब सूबेदार	कमलेश नारेन गुप्ता	जेसी-699472एन	12 जून 2015// //
(// // सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	टी एस नटराजन	जेसी-699473डब्ल्यू	10 जुलाई 2015;
नायब सूबेदार	मनोरंजन दास	जेसी-699523डब्ल्यू	10 जुलाई 2015;
नायब सूबेदार	अश्वनी कुमार	जेसी-699612पी	25 जुलाई 2015;
(: सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	एम श्रीनिवासुलू	जेसी-699579एच	31 अगस्त 2015
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	पात्रे दात्तु लक्ष्मण	जेसी-699580एक्स	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	ए सुरेन्दीरन	जेसी-699687एम	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	सुखविन्द्र पाल सिंह	जेसी-699781डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	विरेन्द्रा सिंह	जेसी-699803के	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	के बूपथी	जेसी-699831डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	आर रथीना सामी	जेसी-699782वाई	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	पी मुनीश्वरन	जेसी-699832वाई	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	गोरंगा चन्द्रा मोहन्ती	जेसी-700306पी	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	राम स्वरूप सिंह	जेसी-699907एल	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	हरीश चन्द्रा	जेसी-700004एच	04 नवम्बर 2015;;
नायब सूबेदार	गजराज सिंह शेखावत	जेसी-699884पी	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	अरविन्द गायकवाड	जेसी-699885एक्स	02 नवम्बर 2015;;
नायब सूबेदार	जमेरोल हैक	जेसी-699886ए	21 नवम्बर 2015;;
नायब सूबेदार	शिवा प्रसाद एन ए	जेसी-699887एच	18 दिसम्बर 2015;;
नायब सूबेदार	अमर नाथ	जेसी-699958वाई	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	रमेश सिंह	जेसी-699908एन	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	नेपाल सिंह	जेसी-699909डब्ल्यू	01 नवम्बर 2015
(; सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	वी पी दिनश बाबू	जेसी-699911एन	03 दिसम्बर 2015;;;
नायब सूबेदार	रोहित प्रधान	जेसी-699913वाई	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	राम किशन	जेसी-699914एफ	30 दिसम्बर 2015;;;
नायब सूबेदार	सिसतु हरी करुशाना	जेसी-699915के	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	कमन सिंह सामंत	जेसी-700050एक्स	01 दिसम्बर 2015
(;; सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी।)			

नायब सूबेदार	अजीत कुमार पी टी	जेसी-700052एच	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	जगत सिंह माटे	जेसी-700054एन	21 जनवरी 2016;::;
(::; सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	रामफल विकल	जेसी-700055डब्ल्यू	01 फरवरी 2016

स्थायी सूबेदार (क्लर्क एस डी)

नायब सूबेदार	राजेन्द्र मीठरवाल	जेसी-697424पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	परसू राम नायक	जेसी-697441पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	सभापती यादव	जेसी-697443ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	संजय कुमार	जेसी-697425एक्स	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	ब्रजेश कुमार	जेसी-697463एन	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	रामनन्दन प्रसाद	जेसी-697841एफ	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	गदांकुश नरेन्द्र श्यामराव	जेसी-697997वाई	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	राउत वैजनाथ दत्तात्रय	जेसी-697908पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	सुभाष चन्द्र	जेसी-698413पी	01 मई 2014
नायब सूबेदार	राम किशोर सिंह	जेसी-698051वाई	01 मई 2014
नायब सूबेदार	राजबीर	जेसी-697912एक्स	01 मई 2014
नायब सूबेदार	शुभलक्ष कुमार त्यागी	जेसी-698239एन	01 मई 2014
नायब सूबेदार	कदम हिम्मत रामराव	जेसी-697951डब्ल्यू	14 जून 2014'
नायब सूबेदार	डी दनियल	जेसी-697952वाई	07 जून 2014'
नायब सूबेदार	आर सेकर	जेसी-697953एफ	01 जून 2014
नायब सूबेदार	के आर चेरन चेन्गुतुवन	जेसी-697954के	01 जून 2014
नायब सूबेदार	भुवन लाल साहु	जेसी-697955एम	06 जून 2014'
नायब सूबेदार	आनन्द सिंह बिष्ट	जेसी-697999के	24 जून 2014'

(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	दोलेन्द्र पटनायक	जेसी-697996डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	एस नागेश्वर राव	जेसी-698001एन	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	भवानी दीन	जेसी-698002डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	संजय सिंह	जेसी-698003वाई	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	सतबीर सिंह	जेसी-698004एफ	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	शिव ओम द्विवेदी	जेसी-698005के	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	अंगवटोन सिंघा	जेसी-698006एम	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	सिबनन्द मंडल	जेसी-698007पी	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार पटनायक	जेसी-698131डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	बिश्वनाथ हलदर	जेसी-698202एम	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	अलाउद्दीन मंडल	जेसी-698134के	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	सिबसंकर मंडल	जेसी-698135एम	07 जुलाई 2014''

नायब सूबेदार	गौरहरी जाना	जेसी-698136पी	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	जगदीश चन्द्र गैन	जेसी-698155ए	01 जुलाई 2014
("सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	ब्रिज किशोर राय	जेसी-698240एच	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	थाम्बय नेसा कुमार एन	जेसी-698238एल	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	ज्ञान प्रकाश	जेसी-698241एल	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	गुलाब चन्द्र त्रिपाठी	जेसी-698242एन	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	हितेश	जेसी-698244वाई	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	जीवन सिंह नैगी	जेसी-698361के	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	रमेश चन्द्र	जेसी-698245एफ	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	राम नवल राम	जेसी-698540के	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	प्रकाश चन्द	जेसी-698375के	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	जितेन्द्र प्रसाद	जेसी-698380पी	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	बाबू टी जे	जेसी-698345एम	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	कृष्णा पाडा दत्ता	जेसी-698378एक्स	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	सुदर्शन पांडा	जेसी-698451एल	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	देवेन्द्र प्रताप सिंह	जेसी-698538एम	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	पिजूष कान्ती पाल	जेसी-698492पी	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	बम बहादुर सिंह	जेसी-698454वाई	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	मुनीरतनम	जेसी-698460एम	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	कन्हरे अनिल सुबराव	जेसी-698501एल	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	गजेरा दलसुख धनजी	जेसी-698496एल	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	कांबले नाना साहेब खंडू	जेसी-698497एन	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	जय प्रकाश एम	जेसी-699146एल	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	देवेन्द्र कुमार	जेसी-698498डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	दर्शन सिंह	जेसी-698499वाई	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	रमन शर्मा	जेसी-698500एच	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	प्रेम चन्द	जेसी-698569एम	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	बल्मिकि तिवारी	जेसी-698567एफ	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	गोर किशोर सिंघा	जेसी-698578एन	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	वेद प्रकाश पाण्डे	जेसी-698568के	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	जेसी-698579डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	प्रबीर चट्टोपाध्याय	जेसी-698580एल	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	बटेश्वर मिश्रा	जेसी-698581एन	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	बसंत कुमार	जेसी-698584एफ	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार	जेसी-698641एक्स	01 फरवरी 2015

नायब सूबेदार	संजीव कुमार	जेसी—698642ए	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	प्रकाश सिंह	जेसी—698643एच	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	पवन कुमार	जेसी—698645एन	14 मार्च 2015'
नायब सूबेदार	बलजीत सिंह	जेसी—698646डब्ल्यू	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	देवेन्द्र कुमार	जेसी—698647वाई	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	राम दुलार प्रसाद	जेसी—698648एफ	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	शिंदे परशुराम सावता	जेसी—698650वाई	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	जय राम सिंह	जेसी—698651एफ	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	करनेल चंद	जेसी—698652के	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	अरून कुमार	जेसी—698653एम	01 अप्रैल 2015'
'(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सूरज मोहन सिंह	जेसी—698756एल	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	सुशील कुमार दास	जेसी—698654पी	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	बलबीर सिंह यादव	जेसी—699128एच	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	एन देवराजन	जेसी—698758डब्ल्यू	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	एन रंगाराज	जेसी—698846एम	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	रामा नंद	जेसी—698782एम	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	हजारे संताजी नामदेव	जेसी—698783पी	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	रमेश चौहान	जेसी—698813एफ	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	राज कुमार सिंह	जेसी—698825डब्ल्यू	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	अजय कुमार	जेसी—698991के	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	हरी शंकर	जेसी—698826वाई	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	समेन्द्रा सिंह चौहान	जेसी—698850पी	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	अजय कुमार सिंह	जेसी—698838एन	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	शिवा कुमारन पी	जेसी—699082एल	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार	जेसी—699189ए	02 अप्रैल 2015''
नायब सूबेदार	हरा प्रसाद नायक	जेसी—699083एन	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	लक्ष्मी धर पुरुस्ती	जेसी—699084डब्ल्यू	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	अशोक कुमार	जेसी—699085वाई	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	संजय कुमार दास	जेसी—699211ए	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	पी मईयप्पन	जेसी—699086एफ	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	तेज राम	जेसी—699190पी	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	कलिन्द्र साहु	जेसी—699191एक्स	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	राज कुमार	जेसी—699192ए	09 अप्रैल 2015''
''(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अनुसुरू प्रकाश राव	जेसी—699193एच	06 जून 2015'''

नायब सूबेदार	मनी कान्त कुमार	जेसी-6999194एल	01 मई 2015
नायब सूबेदार	रनवीर सिंह ठाकुर	जेसी-699195एन	01 मई 2015
नायब सूबेदार	कल्यान सिंह	जेसी-699323ए	01 मई 2015
नायब सूबेदार	चवन पुरुषोत्तम मोहनराव	जेसी-699324एच	01 मई 2015
नायब सूबेदार	बेनी माधव शर्मा	जेसी-699325एल	01 मई 2015
'''(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	प्रजापती भरत कुमार सोमा भाई	जेसी-699326एन	06 जून 2015 /
नायब सूबेदार	जय प्रकाश एस	जेसी-699327डब्ल्यू	08 जून 2015 /
नायब सूबेदार	अशोक सिंह चौहान	जेसी-699328वाई	01 जून 2015
नायब सूबेदार	सन्त राम	जेसी-699329एफ	06 जून 2015 /
नायब सूबेदार	मेवा लाल वर्मा	जेसी-699330डब्ल्यू	01 जून 2015
नायब सूबेदार	श्याम लाल टमटा	जेसी-699331वाई	13 जून 2015 /
/ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	जे पी जसोला	जेसी-699332एफ	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार	श्याम किशोर	जेसी-699333के	02 जुलाई 2015 / /
/ / (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	उमापथी डी	जेसी-699334एम	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	रमन कुमार झा	जेसी-699335पी	03 अगस्त 2015 / / /
नायब सूबेदार	जितेन्द्र बहादुर सिंह	जेसी-699337ए	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	पूरन सिंह कारकी	जेसी-699338एच	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	विजय सिंह	जेसी-699339एल	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	सिता राम प्रजापती	जेसी-699340एल	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	लडकत गनपत रघुनाथ	जेसी-699440एल	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	देविन्द्र सिंह	जेसी-699441एन	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	शेख जलाल साहेबलाल	जेसी-699442डब्ल्यू	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	शिव निरंजन प्रसाद सिंह	जेसी -699444एफ	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	नगेन्द्र सिंह	जेसी-699445के	01 अगस्त 2015
/ / / (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अजय कुमार सिंह	जेसी-699446एम	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	ओमकार नाथ गुप्ता	जेसी-699447पी	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	राम प्रवेश सिंह	जेसी-699448एक्स	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	अनिल कुमार	जेसी-699449ए	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	कर्मबीर सिंह	जेसी-699514पी	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	सत्य पाल	जेसी-699515एक्स	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	राजेन्द्र प्रसाद	जेसी-699516ए	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	शिंदे रामचन्द्र नारायण	जेसी-699517एच	01 सितम्बर 2015

नायब सूबेदार	राजबीर सिंह यादव	जेसी-699581ए	03 अक्टूबर 2015+
नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	जेसी-699582एच	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	नीरज कुमार	जेसी-699583एल	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	सुखदेव सिंह	जेसी-699601एच	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	अदन पाल	जेसी-699618डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2015
+(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	राम दयाल	जेसी-699584एन	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	राज कनवर	जेसी-699619वाई	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	प्रदीप पी एस	जेसी-699585डब्ल्यू	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	हरी सिंह	जेसी-699586वाई	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	अजय कुमार के	जेसी-699588के	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	राजीवन पिल्लई के	जेसी-699589एम	04 दिसम्बर 2015++
नायब सूबेदार	सुनील ऐ के	जेसी-699590एफ	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	रविन्द्र महाराज	जेसी-699647एल	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	वीर सिंह	जेसी-699648एन	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	गिरीश कुमार बी	जेसी-699649डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2015
++(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	ओमना कुट्टन एन	जेसी-699651एन	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	साजी डी	जेसी-699652डब्ल्यू	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	बलवान सिंह	जेसी-699553वाई	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	ब्रजादु लाल समय	जेसी-699723एम	29 जनवरी 2016+++
नायब सूबेदार	लोकश कुमार	जेसी-699724पी	01 जनवरी 2016
+++ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अमर सिंह	जेसी-699725एक्स	11 जनवरी 2016+
+(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 03 जनवरी 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	शंकर बैठा	जेसी-699726ए	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	संदीप कुमार गौर	जेसी-699727एच	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	शिवा कुमार पी	जेसी-699728एल	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	रुहल अमीन बिस्वास	जेसी-699729एन	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	ओम प्रकाश साद	जेसी-699730एच	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	हरीश चन्द्र	जेसी-699732एन	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	जोस अब्राहम	जेसी-699733डब्ल्यू	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	अरुन कुमार के एम	जेसी-699734वाई	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	एस राजसेकरन	जेसी-699735एफ	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	आर जगन्नाथ	जेसी-6999736के	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	जगदीश बाबू बी	जेसी-699948पी	01 मार्च 2016

नायब सूबेदार	गोपाल सरन भारद्वाज	जेसी—699853पी	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	राजेन्द्र प्रसाद	जेसी—699949एक्स	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	विनोद कुमार शर्मा	जेसी—699854एक्स	01 मार्च 2016

स्थायी सूबेदार (एस के टी)

नायब सूबेदार	चौधरी सुभाष पंढरीनाथ	जेसी—696904एम	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	देवकी नन्दन	जेसी—696905पी	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	विनोद कुमार ठाकुर	जेसी—696907ए	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	टोगी कोटेश्वर राव	जेसी—696992एच	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	के मुथू रामालिंगम	जेसी—696997एम	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	जेसी—696993डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	श्याम देव सिंह यादव	जेसी—696994वाई	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	उदय दास	जेसी—697053एक्स	02 दिसम्बर 2013'
नायब सूबेदार	पारले महादेव महीपति	जेसी—697054ए	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	जगमोहन सिंह बिस्ट	जेसी—697242एफ	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	निकोलस रवि पी	जेसी—697243के	02 दिसम्बर 2013'
नायब सूबेदार	प्रभू राव के	जेसी—697514डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013

'(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	मुंजप्रा गिरीश कुमार रावजी	जेसी—6978371एन	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	रमेश मालवीय	जेसी—697464डब्ल्यू	24 फरवरी 2014''
नायब सूबेदार	बिध्या नाथ ठाकुर	जेसी—697513एन	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	नैपाल सिंह	जेसी—697569ए	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	अजय कुमार जी	जेसी—697663के	02 जनवरी 2014''
नायब सूबेदार	मौहम्मद घोसे आई	जेसी—697723एन	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	दवेन्द्र नारायण	जेसी—697837वाई	01 जनवरी 2014

''(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	सरदार सिंह भाटी	जेसी—697778के	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	देवी लाल	जेसी—697782ए	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	प्रदीप नारायण पाण्डे	जेसी—697783एच	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	श्री भगवान	जेसी—697909एक्स	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	सम सुल इस्लाम	जेसी—697910एम	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	सुभाष चन्द्र यादव	जेसी—697998एफ	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	राम शंकर	जेसी—697957एक्स	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	बाबु राम	जेसी—697958ए	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	रिशी कुमार	जेसी—697911पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	मदन लाल	जेसी—698233एम	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	ओमकार सिंह	जेसी—697956पी	01 अप्रैल 2014

नायब सूबेदार	राम निवास	जेसी-698008एक्स	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	सनातन सिंह	जेसी-698009ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	संतोश कुमार श्रीवास	जेसी-698052एफ	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	परमात्मा प्रसाद यादव	जेसी-698052एफ	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	सारंगधरन के	जेसी-698129वाई	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	गिरजा शंकर पांडे	जेसी-698132वाई	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	रविन्द्र कुमार उपाध्याय	जेसी.698133एफ	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	आनंद किशोर सिंह	जेसी-698154एक्स	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	श्याम सुंदर	जेसी-698159डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	अलादु नारसिंह मुर्ती	जेसी-698160एल	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	श्याम देव राय	जेसी.698237एच	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	अरुनोदया सामल	जेसी-698352एच	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	जेसी-698248पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	एम डी नियामत	जेसी-698382ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	सक्रुरु सत्यानारायन	जेसी-698274डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	सत्येन्द्र प्रसाद राय	जेसी-698253ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	अरविन्द कुमार	जेसी-698346पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	विपिन कुमार	जेसी-698277के	01 मई 2014
नायब सूबेदार	गजेन्द्र प्रताप	जेसी-698354एन	01 मई 2014
नायब सूबेदार	संजय कुमार सिंह	जेसी-698350एक्स	01 मई 2014
नायब सूबेदार	राम किशोर	जेसी-698353एल	01 मई 2014
नायब सूबेदार	एम डी मनीरुल इस्लाम	जेसी-698347एक्स	01 मई 2014
नायब सूबेदार	सुजाराम चौधरी	जेसी-698359एम	01 मई 2014
नायब सूबेदार	मनोजीत घोश	जेसी-698418एन	01 मई 2014
नायब सूबेदार	जीव राज भाटी	जेसी-698373वाई	01 मई 2014
नायब सूबेदार	शिव राज सिंह	जेसी-698369डब्ल्यू	23 जून 2014'''
नायब सूबेदार	संतोश कुमार	जेसी-698381एक्स	03 जून 2014'''
नायब सूबेदार	गोपीनाथ के	जेसी-698417एल	21 जून 2014'''
नायब सूबेदार	रामवीर सिंह	जेसी-698463ए	23 जून 2014'''
'''(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	दीपक कुमार घोश	जेसी-698374एफ	30 जुलाई 2014 /
/ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 03 जून 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मुथू के	जेसी-698465एल	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	डी बाबु	जेसी-698495एच	06 अगस्त 2014 / /
नायब सूबेदार	विरेन्द्र पाल सिंह	जेसी-698537के	05 जुलाई 2014 / /
नायब सूबेदार	रणवीर सिंह	जेसी-698562एच	01 जुलाई 2014

नायब सूबेदार	वहाने राजहंस पारश राम	जेसी-698585के	08 जुलाई 2014 //
नायब सूबेदार	अशोक कुमार शर्मा	जेसी-698586एम	07 जुलाई 2014 //
नायब सूबेदार	करन सिंह	जेसी-698587पी	07 जुलाई 2014 //
नायब सूबेदार	चद्रां राम चौधरी	जेसी-698655एक्स	06 अगस्त 2014 //
नायब सूबेदार	जी रामा सामी	जेसी-698656ऐ	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	रामसरी यादव	जेसी-698657एच	03 जुलाई 2014 //
नायब सूबेदार	सत्येन्द्र कुमार	जेसी-698658एल	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	राजपूत विनोद मेघा सिंह	जेसी-698659एन	19 जुलाई 2014 //
नायब सूबेदार	अमरुदीन अंसारी	जेसी-698660एच	27 जुलाई 2014 //
नायब सूबेदार	मदरगावे ऊधव धोदिया	जेसी-698661एल	30 जुलाई 2014 //
नायब सूबेदार	हरी शंकर	जेसी-698662एन	19 जुलाई 2014 //
// (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	राजेश राव लिखीतकर	जेसी-699129एल	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	मनोज कुमार पान्डे	जेसी 698663डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	उपेन्द्र कुमार शर्मा	जेसी-698748एम	07 अगस्त 2014 // //
नायब सूबेदार	बलवीर सिंह	जेसी-699216वाई	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	हरी राम	जेसी-698992एम	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	रवि शंकर त्रिपाठी	जेसी-698849ए	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	राम निवास	जेसी-698847पी	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	मुथू कुमार ऐ	जेसी-698922एन	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	मयान्दी टी	जेसी-698848एक्स	01 अगस्त 2014
/// (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सीथाराम शेटी के	जेसी-696757पी	06 अक्टूबर 2014+
+(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 09 अगस्त 2014 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	करमजीत सिंह	जेसी-699060एम	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	रामपाल चौहान	जेसी-699047एच	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	उमेश कुमार	जेसी-699053डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	राकेश कुमार राय	जेसी-698923डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	टेक चन्द	जेसी-699054वाई	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	चन्द्र प्रकाश राय	जेसी-698924वाई	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	चन्द्र वीर सिंह नोहवार	जेसी-699196 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	कुलामनी महन्ता	जेसी-699197वाई	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	कान्ता रूबन एस	जेसी-699198एफ	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	मदन कुमार यादव	जेसी-699199के	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	वीर सिंह	जेसी-699200एन	03 जनवरी 2015++
नायब सूबेदार	पल्ला जयपाल रैड्डी	जेसी-699201डब्ल्यू	01 जनवरी 2015

नायब सूबेदार	कैलाश चन्द्र परिदा	जेसी-699203एफ	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	संजय कुमार राय	जेसी-699341एच	01 जनवरी 2015
++(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार	जेसी-699342एल	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	सुखपाल सिंह	जेसी-699343एन	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	देशप्रेम नायक	जेसी-699345वाई	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	राज सिंह	जेसी-699346एफ	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	महेन्द्र कुमार सिंह	जेसी-699347के	02 फरवरी 2015+++
नायब सूबेदार	प्रेम	जेसी-699348एम	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	अनुप कुमार मोहिनी	जेसी-699349एम	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	राजेश कुमार	जेसी-699350के	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	सिलवेस्टर दयानन्द	जेसी-699351एम	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	शंकर दयाल सिंह	जेसी-699352पी	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	वैकट सुब्रामनीयन टी	जेसी-699353एक्स	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	अरूण कुमार त्रिपाठी	जेसी-699354ए	01 फरवरी 2015
+++ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	आर पलानी अप्पन	जेसी-699355एच	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	कोरनेलियस लकरा	जेसी-699356एल	02 मार्च 2015!
नायब सूबेदार	पी सुर्या नारायण	जेसी-699405एच	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	राजेन्द्र प्रसाद कापरी	जेसी-699450पी	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	सज्जन सिंह	जेसी-699451एक्स	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	कैलाश बहादुर	जेसी-699452ए	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार	कन्हैया कुमार पान्ड़ें	जेसी-699453एच	02 मार्च 2015!
नायब सूबेदार	जाधव बालासाहेब मोहन	जेसी-699454एल	02 मार्च 2015!
!(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	जेसी-699455एन	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	खेम राम	जेसी-699456डब्ल्यू	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	नायक दीपक गोपल	जेसी-699457वाई	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	मलिक आनन्दा राव विष्णु	जेसी-699458एफ	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	मन्नाराज प्रधान	जेसी-699459के	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	बोदापति श्रीनिवासा राव	जेसी-699460वाई	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	देसाले संजय विनायक	जेसी-699461एफ	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	महावीर प्रसाद राठोर	जेसी-699493के	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	दिनेशन जी	जेसी-699462के	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	डेनियल के एल	जेसी-699494एम	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	बैजूफिलीप	जेसी-699495पी	01 अप्रैल 2015

नायब सूबेदार	सुनील कुमार वी	जेसी-699496एक्स	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	शिन्दे प्रकाश कदुबा	जेसी-699497ए	26 मई 2015!!
नायब सूबेदार	दिनेश सिंह	जेसी-699498एच	01 मई 2015
नायब सूबेदार	मनोज कुमार साह	जेसी-699499एल	01 मई 2015
नायब सूबेदार	हरीओम	जेसी-699500पी	01 मई 2015
नायब सूबेदार	अजय कुमार वर्मा	जेसी-699501एक्स	01 मई 2015
!!(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अरूण कुमार यादव	जेसी-699502ए	13 जून 2015!!!
नायब सूबेदार	विनोद कुमार शर्मा	जेसी-699503एच	08 जून 2015!!!
नायब सूबेदार	चितरंजन गोडा	जेसी-699504एल	18 जून 2015!!!
नायब सूबेदार	धर्मेन्द्र	जेसी-699505एन	15 जून 2015!!!
नायब सूबेदार	प्रशान्त कुमार नायक	जेसी-699506डब्ल्यू	08 जून 2015!!!
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	जेसी-699507वाई	01 जून 2015
!!!(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	नरपत सिंह	जेसी-699509के	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार	प्रशान्त एम कूरुप	जेसी-699609पी	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार	खोकन दास	जेसी-699611एम	30 जुलाई 2015+
नायब सूबेदार	राज कुमार	जेसी-699565एच	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार	अनिल कुमार	जेसी-699566एल	31 जुलाई 2015+
+(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	मनोज कुमार	जेसी-699567एन	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	परमजीत सिंह	जेसी-699568डब्ल्यू	10 अगस्त 2015++
नायब सूबेदार	सुधांसू सेखर प्रधान	जेसी-699569वाई	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	संजय कुमार पाठक	जेसी-699570एन	01 अगस्त 2015
++(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	धरेन्द्र प्रसाद ठाकुर	जेसी-699571डब्ल्यू	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	देवा राम चौधरी	जेसी-699572वाई	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	राम निवास यादव	जेसी-699573एफ	01 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	करनैल सिंह	जेसी-699574के	17 नवम्बर 2015+++
+++ (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	रविकान्त यादव	जेसी-699575एम	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	सुन्दरा वेदीवेल एन	जेसी-699576पी	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	महीपाल सिंह नेगी	जेसी-699577एक्स	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	सेल्वराज पी	जेसी-699640एफ	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	प्रशान्त दत्ता	जेसी-699642एम	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	दिलिप कुमार थापा	जेसी-699643पी	01 नवम्बर 2015

नायब सूबेदार	अरुण कुमार	जेसी-699645ए	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	सुभाष चन्द्र हल्दर	जेसी-699644एक्स	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	काप्रे संजय तुकाराम	जेसी-699646एच	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	नरसम्पा तसीलदार	जेसी-699654एफ	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	कपिल कृष्णा विस्वास	जेसी 699655के	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	किरन कुमार पाधी	जेसी 699656एम	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	गिरीश चन्द्र बारो	जेसी 699657पी	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	जमालुददीन	जेसी 699658एक्स	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	सन्दीप कुमार खटुआ	जेसी 699737एम	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	मूल चन्द	जेसी 699738पी	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	पवन कुमार चौधरी	जेसी 699740एम	02 फरवरी 2016++++
नायब सूबेदार	पिजूष कान्ती धोष	जेसी 699741पी	29 फरवरी 2016++++
++++(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जायेगी।)			

स्थायी सूबेदार (ड्राइवर एमटी)

नायब सूबेदार	बब्बन यादव	जेसी-699758एच	29 अगस्त 2015
(सूबेदार मेजर के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	साहुकरी कवीस्वरा राव	जेसी-700559के	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	किरतवाड गंगाधर मानिक राव	जेसी-700561एफ	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	योगेश कुमार यादवा	जेसी-700562के	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	कराड काशीनाथ नामदेव	जेसी-700522एच	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	योगेन्द्र सिंह	जेसी-699874एल	01 दिसम्बर 2015

स्थायीनायब सूबेदार (एम्बुलेन्स असिस्टेन्ट)

पद	नाम	सेना संख्या	स्थिति	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
हवलदार	खोट अशोक अप्पासाहेब	13980862ए	अब	जेसी-701319वाई	31 दिसंबर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	सतीश कुमार पेम्मु	13981912एम	अब	जेसी-701265एच	01 नवंबर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	जॉनसन एम सी	13982179वाई	अब	जेसी-701094एफ	01 सितंबर 2015
हवलदार	राघे श्याम सिंह	13981118पी	अब	जेसी-701095के	01 सितंबर 2015
हवलदार	भबतरन रॉय	13982077एच	अब	जेसी-701096एम	01 सितंबर 2015
हवलदार	त्रिलोचन द्विवेदी	13982075एक्स	अब	जेसी-701097पी	01 सितंबर 2015
हवलदार	बिश्वजीत कायल	13980834एन	अब	जेसी-701106एल	10 अक्टूबर 2015'
हवलदार	राजबीर सिंह	13981593एल	अब	जेसी-701107एन	08 अक्टूबर 2015'
हवलदार	अनील कुमार	13982070वाई	अब	जेसी-701108डब्ल्यू	03 अक्टूबर 2015'
हवलदार	बिरेन्द्रा प्रताप सिंह	13982054एफ	अब	जेसी-701109वाई	08 अक्टूबर 2015'
हवलदार	मोहम्मद सहीदुर रहमान	13982126ए	अब	जेसी-701110एन	14 अक्टूबर 2015'

हवलदार	रमेश सिंह यादव	13982065एन	अब	जेसी-701111डब्ल्यू	08 अक्टूबर 2015'
हवलदार	राम सिंह	13982062ए	अब	जेसी-701112वाई	08 अक्टूबर 2015'
हवलदार	जय प्रकाश यादव	13982059ए	अब	जेसी-701113एफ	05 अक्टूबर 2015'
हवलदार	अरुण कुमार सिंह	13982098वाई	अब	जेसी-701114के	03 अक्टूबर 2015'
हवलदार	प्रदीप के वी	13982213एन	अब	जेसी-701115एम	01 अक्टूबर 2015
हवलदार	रनधीर कुमार सिंह	13982080एच	अब	जेसी-701116पी	08 अक्टूबर 2015'

(' नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)

हवलदार	प्रमोद सिंह	13982114एल	अब	जेसी-701176के	10 नवंबर 2015''
हवलदार	ददन कुमार शॉह	13982095एल	अब	जेसी-701191वाई	01 नवंबर 2015
हवलदार	प्रसेनजीत सरकार	13982261एन	अब	जेसी-701173डब्ल्यू	10 नवंबर 2015''
हवलदार	अशोक तराले	13982272ए	अब	जेसी-701193के	10 नवंबर 2015''
हवलदार	प्रविन कुमार झा	13982129एन	अब	जेसी-701264ए	01 नवंबर 2015
हवलदार	तरुन कुमाद गुहा	13982140एम	अब	जेसी-701278ए	02 दिसंबर 2015''
हवलदार	डी वेंकेटा रम्मना राव	13982232वाई	अब	जेसी-701212के	17 नवंबर 2015''
हवलदार	जगतार सिंह	13982262डब्ल्यू	अब	जेसी-701192एफ	12 नवंबर 2015''
हवलदार	राम निवास	13982394के	अब	जेसी-701185एल	13 नवंबर 2015''
हवलदार	रतन लाल मीणा	13982393एफ	अब	जेसी-701200पी	13 नवंबर 2015''
हवलदार	मदन सिंह धामी	13982385एच	अब	जेसी-701177एम	05 नवंबर 2015''

('' नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवंबर 2015 से दी जायेगी।)

हवलदार	हरी दास एम जी	13982389वाई	अब	जेसी-701202ए	01 दिसंबर 2015
हवलदार	उपेन्द्रा कुमार	13982379पी	अब	जेसी-701203एच	01 दिसंबर 2015
हवलदार	नरेन्द्रा कुमार सिंह	13982384ए	अब	जेसी-701204एल	01 दिसंबर 2015
हवलदार	अशोक कुमार	13982388डब्ल्यू	अब	जेसी-701346एच	01 जनवरी 2016
हवलदार	जितलेश सिंह	13982383एक्स	अब	जेसी-701348एन	01 जनवरी 2016
हवलदार	देवेन्द्रा कुमार	13982381एम	अब	जेसी-701349 डब्ल्यू	01 जनवरी 2016
हवलदार	बिश्वांभर साहु	13982439वाई	अब	जेसी-701345ए	01 जनवरी 2016
हवलदार	विवेकानन्दन के	13982462एम	अब	जेसी-701350एल	01 फरवरी 2016
हवलदार	डी जोसफ	13982461के	अब	जेसी-701351एन	01 फरवरी 2016
हवलदार	गोपाल गोगोई	13982479ए	अब	जेसी-701387एम	03 फरवरी 2016'''

(''' नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जायेगी।)

स्थायी नायब सूबेदार (ड्राईवर एमटी)

हवलदार	सूरज कुमार वानी	13985030एच	अब	जेसी-701028वाई	13 सितंबर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	हरेन्द्रा कुमार	13985029एन	अब	जेसी-701243के	30 नवंबर 2015'
हवलदार	पल्लब घोष	13985064डब्ल्यू	अब	जेसी-701175एफ	01 दिसंबर 2015'
('नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2015 से दी जायेगी।)					

हवलदार	मीर नासिम अली	13985081डब्ल्यू	अब	जेसी-701201एक्स	01 अक्टूबर 2015
हवलदार	शम्भु नाथ यादव	13985128डब्ल्यू	अब	जेसी-701255वाई	01 दिसंबर 2015
हवलदार	विजेन्द्र प्रसाद	13985133एफ	अब	जेसी-701315एच	26 दिसंबर 2015''
(" नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसंबर 2015 से दी जायेगी)					

स्थायीनायब सूबेदार (एस के टी)

पद	नाम	सेना संख्या	स्थिति	सेना संख्या	प्रभाव एमले ज्येष्ठता
हवलदार	सेलवराज पी	13980578के	अब	जेसी-699640एफ	15 अक्टूबर 2013'
हवलदार	प्रसता दत्ता	13980530डब्ल्यू	अब	जेसी-699642एम	08 अक्टूबर 2013'
हवलदार	दिलीप कुमार थापा	13980817एन	अब	जेसी-699643पी	08 अक्टूबर 2013'
हवलदार	अरुन कुमार	13980678पी	अब	जेसी-699645ए	16 नवम्बर 2013'
हवलदार	सुभाष चन्द्र हल्दर	13980612वाई	अब	जेसी-699644एक्स	16 नवम्बर 2013'
हवलदार	कापरे संजय तुकाराम	13981198एक्स	अब	जेसी-699646एच	05 अक्टूबर 2013'

('नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)

हवलदार	नरसम्पा तसीलदार	13981281पी	अब	जेसी-699654एफ	01 नवम्बर 2013
हवलदार	कपिल कृष्णा बिसवास	13980611डब्ल्यू	अब	जेसी-699655के	22 नवम्बर 2013''
हवलदार	किरणकुमार पाधी	13981290डब्ल्यू	अब	जेसी-699656एम	01 नवम्बर 2013
हवलदार	गिरीश चन्द्र बरो	13976105एन	अब	जेसी-699657पी	01 नवम्बर 2013
हवलदार	जमालुद्दिन	13977520एफ	अब	जेसी-699658एक्स	01 नवम्बर 2013
हवलदार	संदीप कुमार खतुओ	13977617एम	अब	जेसी-699737एम	03 जनवरी 2014''

("नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)

हवलदार	मूल चन्द	13978267एक्स	अब	जेसी-699738पी	28 दिसम्बर 2013'''
हवलदार	असलकर उमेश मारुती	13978588पी	अब	जेसी-699739एक्स	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	पवन कुमार चौधरी	13978606एम	अब	जेसी-699740एम	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	पिजुश कान्ती घास	13978651वाई	अब	जेसी-699741पी	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	सुमीत भौमिक	13979358एन	अब	जेसी-699742एक्स	06 दिसम्बर 2013'''
हवलदार	देवकाटे युवराज त्रिम्बक राव	13979488डब्ल्यू	अब	जेसी-699743ए	05 दिसम्बर 2013'''
हवलदार	ब्रजेन्द्र सिंह	13979602एच	अब	जेसी-699744एच	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	वैदया संजय कुमार	13979653डब्ल्यू	अब	जेसी-699745एल	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	यादव यतेन्द्र सिंह रामेशवर डी	13979657एम	अब	जेसी-699746एन	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	किशोर कुमार साहू	13981134एम	अब	जेसी-699747डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	राजेन्द्र प्रसाद जाडली	13981212वाई	अब	जेसी-699748वाई	04 दिसम्बर 2013'''
हवलदार	सौमित्रा कुमार दास	13980616पी	अब	जेसी-699749एफ	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	अनिल एन पी	13981300पी	अब	जेसी-699750डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	देवेन्द्र नाथ दिक्षित	13981346एक्स	अब	जेसी-699836पी	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	जय सिंह	13981345पी	अब	जेसी-699837एक्स	01 दिसम्बर 2013

("नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)

हवलदार	प्रवीन कुमार शर्मा	13981364ए	अब	जेसी-699838ए	01 जनवरी 2014
हवलदार	अजय पंवार	13981361एम	अब	जेसी-699840एक्स	01 जनवरी 2014
हवलदार	विजय सिंह	13981409पी	अब	जेसी-699841ए	01 जनवरी 2014
हवलदार	गिरिश बाबू सी	13981498वाई	अब	जेसी-699842एच	20 जनवरी 2014 /
हवलदार	सुशील कुमार	13981292एफ	अब	जेसी-699843एल	01 जनवरी 2014
हवलदार	शिव पूजन यादव	13977612एन	अब	जेसी-699844एन	01 जनवरी 2014
हवलदार	राम बालक दास	13978632एन	अब	जेसी-699845डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
(/ नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	मनोज कुमार शर्मा	13978800एफ	अब	जेसी-699950एम	01 फरवरी 2014
हवलदार	अजय कुमार सिंह	13979072वाई	अब	जेसी-699951पी	01 फरवरी 2014
हवलदार	रमेश चन्द्र मिश्रा	13979793एच	अब	जेसी-700154वाई	01 मार्च 2014
हवलदार	बिस्वाजित परिया	13980531वाई	अब	जेसी-700033एक्स	01 मार्च 2014
हवलदार	रविन्द्र राना	13979868पी	अब	जेसी-700034ए	04 मार्च 2014 / /
हवलदार	सतीश सिंह	13980434एफ	अब	जेसी-700035एच	01 मार्च 2014
हवलदार	सुखवीर सिंह	13981171ए	अब	जेसी-700036एल	01 मार्च 2014
हवलदार	भगवती प्रसाद	13981214के	अब	जेसी-700037एन	01 मार्च 2014
(/ / नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	चन्दन सिंह	13981222एच	अब	जेसी-700010डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
हवलदार	दलजीत सिंह	13981266ए	अब	जेसी-700011वाई	01 अप्रैल 2014
हवलदार	रबिन्द्र साहू	13981289एफ	अब	जेसी-700012एफ	01 अप्रैल 2014
हवलदार	सन्जीत मैती	13980815एच	अब	जेसी-700047एक्स	01 अप्रैल 2014
हवलदार	भुवन चन्द्र पन्त	13981354डब्ल्यू	अब	जेसी-700048ए	01 अप्रैल 2014
हवलदार	प्रदीपन पामबली	13981609एल	अब	जेसी-700151एल	01 अप्रैल 2014
हवलदार	दीपक दास	13980614के	अब	जेसी-700013के	01 अप्रैल 2014
हवलदार	हरेन्द्र सिंह रावत	13981353एन	अब	जेसी-700014एम	01 अप्रैल 2014
हवलदार	सिंह जयराज हीरा	13981327एम	अब	जेसी-700015पी	01 अप्रैल 2014
हवलदार	वसन्थान के एस	13981588ए	अब	जेसी-700217डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
हवलदार	सुनिल कुमार जे	13981667पी	अब	जेसी-700016एक्स	01 अप्रैल 2014
हवलदार	जीवन कुमार	13981722ए	अब	जेसी-700134एल	01 अप्रैल 2014
हवलदार	बलबीर सिंह	13981452डब्ल्यू	अब	जेसी-700135एन	01 अप्रैल 2014
हवलदार	अलेगजेडर जोर्ज	13980851एन	अब	जेसी-700049एच	01 अप्रैल 2014
हवलदार	निरजंन कुमार	13981796पी	अब	जेसी-700136डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
हवलदार	पवन कुमार	13981797एक्स	अब	जेसी-700017ए	01 अप्रैल 2014
हवलदार	सुरेन्द्र नाथ	13981920एल	अब	जेसी-700018एच	01 अप्रैल 2014
हवलदार	अवधेश	13981936डब्ल्यू	अब	जेसी-700019एल	28 अप्रैल 2014 / / /
हवलदार	भुपेन्द्र सिंह खरायत	13981685एक्स	अब	जेसी-700020ए	01 अप्रैल 2014

हवलदार	कान्ती प्रसाद	13981937वाई	अब	जेसी-700021एच	03 अप्रैल 2014 / / /
हवलदार	दलवीर सिंह रावत	13981938एफ	अब	जेसी-700155एफ	01 अप्रैल 2014
(/ / / नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	तपस मंडल	13980613एफ	अब	जेसी-700304के	12 मई 2014रु
(रु नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	अनिल कुमार	13981942के	अब	जेसी-700255एम	01 मई 2014
हवलदार	अरविन्द कुमार सिंह	13981943एम	अब	जेसी-700256पी	01 मई 2014
हवलदार	दिनेश कुमार शर्मा	13981996एल	अब	जेसी-700257एक्स	06 मई 2014रुरु
हवलदार	रंजन कुमार डे	13980855के	अब	जेसी-700258ए	01 मई 2014
हवलदार	आर श्रीनिवासन	13981249ए	अब	जेसी-700320एफ	01 जुलाई 2014रुरु
हवलदार	सुरेश कुमार	13981994ए	अब	जेसी-700300एन	01 मई 2014
हवलदार	परिमल घोस	13982023एफ	अब	जेसी-700259एच	01 मई 2014
हवलदार	अपू विश्वास	13982338एल	अब	जेसी-700301डब्ल्यू	01 मई 2014
हवलदार	राकेश कुमार शर्मा	13982217के	अब	जेसी-700260एक्स	01 मई 2014
हवलदार	आरेकर प्रमोद सुधाकर	13982218एम	अब	जेसी-700299के	01 मई 2014
(रुरु नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	विक्रम सिंह	13981684पी	अब	जेसी-700263एल	03 जून 2014रुरु
हवलदार	नन्द कुमार पाण्डेय	13982191ए	अब	जेसी-700293एच	01 जून 2014
हवलदार	दलवीर सिंह	13982297एम	अब	जेसी-700264एन	01 जून 2014
हवलदार	चित्रा सेन सिंह	13982307एल	अब	जेसी-700265डब्ल्यू	01 जून 2014
हवलदार	रामअवध मौर्या	13982308एन	अब	जेसी-700266वाई	02 जून 2014रुरु
(रुरु नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	उत्तम सिंह	13982295एफ	अब	जेसी-700321के	01 जुलाई 2014
हवलदार	दुबुले दिनकर आनन्द राव	13982355एल	अब	जेसी-700322एम	01 जुलाई 2014
हवलदार	राकेश पाण्डेय	13982333एम	अब	जेसी-700323पी	01 जुलाई 2014
हवलदार	अजय सिंह	13982322ए	अब	जेसी-700324एक्स	01 जुलाई 2014
हवलदार	चन्द्र पाल प्रजापती	13982324एल	अब	जेसी-700325ए	01 जुलाई 2014
हवलदार	के पी विजयन	13981294एम	अब	जेसी-700326एच	01 जुलाई 2014
हवलदार	गजिन्द्र सिंह	13981360के	अब	जेसी-700327एल	02 जुलाई 2014+
हवलदार	अरविन्द कुमार शर्मा	13982294वाई	अब	जेसी-700328एन	18 जुलाई 2014+
हवलदार	ईश्वर सिंह	13982436एल	अब	जेसी-700329डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
हवलदार	बिनोद बिहारी नायक	13982491एफ	अब	जेसी-700330एल	02 जुलाई 2014+
हवलदार	सरोज कुमार	13982516एच	अब	जेसी-700331एन	01 जुलाई 2014
हवलदार	राजेश खिरवार	13982588एम	अब	जेसी-700332डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
हवलदार	उमेश कुमार	13982661ए	अब	जेसी-700441एच	30 जुलाई 2014+
हवलदार	आनन्द किशोर मिश्रा	13982727एल	अब	जेसी-700442एल	14 जुलाई 2014+

हवलदार	संजय कुमार मिश्रा	13982723पी	अब	जेसी-700443एन	14 जुलाई 2014+
हवलदार	प्रमोद कुमार	13981626एल	अब	जेसी-700444डब्ल्यू	14 जुलाई 2014+
(+)नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	तेजप्रकाश त्रिपाठी	13981151एम	अब	जेसी-700445वाई	01 अगस्त 2014
हवलदार	चमपेश्वर लहन	13981867एल	अब	जेसी-700446एफ	01 अगस्त 2014
हवलदार	बाबू लाल	13982722एम	अब	जेसी-700447के	02 अगस्त 2014++
हवलदार	सुनिल नारायणन	13981291वाई	अब	जेसी-700448एम	01 अगस्त 2014
हवलदार	सुरेश चन्द्र	13982334पी	अब	जेसी-700449पी	01 अगस्त 2014
हवलदार	धीरेन्द्र सिंह	13981944पी	अब	जेसी-700450के	01 अगस्त 2014
हवलदार	इन्दराशन यादव	13980816एल	अब	जेसी-700451एम	01 अगस्त 2014
हवलदार	सलगुनानासन एस	13981477एच	अब	जेसी-700452पी	01 अगस्त 2014
हवलदार	गिते बाबासाहेब राधाकिसन	13982195डब्ल्यू	अब	जेसी-700453एक्स	14 अगस्त 2014++
हवलदार	सुखबीर सिंह	13982730एल	अब	जेसी-700454ए	01 अगस्त 2014
(++) नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	परमानन्द सिंह	13982731एन	अब	जेसी-700491एन	01 सितम्बर 2014
हवलदार	राजेश कुमार उपाध्याय	13982743एच	अब	जेसी-700492डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
हवलदार	लाबडे चिन्तामन वमन	13981225डब्ल्यू	अब	जेसी-700550पी	27 अक्टूबर 2014++++
हवलदार	अभीराम नायक	13980458एल	अब	जेसी-700551एक्स	01 अक्टूबर 2014
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	13982739ए	अब	जेसी-700552ए	05 अक्टूबर 2014++++
हवलदार	महेन्द्र सिंह	13982745एन	अब	जेसी-700513एफ	07 अक्टूबर 2014++++
हवलदार	कृष्ण कुमार	13982744एल	अब	जेसी-700514के	04 अक्टूबर 2014++++
(+++नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	विनोद कुमार	13982737पी	अब	जेसी-700614पी	01 दिसम्बर 2014:
हवलदार	लेखराज राघव	13982740पी	अब	जेसी-700615एक्स	01 नवम्बर 2014
(:नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	सूर्य प्रकाश	13982748एफ	अब	जेसी-700616ए	01 दिसम्बर 2014

स्थायीनायब सूबेदार (लैबोरेटरी असिस्टेन्ट)

हवलदार	महताब सिंह	13985207एल	अब	जेसी-701199एल	19 नवम्बर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	पलवे संजय निवरुत्ती	13986811एच	अब	जेसी-701011एल	22 अगस्त 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	शम्भू नाथ सिंह	13986035एन	अब	जेसी-700660के	01 जनवरी 2015
हवलदार	जितेन्द्रा कुमार चौधरी	13986834के	अब	जेसी-700661एम	01 जनवरी 2015
हवलदार	चोबे राम कृष्णा देवीदास	13986812एल	अब	जेसी-700662पी	01 जनवरी 2015
हवलदार	सरबजीत सिंह मोन्ड	13986843एल	अब	जेसी-700663एक्स	01 जनवरी 2015
हवलदार	मोहबुब आलम मल्लीक	13986983एक्स	अब	जेसी-700762ए	01 मार्च 2015

हवलदार	कदम आन्नद कोनोबा	13987022एच	अब	जेसी-700763एच	02 मार्च 2015'
हवलदार	कृष्णा नन्द कापरी	13987129एक्स	अब	जेसी-700764एल	01 मार्च 2015
हवलदार	जादव प्रालहद सोपान	13987267वाई	अब	जेसी-700778एल	01 मार्च 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	राजेश कुमार	13987184एन	अब	जेसी-700779एन	01 अप्रैल 2015
हवलदार	जेरील मैथू	13987113एम	अब	जेसी-700780एच	01 सितम्बर 2015''
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	पुश्प राज सिंह	13986147एन	अब	जेसी-700794एच	01 मई 2015
हवलदार	रवी कुमार वी	13987324पी	अब	जेसी-700795एल	01 मई 2015
हवलदार	सूरेश पी	13987360ए	अब	जेसी-700881डब्ल्यू	01 मई 2015
हवलदार	सतीश एन	13987399एम	अब	जेसी-700882वाई	01 मई 2015
हवलदार	श्याम लाल	13987502एम	अब	जेसी-700883एफ	01 मई 2015
हवलदार	भरत सिंह रावत	13987499एक्स	अब	जेसी-700905पी	07 मई 2015'''
हवलदार	संतोश सिंह रावत	13987500एफ	अब	जेसी-700884के	01 मई 2015
हवलदार	इन्द्र पाल सिंह	13987471एक्स	अब	जेसी-700891ए	01 मई 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	के मुथ्यई	13987758पी	अब	जेसी-700885एम	01 जून 2015
हवलदार	प्रदीप कुमार	13987786एफ	अब	जेसी-700952एम	01 जुलाई 2015
हवलदार	अनिल कुमार	13987851डब्ल्यू	अब	जेसी-701007एच	20 जुलाई 2015''''
हवलदार	संतोश कुमार मिश्रा	13987903एफ	अब	जेसी-701157वाई	02 नवम्बर 2015''''
हवलदार	शायल प्रकाश सिंह	13988005पी	अब	जेसी-701008एल	15 जुलाई 2015''''
हवलदार	रीतू राज सिंह परिहार	13988170ए	अब	जेसी-701057एन	25 जुलाई 2015''''
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	परीतोश बिसवास	13988284एल	अब	जेसी-701080एफ	01 सितम्बर 2015
हवलदार	सुनील कुमार राय	13988270एल	अब	जेसी-701181पी	16 अक्टूबर 2015!
हवलदार	किशोर कुमार राय	13988407एम	अब	जेसी-701139डब्ल्यू	08 अक्टूबर 2015!
हवलदार	दीपक सिंह	13988576एन	अब	जेसी-701137एल	10 अक्टूबर 2015!
हवलदार	विनोद कुमार तिवारी	13988568पी	अब	जेसी-701138एन	10 अक्टूबर 2015!
हवलदार	रमन कुमार द्विवेदी	13988569एक्स	अब	जेसी-701172एन	04 नवम्बर 2015!
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	भगवान सिंह	13988565एफ	अब	जेसी-701158एफ	02 नवम्बर 2015!!
हवलदार	राधा चरण शर्मा	13988694एफ	अब	जेसी-701156के	02 नवम्बर 2015!!
हवलदार	केंजाले राजा राम सुदाम	13988806डब्ल्यू	अब	जेसी-701182एक्स	05 नवम्बर 2015!!
हवलदार	केदार सिंह	13988841वाई	अब	जेसी-701160वाई	20 नवम्बर 2015!!
हवलदार	एम रमन	13988944एक्स	अब	जेसी-701162के	02 नवम्बर 2015!!
हवलदार	त्रिलोक सिंह	13988924के	अब	जेसी-701163एम	01 नवम्बर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	प्रदीप सिंह	13988961एक्स	अब	जेसी-701215एक्स	01 दिसम्बर 2015

हवलदार	इन्द्रजीत सिंह	13989168पी	अब	जेसी-701216ए	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	सुरेश कुमार दुबे	13989176एन	अब	जेसी-701274के	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	लेख राम चन्देल	13989204पी	अब	जेसी-701217एच	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	सूरज कुमार	13989326वाई	अब	जेसी-701218एल	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	तारा चन्द शर्मा	13989359के	अब	जेसी-701219एन	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	संजीव कुमार डोगरा	13989364पी	अब	जेसी-701220एच	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	रमेश कुश्वाह	13989508एम	अब	जेसी-701221एल	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	त्रिलोक सिंह	13989496एच	अब	जेसी-701222एन	01 जनवरी 2016
हवलदार	मूल सिंह	13989687एक्स	अब	जेसी-701223डब्ल्यू	01 जनवरी 2016
हवलदार	राजेश कुमार सिंह	13990072वाई	अब	जेसी-701414एल	01 फरवरी 2016
हवलदार	अटुगाडे सुरेश दादु	13990265वाई	अब	जेसी-701415एन	03 फरवरी 2016!!!
(!!! नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जायेगी।)					

स्थायी नायब सूबेदार (नर्सिंग सहायक)

हवलदार	सुभेन्दू जाना	13982899ए	अब	जेसी-700696एच	02 सितम्बर 2015 /
(/ नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 10 फरवरी 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	संजय कुमार	13984152ए	अब	जेसी-701098एक्स	03 सितम्बर 2015 //
(// नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	शंकर एस	15413601के	अब	जेसी-701117एक्स	22 जनवरी 2016 ///
हवलदार	शाजी वी वी	13984163एम	अब	जेसी-701118ए	05 अक्टूबर 2015 ///
(/// नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	संजय कुमार	13984158एफ	अब	जेसी-701119एच	01 नवम्बर 2015
हवलदार	घाटगे दिनकर शंकर	13984200पी	अब	जेसी-701120एक्स	19 दिसम्बर 2015 +
(+ नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	ललिता नारायण राउत	13984236एन	अब	जेसी-701174वाई	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	नारायण प्रघान	13984237डब्ल्यू	अब	जेसी-701210वाई	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	कदम भाउ सदाशिव	13984201एक्स	अब	जेसी-701333एल	01 जनवरी 2016
हवलदार	अजिथ कुमार जी	13982158एच	अब	जेसी-701334एन	01 जनवरी 2016
हवलदार	पी चिन्नासामी	13984021पी	अब	जेसी-701244एम	01 जनवरी 2016
हवलदार	एस नागासैषैया	13984063एफ	अब	जेसी-701302एल	01 जनवरी 2016
हवलदार	रवि सिंह	13984177एम	अब	जेसी-701245पी	01 जनवरी 2016
हवलदार	पाटील कल्लापा रामू	13984197ए	अब	जेसी-701335डब्ल्यू	01 जनवरी 2016
हवलदार	कुष्ण कुमार	13984175एफ	अब	जेसी-701336वाई	09 जनवरी 2016 ++
(++ नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	देवेन्द्र कुमार सिंह	13984212के	अब	जेसी-701337एफ	01 फरवरी 2016
हवलदार	तारा चन्द	13984181पी	अब	जेसी-701341के	01 फरवरी 2016
हवलदार	पंकज कुमार	13984219एन	अब	जेसी-701338के	01 फरवरी 2016

हवलदार	साबले संजय भाउ साहेब	13984253एन	अब	जेसी-701339एम	01 फरवरी 2016
हवलदार	मनोज कुमार यादव	13984224वाई	अब	जेसी-701342एम	03 फरवरी 2016+++
हवलदार	सुबोध कुमार	13984215एक्स	अब	जेसी-701344एक्स	01 फरवरी 2016
(+++ नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जायेगी)					

स्थायी नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी)

हवलदार	बारी लक्ष्मण दास	13975695एल	अब	जेसी-699947एम	01 जनवरी 2014'
('नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)					
हवलदार	अरागे लक्ष्मण अप्पासो	13979524डब्ल्यू	अब	जेसी-699997एक्स	13 मार्च 2014''
(''नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	यादव माणिक ज्ञानोबा	13979509एफ	अब	जेसी-700058के	01 अप्रैल 2014
हवलदार	तलेकर ज्ञानेश्वर यशवंत	13979513के	अब	जेसी-700059एम	01 अप्रैल 2014
हवलदार	बरकडे विठल नाना	13979515पी	अब	जेसी-700060एफ	01 अप्रैल 2014
हवलदार	रमेश पाल	13979606वाई	अब	जेसी-700062एम	17 अप्रैल 2014'''
हवलदार	धेंडे अर्जुन निवृत्ती	13979534ए	अब	जेसी-700061के	01 अप्रैल 2014
हवलदार	प्रमोद कुमार शर्मा	13979747एन	अब	जेसी-700063पी	01 अप्रैल 2014
हवलदार	विनय कुमार	13979757एक्स	अब	जेसी-700064एक्स	01 अप्रैल 2014
हवलदार	डी रवि कुमार	13979151एन	अब	जेसी-700065ए	01 अप्रैल 2014
हवलदार	सुन्दर लाल	13979762एच	अब	जेसी-700066एच	01 अप्रैल 2014
('''नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	राजबीर सिंह	13979761ए	अब	जेसी-700252वाई	01 मई 2014
हवलदार	अखलेश चन्द्र दुबे	13979791एक्स	अब	जेसी-700253एफ	01 मई 2014
हवलदार	देवारीलाल	13979773पी	अब	जेसी-700254के	10 मई 2014 /
(/ नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	सतबीर सिंह	13979786एम	अब	जेसी-700533पी	31 अक्टूबर 2014 //
हवलदार	राम नाथ सिंह यादव	13979792ए	अब	जेसी-700267एफ	01 जून 2014
हवलदार	दिलबाग सिंह	13979801डब्ल्यू	अब	जेसी-700268के	01 जून 2014
हवलदार	कदम राजेन्द्र अन्ना	13979941एच	अब	जेसी-700269एम	01 जून 2014
हवलदार	कुंभार कृष्णात गणपती	13979936एक्स	अब	जेसी-700270एफ	01 जून 2014
हवलदार	टरुन कुमार	13980024एल	अब	जेसी-700271के	13 जून 2014 //
हवलदार	श्री कृष्ण वर्मा	13980234एल	अब	जेसी-700272एम	01 जून 2014
हवलदार	हरी ओम	13978222एक्स	अब	जेसी-700274एक्स	01 जून 2014
(// नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	हरताज सिंह	13980257एम	अब	जेसी-700333वाई	01 जुलाई 2014
हवलदार	सूबे सिंह यादव	13980441एक्स	अब	जेसी-700334एफ	01 जुलाई 2014
हवलदार	नथुनी यादव	13980440पी	अब	जेसी-700335के	01 जुलाई 2014
हवलदार	राजेन्द्र कुमार	13980454पी	अब	जेसी-700336एम	01 जुलाई 2014

हवलदार	प्रदीप कुमार खुंटिया	13980461एल	अब	जेसी-700337पी	01 जुलाई 2014
हवलदार	अनिरुद्ध यादव	13980473ए	अब	जेसी-700338एक्स	01 जुलाई 2014
हवलदार	हरी शंकर	13980515एफ	अब	जेसी-700339ए	01 जुलाई 2014
हवलदार	मनोज कुमार महाराना	13979378एफ	अब	जेसी-700340पी	01 जुलाई 2014
हवलदार	सत्याब्रता सामंता	13980526एन	अब	जेसी-700341एक्स	01 जुलाई 2014
हवलदार	स्वपन कुमार दास	13980529एफ	अब	जेसी-700342ए	01 जुलाई 2014
हवलदार	सुशील कुमार मन्ना	13980527डब्ल्यू	अब	जेसी-700343एच	15 जुलाई 2014 / / /
हवलदार	परमजीत सिंह	13980551एम	अब	जेसी-700344एल	01 जुलाई 2014
हवलदार	नबोध कुमार झा	13980585ए	अब	जेसी-700345एन	02 जुलाई 2014 / / /
हवलदार	बिश्वजीत मुखर्जी	13980773एफ	अब	जेसी-700346डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
हवलदार	सूर्जया नारायण चौधरी	13980791के	अब	जेसी-700347वाई	01 जुलाई 2014
हवलदार	त्रिभुवन चन्द्र पाठक	13980777एक्स	अब	जेसी-700348एफ	01 जुलाई 2014
हवलदार	अनूप सिंह	13980738वाई	अब	जेसी-700395वाई	04 जुलाई 2014 / / /
हवलदार	जगन्नाथ दास	13980789एम	अब	जेसी-700396एफ	04 जुलाई 2014 / / /
हवलदार	सतीस पीमपर कार	13980492एल	अब	जेसी-700397के	04 जुलाई 2014 / / /
(/ / / नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	प्रफुल्ल कुमार स्वैन	13980797एल	अब	जेसी-700398एम	02 अगस्त 2014 रु
हवलदार	बिंदा प्रसाद पाल	13979771के	अब	जेसी-700399पी	01 अगस्त 2014
हवलदार	कार्तिक चन्द्र साठ	13980523ए	अब	जेसी-700400 वाई	12 अगस्त 2014 रु
हवलदार	रंजन कुमार भुयन	13980794एक्स	अब	जेसी-700401एफ	01 अगस्त 2014
हवलदार	देबेन्द्र कुमार दास	13980792एम	अब	जेसी-700402के	11 अगस्त 2014 रु
हवलदार	दिबाकर नायक	13980787एफ	अब	जेसी-700403एम	01 अगस्त 2014
हवलदार	अरुन कुमार ठाकुर	13980783एल	अब	जेसी-700404पी	01 अगस्त 2014
हवलदार	सिबकुमार देबमिश्रा	13980796एच	अब	जेसी-700405एक्स	01 अगस्त 2014
हवलदार	मंगौनकर प्रकाश बाबूराव	13979532पी	अब	जेसी-700406ए	01 अगस्त 2014
हवलदार	तारा चन्द	13980597पी	अब	जेसी-700407एच	01 अगस्त 2014
हवलदार	बंसन्त कुमार त्रिपाठी	13980790एफ	अब	जेसी-700408एल	01 अगस्त 2014
हवलदार	प्रमोद कुमार मोहंती	13980460एच	अब	जेसी-700409एन	01 अगस्त 2014
हवलदार	शेख बशीर नजीर	13979940ए	अब	जेसी-700410एच	01 अगस्त 2014
हवलदार	कन्हू चरन साहु	13980788के	अब	जेसी-700411एल	01 अगस्त 2014
हवलदार	सुशील चन्द्र	13980747ए	अब	जेसी-700412एन	01 अगस्त 2014
हवलदार	राजू सुनसागडा	13980857पी	अब	जेसी-700413डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
हवलदार	बैजू इन्दुचूडन	13981103एम	अब	जेसी-700414वाई	01 अगस्त 2014
हवलदार	दीपक कार	13981131वाई	अब	जेसी-700415एफ	01 अगस्त 2014
(रु नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)					
हवलदार	परमेश्वर मोहन्ता	13981135पी	अब	जेसी-700475डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014

हवलदार	राम चन्द्र कुम्हार	13981090ए	अब	जेसी-700476वाई	01 सितम्बर 2014
हवलदार	पबित्र कुमार हजरा	13981108एल	अब	जेसी-700477एफ	01 सितम्बर 2014
हवलदार	एस साजी	13981114वाई	अब	जेसी-700478के	01 सितम्बर 2014
हवलदार	शेख गुलाम नबी गुलाम मोहम्मद	13981188एन	अब	जेसी-700479एम	01 सितम्बर 2014
हवलदार	जोगेन्द्र सिंह	13981192डब्ल्यू	अब	जेसी-700480एफ	01 सितम्बर 2014
हवलदार	पी विलसन	13981232एम	अब	जेसी-700481के	01 सितम्बर 2014
हवलदार	देवी लाल	13981169एच	अब	जेसी-700482एम	01 सितम्बर 2014
हवलदार	दलविन्दर सिंह	13981159वाई	अब	जेसी-700483पी	01 सितम्बर 2014
हवलदार	दलवी टीकाराम बुधाजी	13981187एल	अब	जेसी-700484एक्स	01 सितम्बर 2014
हवलदार	प्रनब कुमार प्रमानिक	13981109एन	अब	जेसी-700485ए	01 सितम्बर 2014
हवलदार	जाधव जालन्दर नामदेव	13981190एल	अब	जेसी-700486एच	01 सितम्बर 2014
हवलदार	विरेन्द्र पाल सिंह	13981211डब्ल्यू	अब	जेसी-700487एल	01 सितम्बर 2014
हवलदार	भगवान दास	13981210एन	अब	जेसी-700488एन	01 सितम्बर 2014
हवलदार	नरेन्द्र सिंह	13981219एच	अब	जेसी-700489डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
हवलदार	चन्दन सिंह रौतेला	13981220एक्स	अब	जेसी-700490एल	01 सितम्बर 2014
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	13981348एच	अब	जेसी-700534एक्स	04 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	जगराम सिंह	13981343के	अब	जेसी-700535ए	24 नवम्बर 2014रुरु
हवलदार	आनन्द गिरी	13981355वाई	अब	जेसी-700536एच	07 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	रजनीस कुमार शर्मा	13981351एच	अब	जेसी-700537एल	10 नवम्बर 2014रुरु
हवलदार	भुवन चन्द्र जोशी	13980776पी	अब	जेसी-700515एम	08 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	आर सजन	13981305एन	अब	जेसी-700538एन	01 अक्टूबर 2014
हवलदार	बिश्वजीत साह	13980521पी	अब	जेसी-700509वाई	04 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	शेगावकर पाण्डुरंग रामदास	13981585एम	अब	जेसी-700539डब्ल्यू	10 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	पैथाने प्रकाश भीमराव	13981595डब्ल्यू	अब	जेसी-700540एल	14 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	जाधव धनराज अंकुश	13981599एम	अब	जेसी-700541एन	05 नवम्बर 2014रुरु
हवलदार	कमलेश कुमार	13981672ए	अब	जेसी-700510एन	05 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	राम नरेश	13981663वाई	अब	जेसी-700542डब्ल्यू	04 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	मुकतार अली	13981666एम	अब	जेसी-700543वाई	08 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	प्रेम पाल	13981675एन	अब	जेसी-700544एफ	07 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	शिव किशोर सिंह	13981669ए	अब	जेसी-700545के	05 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	मुजावर रशीद मुबारक	13981602एफ	अब	जेसी-700511डब्ल्यू	07 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	नन्द किशोर झा	13981786एल	अब	जेसी-700546एम	31 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	गनेश्वर नाथ चतुर्वेदी	13981803ए	अब	जेसी-700512वाई	04 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	गंगा राम	13981927पी	अब	जेसी-700547पी	08 अक्टूबर 2014रुरु
हवलदार	राजेश कुमार	13981924एफ	अब	जेसी-700548एक्स	01 अक्टूबर 2014

हवलदार	खलिक अहमद खान	13981926एम	अब	जेसी-700549ए	06 अक्टूबर 2014रुरु
(रुरु नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	बिक्रम सिंह	13981948एल	अब	जेसी-700605एन	05 नवम्बर 2014रुरु
हवलदार	रामबीर सिंह	13981935एन	अब	जेसी-700606डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014
हवलदार	रोशन लाल	13981933एच	अब	जेसी-700607वाई	01 नवम्बर 2014
हवलदार	के जय कुमार	13982127एच	अब	जेसी-700608एफ	07 नवम्बर 2014रुरु
हवलदार	सुधीर कुमार सिंह	13982094एच	अब	जेसी-700609के	01 नवम्बर 2014
हवलदार	प्रमोद कुमार गुप्ता	13982148वाई	अब	जेसी-700610वाई	01 नवम्बर 2014
हवलदार	लोकेस कुमार	13982278एफ	अब	जेसी-700611एफ	01 नवम्बर 2014

(रुरु नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी।)

स्थायी नायब सूबेदार (एम्बूलेन्स असिस्टेन्ट)

हवलदार	बिक्रमजीत सिंह	13982395एम	अब	जेसी-701347एल	07 अप्रैल 2016
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	राजू जी	13982541एफ	अब	जेसी-701388पी	01 मार्च 2016
हवलदार	के अजया कुमार	13982540वाई	अब	जेसी-701389एक्स	01 मार्च 2016
हवलदार	चन्द्रा शेखर भारती	13982481एक्स	अब	जेसी-701390एम	01 अप्रैल 2016
हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार सिंह	13982550एच	अब	जेसी-701518एम	01 अप्रैल 2016
हवलदार	अरविन्द कुमार सिंह	13982518एन	अब	जेसी-701519पी	01 अप्रैल 2016
हवलदार	कालु राम	13982583एन	अब	जेसी-701520के	01 अप्रैल 2016
हवलदार	रविन्द्रा प्रसाद गुप्ता	13982551एल	अब	जेसी-701527एन	01 मई 2016
हवलदार	राम स्नेही राम	13982571वाई	अब	जेसी-701570पी	01 जून 2016
हवलदार	रविन्द्रा नाथ	13982559एक्स	अब	जेसी-701571एक्स	01 जून 2016
हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह नेगी	13982589पी	अब	जेसी-701572ए	01 जून 2016
हवलदार	स्वपन कुमार जाना	13982591एम	अब	जेसी-701573एच	01 जून 2016
हवलदार	जीवन गुरुंग	13982691एफ	अब	जेसी-701670ए	01 अगस्त 2016
हवलदार	प्रणय कुमार	13982580ए	अब	जेसी-701671एच	01 अगस्त 2016
हवलदार	प्रदीप कुमार	13982650एन	अब	जेसी-701672एल	01 अगस्त 2016
हवलदार	सुदामा प्रसाद	04072987एल	अब	जेसी-701673एन	01 अगस्त 2016
हवलदार	हरीश चन्द्रा उपाध्याय	13982689ए	अब	जेसी-701674डब्ल्यू	01 अगस्त 2016
हवलदार	अशोक कुमार	13982741एक्स	अब	जेसी-701675वाई	01 अगस्त 2016
हवलदार	अजय कुमार सिंह	13982742ए	अब	जेसी-701676एफ	01 अगस्त 2016
हवलदार	लुहार राधेश्याम लक्ष्मण	13982770एम	अब	जेसी-701677के	01 अगस्त 2016
हवलदार	चौहान कुलदीप सिंह हरी सिंह	13982779पी	अब	जेसी-701673पी	18 अगस्त 2016'
हवलदार	सादी राजया रेड्डी	13982931के	अब	जेसी-701764एक्स	10 अगस्त 2016'
(' नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी।)					

ए के तिवारी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 262, दिनांक 18 नवम्बर 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

रक्षा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार मेजर (जी डी)	भुवन चन्द्र मुरारी	(जेसी-262924ए)	पहले आर्टिल्लेरी	05 अप्रैल 2015
स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में				
सूबेदार (जी डी)	खगेस्वर घर्ती मगर	(जेसी-623498पी)	पहले 8 जी आर	04 अप्रैल 2015
सूबेदार (जी डी)	प्रकाश कुमार नेऊपने	(जेसी-629568वाई)	पहले 9 जी आर	04 अप्रैल 2015
सूबेदार (जी डी)	जूगेन्द्र सिंह	(जेसी-469878एच)	पहले राज रीफ़	04 अप्रैल 2015
सूबेदार (जी डी)	रामा शाह	(जेसी-559863एफ़)	पहले बिहार	04 अप्रैल 2015
सूबेदार (जी डी)	सुभाष चंद	(जेसी-520678एक्स)	पहले डोगरा	04 अप्रैल 2015
सूबेदार (जी डी)	बलराज सिंह	(जेसी-450663पी)	पहले ग्रेनडीएर्स	04 अप्रैल 2015
सूबेदार (जी डी)	लमचुंग त्सेरिंग	(जेसी-588381पी)	पहले लद्दाख	04 अप्रैल 2015
सूबेदार (जी डी)	दिलावर सिंह	(जेसी-265212एच)	पहले आर्टिल्लेरी	05 अप्रैल 2015
सूबेदार (जी डी)	देवराजलु एम	(जेसी-269607एफ़)	पहले आर्टिल्लेरी	05 अप्रैल 2015
सूबेदार (जी डी)	सत पॉल	(जेसी-819111एन)	पहले सी एम पी	07 अप्रैल 2015

स्थायी नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी)	गोपाल सिंह	(जेसी-298508एफ़)	पहले ए ए डी	04 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी डी)	मोहम्मद राजा	(जेसी-588250के)	पहले लद्दाख	04 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी डी)	भटकंडे जोतिबा शंकर	(जेसी-459213वाई)	पहले एम एल आई	04 अप्रैल 2015

स्थायी नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी)	इन्द्र बहादुर थापा	(जेसी-607696डबल्यू)	पहले 3 जी आर	04 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी डी)	आनंद राम गुरुंग	(जेसी-617759एफ़)	पहले 5 जी आर	04 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी डी)	रुद्र बहादुर प्रधान	(जेसी-634864एन)	पहले 11 जी आर	04 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी डी)	ओम प्रकाश	(जेसी-540542पी)	पहले कुमाओं	04 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी डी)	बिरेन्द्र सिंह	(जेसी-540916ए)	पहले कुमाओं	04 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी डी)	मुनशी राम	(जेसी-520962एन)	पहले डोगरा	05 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी डी)	कम्लेस्वर सिंह	(जेसी-276766एफ़)	पहले आर्टिल्लेरी	05 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी डी)	बाबूलाल यादव	(जेसी-277470पी)	पहले आर्टिल्लेरी	05 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी डी)	वेद प्रकाश	(जेसी-278077वाई)	पहले आर्टिल्लेरी	06 अप्रैल 2015

ऋषिपाल सिंह नेगी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 31st December 2016

ARMY BRANCH

No. 259, dated 15th November 2016—The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 7/S/66 as amended:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 17 Sep 2015, on relinquishing their Short Service Commission wef 17 Sep 2015.

SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
SS-41477K	IC-66507F	SURAJ SINHA	SIGS
SS-41478M	IC-66508K	BHUPENDRA HANG SUBBA	SIGS
SS-41482P	IC-66511K	PANKAJ VERMA	SIGS
SS-41483X	IC-66512M	SANDEEP DHARWAL	SIGS
SS-41486L	IC-66515A	VINAY KUMAR PHOGAT	EME
SS-41497X	IC-66524F	RAKESH	ENGRS
SS-41498A	IC-66525K	HARSH VARDHAN SINGH	ENGRS
SS-41504H	IC-66528X	RAJU B	ENGRS
SS-41508Y	IC-66531X	NAVEEN MISHRA	EME

The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :-

Date for increments of pay - 17 Oct 2003

Date for promotion - 17 Oct 2003

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission of SSC-23(T) Course.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 18 Mar 2016, on relinquishing their Short Service Commission wef 18 Mar 2016.

SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
SS-41790P	IC-72793K	HARBIR SINGH GILL	ENGRS

The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :-

Date for increments of pay - 21 Apr 2004

Date for promotion - 21 Apr 2004

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission of SSC-24(T) Course.

The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 19 Mar 2015, on relinquishing their Short Service Commission wef 19 Mar 2015 :-

SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
SS-41337X	IC-66465A	ATMA PRAKASH	AOC

The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

Date for increments of pay - 19 Mar 2005

Date of seniority for promotion - 19 Oct 2005

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 17 Sep 2015, on relinquishing their Short Service Commission wef 17 Sep 2015 :-

SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
SS-41651L	IC-66636F	SUBODH SUDAN	MECH INF
SS-41692P	IC-66665W	PRATIK GUPTA	ENGRS

The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

Date for increments of pay - 17 Sep 2005

Date of seniority for promotion - 17 Apr 2006

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 17 Sep 2015, on relinquishing their Short Service Commission wef 17 Sep 2015 :-

SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
SS-41513K	IC-66538F	SUUDHIR GULIA	MECH INF
SS-41520A	IC-66543M	TRIPURARI SINGH	ENGRS
SS-41530K	IC-66550H	HARNEET SINGH SANGHA	MECH INF
SS-41537N	IC-66555F	SHAMSHER SINGH	ENGRS
SS-41549H	IC-66565L	SAURABH SHARMA	AAD
SS-41555W	IC-66571Y	DUSHYANT	MECH INF
SS-41560F	IC-66575P	LAXMAN SINGH	INF
SS-41579A	IC-66588M	MUKESH SHARMA	INF
SS-41597H	IC-66601L	JITENDRA NARUKA	INF
SS-41601A	IC-66604Y	SUKANT KRISHANA JOSHI	INF
SS-41635N	IC-66627A	CHANDRA SHEKHAR YADAV	ARTY
SS-41638F	IC-66629L	GAURAV PANDEY	INF
SS-41641F	IC-66630A	GOLVELKAR HEMANG KAMALAKAR	INF
SS-41678H	IC-66657X	AKSHAY DEEP SHARMA	ENGRS
SS-41703W	IC-66673P	HARPREET SINGH WALIA	ASC
SS-41711P	IC-66679W	DIGVIJAY JUYAL	INF

The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

Date for increments of pay - 17 Sep 2005

Date of seniority for promotion - 17 Apr 2006

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 24 Nov 2014, on relinquishing his Short Service Commission wef 24 Nov 2014 :-

SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
SS-42483K	IC-73301M	KISHAN SINGH	AC

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

Date for increments of pay - 17 Mar 2007

Date of seniority for promotion - 17 Oct 2008

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 8 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 02 Jun 2015, on relinquishing his Short Service Commission wef 02 Jun 2015 :-

SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
SS-42694M	IC-73452L	VIVEK VASHISHT	ARTY

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

Date for increments of pay - 22 Sep 2007

Date of seniority for promotion - 22 Apr 2009

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 8 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 02 Jun 2015, on relinquishing his Short Service Commission wef 02 Jun 2015 :-

SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
SS-42680M	IC-73451H	AJIT BHARDWAJ	ARTY
SS-42749L	IC-73453N	PRANAV UPADHAYAY	INF
SS-42805Y	IC-73454W	MADHUR SHUKLA	INF
SS-42829H	IC-73456F	SANGRAM SINGH DEORA	INF

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

Date for increments of pay - 22 Sep 2007

Date of seniority for promotion - 22 Apr 2009

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 8 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 04 Nov 2015, on relinquishing his Short Service Commission wef 04 Nov 2015 :-

SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
SS-42913H	IC-73619K	VIKRAMADITYA TYAGI	ARTY
SS-42918F	IC-73620Y	PANKAJ DWIVEDI	AOC
SS-42983F	IC-73622K	BHATI SIDDHARAJ SINH	INF

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

Date for increments of pay - 22 Mar 2008

Date of seniority for promotion - 22 Oct 2009

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 8 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 04 Nov 2015, on relinquishing his Short Service Commission wef 04 Nov 2015 :-

SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
SS-42908X	IC-73618F	ANJESH KUMAR YADAV	EME
SS-42922K	IC-73621F	RAVINDER KUMAR	EME
SS-42997F	IC-73623M	ANISH SINGH TOOR	INF
SS-43016Y	IC-73624P	VARUN TRISAL	ARTY
SS-43021K	IC-73625X	VARUN RAO	INF

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

Date for increments of pay - 22 Mar 2008

Date of seniority for promotion - 22 Oct 2009

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 8 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Sep 2013, on relinquishing his Short Service Commission wef 20 Sep 2013 :-

SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
SS-43213F	IC-73662L	ABHINANDAN	ARTY

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

Date for increments of pay - 20 Sep 2008

Date of seniority for promotion - 20 Apr 2009

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointment under the provision of SAI 3/S/70 (as amended) and SAI 7/S/66 :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned WSES(O) have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 19 March 2015, on relinquishing their WSES(O) Commission wef 19 March 2015 :-

WS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
WS-01067L	IC-66377K	LEENA BAJAJ	AEC

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

For increment of pay - 19 March 2005

For promotion - 19 September 2005

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of commission to WSESOs.

The under mentioned WSES(O) have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 17 September 2015, on relinquishing their WSES(O) Commission wef 17 September 2015 :-

WS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
WS-01079A	IC-66697Y	GURPREET KAUR DAYAL	JAG

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

For increment of pay	-	17 Sep 2005
For promotion	-	17 Sep 2006

The inter-se-seniority, vis-à-vis those offr commissioned on the same date and granted permanent commission with same seniority for promotion, will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of commission to WSESs/SSCOs.

The under mentioned WSES(O) have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 17 September 2015, on relinquishing their WSES(O) Commission wef 17 September 2015 :-

WS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
WS-01075K	IC-66692A	HARJOT KAUR	AEC
WS-01108K	IC-66693H	JYOTI SINGH	AEC
WS-01119W	IC-66695N	DIVYA SINGH	AEC

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

For increment of pay	-	17 September 2005
For promotion	-	17 March 2006

The inter-se-seniority, vis-à-vis those offr commissioned on the same date and granted permanent commission with same seniority for promotion, will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of commission to WSESs/SSCOs.

The under mentioned WSES(O) have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 18 March 2016, on relinquishing their WSES(O) Commission wef 18 March 2016 :-

WS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
WS-01203W	IC-72956M	SASMITA MAHAPATRA	AEC
WS-01207M	IC-72957P	SHYAMALI ARYA	AEC

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

For increment of pay	-	18 March 2006
For promotion	-	18 September 2006

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of commission to WSESs.

The under mentioned WSES(O) has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 02 Jun 2015, on relinquishing their WSES(O) Commission wef 02 Jun 2015 :-

WS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
WS-01367M	IC-73315M	NIRMALA	AEC

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

For increment of pay	-	22 Sep 2007
For promotion	-	22 Mar 2009

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 08 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of commission to WSESs.

The under mentioned WSES(O) has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 02 Jun 2015, on relinquishing their WSES(O) Commission wef 02 Jun 2015 :-

WS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
WS-01370M	IC-73316P	MANISHA DABAS	AEC
WS-01435P	IC-73317X	VIDUSHI BHATT	AEC

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

For increment of pay - 22 Sep 2007

For promotion - 22 Mar 2009

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 08 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of commission to WSESOs.

The under mentioned WSES(O) has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 04 Nov 2015, on relinquishing their WSES(O) Commission wef 04 Nov 2015 :-

WS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
WS-01487L	IC-73487F	YOGESH SHEKHAWAT	AEC

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

For increment of pay - 22 Mar 2008

For promotion - 22 Sep 2009

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 08 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of commission to WSESOs.

SALASH UNIYAL

Col

Col MS 7

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 260, dated 16th November 2016—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officers :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

TO BE SUBSTANTIVE LT GENERAL

IC NO.	RANK	NAME	ARM	DATE OF SUBS LT GEN
IC-39436	LT GEN	SK SAINI, YSM, VSM	JAT	21.05.16
IC-39846	LT GEN	AR PRASAD, VSM	SIGS	30.06.16
V-00359	LT GEN	AJ SINGH, VSM	RVC	30.06.16
IC-39465	LT GEN	AJS BEDI, YSM, VSM	GARH RIF	01.07.16
IC-39492	LT GEN	ANIL CHAUHAN, AVSM, SM, VSM	GREN	01.07.16
IC-39522	LT GEN	JS NEGI, AVSM, YSM, VSM**	DOGRA	01.07.16

The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers :-

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBS MAJ GEN
IC-37882	A/MAJ GEN	DALIP SINGH	AOC	02.04.16 with seniority from 03.06.12 without effect on pay and pension.

DEBASIS PRADHAN

Dy Dir MS (X)

ARMY BRANCH

No. 261, dated 17th November 2016—The president is pleased to make the following promotions.

(REGULAR ARMY)

(ARMY MEDICAL CORPS)

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR (N ASST)

SUBEDAR	P RAMAMOORTHY	JC698356Y	01 SEP 2015
SUBEDAR	KUNCHALA RAVI KUMAR	JC698407F	01 NOV 2015
SUBEDAR	DARSHAN SINGH	JC698409M	01 DEC 2015
SUBEDAR	BHIM SINGH	JC698410F	01 JAN 2016
SUBEDAR	K. SUNDARA RAJAN	JC698411K	01 JAN 2016
SUBEDAR	BHASKAR PHUKAN	JC698441F	01 JAN 2016
SUBEDAR	RAMESH SINGH PARIHAR	JC698443M	01 FEB 2016
SUBEDAR	KAUSHAL KISHORE	JC698444P	01 FEB 2016

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR (N TECH)

SUBEDAR	P MURALI	JC693732X	15 SEP 2015
(* Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Jul 2015 without effect on pay and allces)			
SUBEDAR	GANESH SINGH RAWAT	JC693747A	01 JAN 2016
SUBEDAR	KARAMVIR	JC694252A	01 FEB 2016

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR (AMB ASST)

SUBEDAR	RAWAN MAHTO	JC698544A	31 Jul 2016
(* Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 29 Jul 2016 without effect on pay and allces)			
SUBEDAR	SUDHIR KUMAR JHA	JC698590P	01 Aug 2016
SUBEDAR	SANJAY KUMAR	JC698594L	01 Aug 2016
SUBEDAR	PRAHLAD MAL GURJAR	JC698625A	01 Sep 2016
SUBEDAR	CHITTAM SETTI SRINIVASULU	JC698626H	01 Sep 2016
SUBEDAR	MAHBUB ALAM	JC698174L	01 Oct 2015
SUBEDAR	RAM BILASH YADAV	JC698309F	01 Oct 2015
SUBEDAR	RAJESH KUMAR	JC698254H	01 Nov 2015
SUBEDAR	RAJESH KUMAR	JC698255L	01 Nov 2015
SUBEDAR	DES RAJ	JC698256N	01 Nov 2015
SUBEDAR	S DASAN	JC698306N	01 Nov 2015
SUBEDAR	AAM SINGH	JC698368N	01 Dec 2015
SUBEDAR	KRISHAN KUMAR	JC698448L	01 Jan 2016
SUBEDAR	BIJENDER SINGH	JC698367L	28 Jan 2016*
(* Granted seniority in the rank of Subedar Major wef 02 Jan 2016 without effect on pay and allces)			
SUBEDAR	SHAM LAL	JC698449N	01 Feb 2016
SUBEDAR	BHAGWAN SINGH	JC698450H	01 Feb 2016

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (AMB ASST)

NAIB SUBEDAR	LALITESHVAR PRASAD SINGH	JC699762L	09 Jan 2016*
NAIB SUBEDAR	MOHAR SINGH	JC699684Y	01 Jul 2015*
(*Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2015 without effect on pay and allces)			

NAIB SUBEDAR	RAGHU BANS SINGH	JC699847F	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	RAMAKANT SAHU	JC699848K	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	SATYA SHIV KUMAR BHARATI	JC699824A	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	RAJESH KUMAR SHAHI	JC699876W	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	SANJEET KUMAR	JC699826L	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	RAVINDRA	JC699835M	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	MAHESH RAI	JC699849M	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	DULI CHAND BAIRWA	JC699901K	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	MUKESH CHANDRA	JC699827N	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	CHANDRIKA RAM	JC699897M	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	ALOK MANNA	JC699956N	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	RAM NARESH	JC699828W	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	RAJ KUMAR YADAV	JC699957W	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	GEG RAJ	JC699829Y	01 Oct 2015
(**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	ROOP SINGH	JC699864F	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR	JC699959F	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	GOPI CHAND	JC699865K	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	AMARESH KUMAR PRADHAN	JC699866M	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	AKSHAYA KUMAR SAHU	JC699872A	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	CHANDESHWAR YADAVA	JC699868X	06 Nov 2015***
NAIB SUBEDAR	SHUSHIL KUMAR SAH	JC699869A	02 Nov 2015***
NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR THAKUR	JC699870P	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	RAM AWATAR SINGH	JC699871X	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	MITHLESH PRASAD MISHRA	JC699981M	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	CHAUHAN MAHENDRA SINGH DHARMPAL SIN	JC699982P	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	BIBHAS CHANDRA GHOSH	JC699983X	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	GEORGE THOMAS	JC699984A	01 Nov 2015
(***)Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	UDAY KUMAR SINGH	JC699985H	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	DEO NANDAN SINGH	JC699986L	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	PARAMJIT KUMAR	JC699987N	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	JOGINDER SINGH	JC700022L	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR	JC700023N	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	GUNA MOHAN SINGHA	JC700024W	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	SURENDRA PRASAD SHARMA	JC700025Y	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR SINGH	JC700026F	04 Feb 2016****
NAIB SUBEDAR	DEV RAJU DS	JC700027K	08 Feb 2016****
(****Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	SHIV CHANDRA SINGH	JC699825H	31 Mar 2016
(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2015 without effect on pay and allces)			

NAIB SUBEDAR	TEK CHAND	JC699989Y	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	SAJEEVAN PILLAI K	JC700028M	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	MURALEE DHARAN PILLAI K	JC700517X	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	PAKHARE BALASO RAMA	JC700029P	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR	JC700030K	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	SATYENDRA CHAUHAN	JC700031M	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	DHANNA RAM YADAV	JC700032P	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	SUNIL DEY ASHI	JC700221Y	01 Jun 2016
NAIB SUBEDAR	M SETTU	JC700222F	01 Jun 2016
NAIB SUBEDAR	G APPALA NAIDU	JC700223K	07 Jun 2016*
NAIB SUBEDAR	CHAUBEY RAVINDRA KUMAR RAJA RAM	JC700224M	07 Jul 2016*

(*Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allces)

NAIB SUBEDAR	SUKHBIR SINGH	JC700225P	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	NARESH KUMAR	JC700226X	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	SURENDRA KUMAR PATEL	JC700235Y	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	MUNSHI	JC700227A	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	ASHOK KUMAR	JC700228H	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	VENKATESWARA RAO GRANDHI	JC700229L	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	UDAYABHANU VARATHAN KANDY	JC700230A	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	UMESH KUMAR	JC700262H	17 Aug 2016**
NAIB SUBEDAR	PRATAP SINGH	JC700236F	01 Aug 2016

(**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (N TECH)

NAIB SUBEDAR	SANTI NATH DE	JC697604X	01 Aug 2015
NAIB SUBEDAR	PRADEEP KUMAR MISHRA	JC697607L	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	JODH SINGH BORA	JC697608N	06 Oct 2015*

(* Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2015 without effect on pay and allces)

NAIB SUBEDAR	JAYENDER SINGH	JC697609W	18 Feb 2016**
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA KUMAR	JC697610L	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	LAXMAN SINGH	JC697611N	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	SONAVANE BHASKAR SHANKAR	JC697612W	21 Nov 2015**

(** Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)

NAIB SUBEDAR	AJAY KUMAR	JC697725Y	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR SINGH	JC697613Y	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	VIJESH KUMAR	JC697614F	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	SHYAM CHANDRA SINHA	JC697615K	10 Dec 2015***

(*** Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)

NAIB SUBEDAR	DAULAT SINGH	JC697616M	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	KUL BHUSHAN	JC697617P	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	SYRUL ALAM	JC697618X	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	PRANNATH GUPTA	JC697619A	01 Dec 2015

NAIB SUBEDAR	GONDESI SANYASI RAO	JC697620P	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	V JAMES XAVIER RAJA	JC697621X	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	RAJ KUMAR	JC697622A	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR	JC697623H	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	GOURABA KUMAR BEHERA	JC697624L	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	NARENDRA KUMAR	JC697625N	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR GOSWAMI	JC697626W	01 Feb 2016

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (N ASST)

NAIB SUBEDAR	SANTOSH KUMAR SINGH	JC699165W	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	YOGESH CHANDRA MISHRA	JC699249K	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	PAWAN KUMAR	JC699250Y	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	LAKKU BALAIAH	JC699251F	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	JAI BHAGWAN	JC699252K	02 Nov 2015*

(* Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)

NAIB SUBEDAR	MADAN LAL SAH GANGOLA	JC699253M	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	THANA RAM GODARA	JC699254P	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	OM PARKASH SINGH	JC699255X	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	ARVIND KUMAR PANWAR	JC699256A	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	DEEPAK SHARMA	JC699257H	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	R VIJI	JC699377F	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	NOUBAT SINGH	JC699259N	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	PREM CHAND	JC699260H	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	MANVIR PRASAD TIWARI	JC699264Y	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	JADHAV GOVIND KISHAN RAO	JC699265F	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	GIRWAR SINGH GADAWAL	JC699266K	01 Feb 2016

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (DHYG)

NAIB SUBEDAR	YOGESH CHANDRA	JC698283X	03 Feb 2014
Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 14 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SUDHIR KUMAR SINGH	JC698229K	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	PRAMOD KUMAR MISHRA	JC698284A	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	ASOHAN T	JC698285H	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	BALA SUBRAMANIAN M	JC698286L	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	PREM BALLABH	JC698287N	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	ASWANI KUMAR SINGH	JC698288W	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	RAHMAN KHAN	JC698289Y	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	RAJESH KUMAR PANDEY	JC698332P	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	CHANDRA BABU V	JC698333X	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	MAHENDER SINGH BISHT	JC698386W	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	UDAY SINGH	JC698421N	01 Dec 2014
NAIB SUBEDAR	AMAR JEET	JC698334A	01 Dec 2014
NAIB SUBEDAR	VENKATESH K	JC698335H	18 Mar 2015*

NAIB SUBEDAR	UMESH CHANDRA TEWARI	JC698342Y	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	SHYAM LAL	JC698343F	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	KHURSHEED AHMAD	JC698467W	02 Mar 2015*
*Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SARFARAAZ	JC698468Y	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	SEBASTIAN VERGHESE E	JC698427P	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	SHAJI CK	JC698505F	04 Jul 2015**
NAIB SUBEDAR	PRABHUNATH RAJBHAR	JC698777F	01 Jul 2015
**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SANDIP KUMAR BANERJEE	JC698778K	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	BHOMA RAM	JC698786H	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	SAHADEB MAHARANA	JC699069F	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	RAM PRASAD DAS	JC698867H	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	BHUPAL SINGH MEHRA	JC699221K	28 Oct 2015***
NAIB SUBEDAR	GANGA SINGH BISHT	JC698909K	01 Oct 2015
***Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	DEVESH KUMAR	JC699299P	02 Nov 2015
Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	RAJESH KUMAR DHIMAN	JC699105F	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	RAM CHARAN SONI	JC699070W	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	JITENDRA SINGH GHARWAR	JC699312N	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	SHANKAR SINGH	JC699379M	01 Feb 2016

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (ORA)

NAIB SUBEDAR	UMESH SINGH RANA	JC697097P	17 Sep 2012*
NAIB SUBEDAR	BRAJENDRA KUMAR PANDEY	JC697098X	14 Sep 2012*
NAIB SUBEDAR	RAM BIHARI	JC697099A	11 Sep 2012*
NAIB SUBEDAR	DORLE AJAY TRIMBAK	JC697100K	11 Sep 2012*
NAIB SUBEDAR	NIMBALKAR AJITRAO GUNAJI RAO	JC697101M	15 Sep 2012*
NAIB SUBEDAR	S MARIMUTHU	JC697102P	11 Sep 2012*
NAIB SUBEDAR	BALA DATT	JC697103X	29 Sep 2012*
NAIB SUBEDAR	POORAN CHANDRA JOSHI	JC697104A	13 Sep 2012*
NAIB SUBEDAR	RAJ KUMAR	JC697493L	03 Oct 2012*
NAIB SUBEDAR	ASHFAK AHMAD	JC697167H	13 Oct 2012*
NAIB SUBEDAR	BIRBAL	JC697107N	11 Sep 2012*
NAIB SUBEDAR	DIPAK MIDDAY	JC697108W	14 Sep 2012*
*Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 12 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	AMULYA KUMAR MOHANTY	JC697109Y	01 Oct 2012
NAIB SUBEDAR	ASHWINI KUMAR	JC697111W	01 Oct 2012
NAIB SUBEDAR	UMAKANT NAYAK	JC697383W	01 Nov 2012
NAIB SUBEDAR	SALOKHE SUKHADEO SADASHIV	JC697112Y	12 Jan 2013**
NAIB SUBEDAR	U BALAMURUGAN	JC696970P	29 Jan 2013**
**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 12 without effect on pay & allces			

NAIB SUBEDAR	SHESH NATH GIRI	JC697114K	01 Feb 2013
NAIB SUBEDAR	PAWAN KUMAR JADUS	JC697115M	01 Mar 2013
NAIB SUBEDAR	SATYWAN SINGH	JC697117X	01 Mar 2013
NAIB SUBEDAR	ANGAJ NARAYAN DADU	JC697118A	01 Mar 2013
NAIB SUBEDAR	RAJAN SINGH	JC697120X	01 Mar 2013
NAIB SUBEDAR	CHANDER PAL	JC697385F	01 Mar 2013
NAIB SUBEDAR	BHAGWAN SINGH PUNIA	JC697384Y	01 Mar 2013
NAIB SUBEDAR	MORE SHIVAJI SHAMRAO	JC697169N	01 Apr 2013
NAIB SUBEDAR	PATIL SURESH VITTHAL	JC697170H	01 Apr 2013
NAIB SUBEDAR	HUSHNAK SINGH	JC697172N	01 Apr 2013
NAIB SUBEDAR	GOBINDA CHANDRA MALLICK	JC697121A	22 Jul 2013***
NAIB SUBEDAR	SURESH KUMAR YADAV	JC697351N	18 Jun 2013***
NAIB SUBEDAR	AZAD SINGH	JC697494N	08 Jun 2013***
NAIB SUBEDAR	UMESH KUMAR TIWARI	JC697495W	29 Jun 2013***
NAIB SUBEDAR	ANIMESH NATH	JC697499M	18 Jul 2013***
NAIB SUBEDAR	RAKESH KUMAR GUPTA	JC697507A	04 Jul 2013***
***Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 13 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	NAVALE NITIN NAMDEO	JC697113F	07 Aug 2013
Granted seniority in the rank of Subedar wef 25 Jun 13 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	VIKRAM SINGH BAJIA	JC697530N	01 Aug 2013
NAIB SUBEDAR	PREM NARAYAN	JC697531W	01 Sep 2013
NAIB SUBEDAR	DHIRI SINGH	JC697532Y	01 Sep 2013
NAIB SUBEDAR	RAM DEV SINGH	JC697533F	01 Sep 2013
NAIB SUBEDAR	KARUNENDRA SINGH	JC697575N	01 Oct 2013
NAIB SUBEDAR	ARUNA KUMAR MUKHARJEE	JC697739Y	01 Oct 2013
NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR CHAUDHARY	JC697577Y	01 Oct 2013
NAIB SUBEDAR	SAT PAL	JC697578F	01 Oct 2013
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA SINGH	JC697579K	02 Nov 2013****
****Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 13 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	KHARAK SINGH BISHT	JC697580Y	01 Nov 2013
NAIB SUBEDAR	JAI PRAKASH	JC697741W	01 Nov 2013
NAIB SUBEDAR	VIJENDER SINGH	JC697666X	01 Nov 2013
NAIB SUBEDAR	BIRADAR SOMNATH KASHI NATH	JC698065Y	01 Nov 2013
NAIB SUBEDAR	KAILASH CHANDRA	JC697692Y	01 Nov 2013
NAIB SUBEDAR	AJOY KUMAR YADAV	JC697667A	02 Dec 2013#
NAIB SUBEDAR	UGRASEN PATEL	JC697693F	02 Dec 2013#
NAIB SUBEDAR	NIRANJAN LAL	JC697701P	02 Dec 2013#
NAIB SUBEDAR	SURENDRA SINGH	JC697702X	11 Dec 2013#
NAIB SUBEDAR	CHANDAN CHATTERJEE	JC697703A	02 Dec 2013#
NAIB SUBEDAR	RAMESH CHANDRA	JC697704H	02 Dec 2013#
NAIB SUBEDAR	KUMUD SARMA	JC697705L	01 Dec 2013
NAIB SUBEDAR	JAGAT PAL	JC697706N	01 Dec 2013

NAIB SUBEDAR	RAM SINGH	JC697707W	08 Dec 2013#
#Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 13 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	PATIL BHIMGONDA KALAGONDA	JC697708Y	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	NALAWADE BALAWANT RAGHUNATH	JC697709F	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	PATIL RAJENDRA UDAJI	JC697752H	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	GAIKWAD MANOHAR SAHEB RAO	JC697988X	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	KODAG DHYANESWAR DADA	JC697753L	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	PAWAR SHIVAJI TUKARAM	JC697809M	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	PARAB MOHAN PARSHURAM	JC697849N	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	SURINDER SINGH	JC697850H	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	RANBIR SINGH	JC697851L	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	S VENKATESAN	JC697852N	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	DAYANAND	JC697853W	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	SUNDER LAL	JC697867W	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	JAGDEO KHAIRE NIMGAON	JC697854Y	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	BIRENDRA PRASAD	JC697914H	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	UDAY SINGH CHOUHAN	JC697891M	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	PRADEEP KUMAR	JC697876X	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	PRADEEP KUMAR BEHERA	JC697923K	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	RAM NARESH DUBEY	JC697924M	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	MANOJ MANDAL	JC698012A	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	SHIB PADA MONDAL	JC697975A	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	PREM KUMAR SINGH	JC698014L	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	MD. NASIRUDDIN	JC698015N	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	MOHAMMAD JALILUR RAHMAN	JC698016W	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	BIKRAM SINGH RAWAT	JC698017Y	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	STANLEY MM	JC698062L	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	SANTOSH KUMAR SINGH	JC698066F	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	MANE GOVIND RANGRAO	JC698122P	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	MAHENDRA PRATAP SINGH RATHORE	JC698125H	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	MD ANZER ALAM	JC698148K	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	JANI UDAY BABU BHAI	JC698149M	21 Jun 2014##
##Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 14 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	RAJKUMAR SINGH BHATI	JC698153P	15 Jul 2014###
NAIB SUBEDAR	BANSHI LAL SUTHAR	JC698181F	08 Sep 2014###
###Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 14 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	G SRINIVASULU	JC698319L	04 Aug 2014
Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 14 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	BALWAN SINGH	JC698183M	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	SUBASH CHANDER	JC698184P	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	PUSHPINDER SINGH	JC698185X	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	MASARAPU RAMCHANDRA NAIDU	JC698186A	01 Oct 2014

NAIB SUBEDAR	H PRAGALADAN	JC698187H	01 Nov 2014
NAIB SUBEDAR	VIRENDER PRASAD SILSWAL	JC698188L	08 Jan 2015\$
NAIB SUBEDAR	DHIRENDRA SINGH RAWAT	JC698189N	01 Dec 2014
NAIB SUBEDAR	NARENDRA KUMAR	JC698190H	04 Dec 2014\$
NAIB SUBEDAR	CHANDRA SHEKHAR	JC698191L	01 Dec 2014
\$Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 14 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SATYENDRA SINGH	JC698192N	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	POORAN CHANDRA JOSHI	JC698193W	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	SUSHIL KUMAR	JC698194Y	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	HARI KISHAN BHURIYA	JC698195F	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	SUSEEL KUMAR V	JC698196K	04 Feb 2015\$\$
\$\$Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	BHOLA NATH SINGH	JC698197M	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	VINOD KUMAR PANDEY	JC698198P	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	RAMESH KUMAR	JC698384L	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	RAMACHANDRA KURUP D	JC698217P	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	GANESH SINGH	JC698320A	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	JEETENDRA KUMAR RAI	JC698218X	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	BALACHANDRAN NAIR V	JC698219A	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	SAJIMON PS	JC698220P	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	VINOD KA	JC698387Y	04 Jun 2015\$\$\$
NAIB SUBEDAR	SURENDER SINGH	JC698336L	17 Aug 2015\$\$\$
NAIB SUBEDAR	GOLAM MORTUZA	JC698337N	04 Jul 2015\$\$\$
\$\$\$Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	DHARMAVEER SINGH	JC698338W	01 Jul 2015
NAIB SUBEDAR	SURAJIT SAHA	JC698339Y	31 Jul 2015@
NAIB SUBEDAR	BHARAT TIWARI	JC698388F	29 Jul 2015@
NAIB SUBEDAR	SOLANKI GULAB SINGH DEVABHAI	JC698392K	10 Jul 2015@
NAIB SUBEDAR	PATEL GHANSHYAM BHAI CHANDU LAL	JC698393M	01 Jul 2015
@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	CHAMAR NATUBHAI ALKHABHAI	JC698432A	05 Aug 2015@@
NAIB SUBEDAR	SATYENDRA KUMAR	JC698469F	01 Aug 2015
@@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	K SOUNDARA RAJAN	JC698433H	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	PRAVEEN KUMAR SHARMA	JC698470W	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	ANBU J	JC698474M	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	RANJIV SINGH	JC698476X	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	KAUSHALENDRA SINGH CHAUHAN	JC698513A	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR SINGH	JC698514H	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	RAVINDRA SINGH HADA	JC698536F	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	CHANDRA MANI PRASAD UPADHYAY	JC698555M	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	GOLAM KIBRIA	JC698556P	01 Oct 2015

NAIB SUBEDAR	SURESH PRATAP SINGH	JC698600N	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	SHAKTI PRASAD SHAHI	JC698601W	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	KAPTAN SINGH	JC698602Y	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	BHUWAN CHANDRA MUWANI	JC698603F	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	MARE PRAKASH BHAIRU	JC698667M	02 Nov 2015@@@
NAIB SUBEDAR	PURAN SINGH NAYAL	JC698674H	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	PRADEEP KUMAR NEGI	JC698706A	02 Nov 2015@@@
@@@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	VIJAY PAL	JC698690A	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR	JC698791N	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	SUKHBIR SINGH TYAGI	JC699150N	18 Dec 2015^
NAIB SUBEDAR	MAHENDRA SINGH	JC698676N	01 Dec 2015
^Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	JITENDRA SINGH	JC698692L	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	RAM AVTAR SHARMA	JC698693N	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	NARAYAN SINGH	JC698677W	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	TAKALE PANDURANG HANUDAS	JC698765M	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	PRAVIN KUMAR SHARMA	JC698768A	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	RAMESH CHANDER	JC698769H	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	JAI SINGH	JC698770X	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	SHIVDEV KUMAR	JC698771A	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	RAJESH KUMAR	JC698772H	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	LATEKAR RAJU MAHADEO	JC698773L	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	PATHAN RAMZAN AHMED	JC698861F	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	DEVENDER	JC699056K	01 Feb 2016
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (HEALTH ASST)			
NAIB SUBEDAR	SHANKAR MAHATO	JC696421P	01 Apr 2013
NAIB SUBEDAR	VIJAY KUMAR	JC696616A	01 May 2013
NAIB SUBEDAR	MITHLA PRASAD TIWARI	JC696912L	01 May 2013
NAIB SUBEDAR	VINOY KP	JC696697L	11 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 13 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR SP	JC697008L	02 Sep 2013**
NAIB SUBEDAR	SHYAM KARAN	JC696820Y	01 Sep 2013
NAIB SUBEDAR	GANGA PRASAD	JC696727X	02 Sep 2013**
NAIB SUBEDAR	RAJROOP TIWARI	JC696821F	04 Sep 2013**
NAIB SUBEDAR	ARUN KUMAR	JC696913N	02 Sep 2013**
NAIB SUBEDAR	NARENDRA SINGH RATHORE	JC697490X	02 Sep 2013**
NAIB SUBEDAR	MURTAZA ALI AHMAD	JC697133P	01 Sep 2013
**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 13 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	CHANDER CHUR PRASAD	JC697572A	01 Nov 2013
NAIB SUBEDAR	SANJEEV KUMAR	JC697695M	08 Jan 2014***
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR SINGH	JC697135A	07 Feb 2014***
NAIB SUBEDAR	RAJU T	JC697324K	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	CHALAKE ASHOK CHANDRU	JC697136H	11 Feb 2014***
***Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 14 without effect on pay & allces			

NAIB SUBEDAR	DHIRENDRA KUMAR SENAPATI	JC697137L	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	NANDJEE SINGH	JC697164P	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	RAJESH KUMAR	JC697165X	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	DEBANANDA DAS	JC697138N	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	MD NAZI MUDDIN	JC697166A	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	KAMAL DEO SHARMA	JC697212K	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	SAJITH KUMAR S	JC697367Y	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	MOHASIN KK	JC697475H	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	KAMAL KISHORE	JC697509L	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	AMRENDRA TIWARI	JC697744K	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	L ANTHONI SAMY	JC697754N	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	UDAYA KUMAR S	JC697869F	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	AJAYA KUMAR P	JC697802H	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	SAJU K P	JC697755W	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	RAM AWADH SINGH YADAV	JC697881H	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	JARNAIL SINGH	JC697970F	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	UPINDER JEET SINGH	JC698118M	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	CHHOTE LAL SINGH	JC698120K	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	JA HAR LAL DASH	JC698121M	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	BRAJ KISHOR SINGH	JC698127N	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	PARTAP SINGH JAKHAR	JC698128W	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	AVINASH CHANDER	JC698296P	15 Jul 2014@
NAIB SUBEDAR	RAJ KUMAR PARMAR	JC698297X	01 Jul 2014
@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 14 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	RAMESH CHANDRA TRIPATHI	JC698301P	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	PRADIP KUMAR UPADHYAY	JC698302X	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	ASHOK KUMAR	JC698303A	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	ASOKAN MS	JC698394P	01 Nov 2014
NAIB SUBEDAR	KAMAKHYA NARAYAN SINGH	JC698395X	01 Dec 2014
NAIB SUBEDAR	SHIRBHATE RAJESH BAJIRAO JI	JC698119P	11 Feb 2015@@
@@Granted seniority in the rank of Subedar wef 21 Dec 14 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SHIVA PRASAD B R	JC698396A	01 Jul 2015
NAIB SUBEDAR	KULDEEP SINGH	JC698397H	01 Jul 2015
NAIB SUBEDAR	RAJA F	JC698398L	03 Sep 2015@@@
NAIB SUBEDAR	DHARMENDR KUMAR KRISHNA	JC698422W	22 Aug 2015@@@
@@@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	KISHORE CHANDRA SAHOO	JC698423Y	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	PRABODH KUMAR HAZRA	JC698471Y	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	MAHIPAL SINGH	JC698515L	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	SATISH KUMAR	JC698516N	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	TAPASKUMAR DAS	JC698517W	07 Oct 2015#
NAIB SUBEDAR	BENU DHAR NAYAK	JC698596W	06 Oct 2015#

NAIB SUBEDAR	MAKI REDDY ESWARA REDDY	JC698728Y	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	DEO CHANDRA KUMAR	JC698729F	01 Oct 2015
#Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR SHARMA	JC698775W	08 Dec 2015##
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA BHATT	JC698776Y	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	PRAMOD KUMAR	JC698787L	26 Nov 2015##
NAIB SUBEDAR	HENGOULAM LHOUVUM	JC699169M	01 Nov 2015
##Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR N	JC699170F	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	SHAMBOO KUMAR ISHWAR	JC699171K	14 Dec 2015###
###Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	ARUN KUMAR YADAVA	JC699172M	01 Jan 2016

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (LAB ASST/LAB TECH)

NAIB SUBEDAR	RAVINDRA KUMAR	JC697359A	05 Mar 2012*
NAIB SUBEDAR	KUMAR PAL SINGH	JC697400L	23 Mar 2012*
*Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 12 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	RATNESHWAR DWIVEDI	JC697360P	10 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	TANDLE DAYARAM PUNDLIK	JC697401N	01 Sep 2012
NAIB SUBEDAR	PREM SINGH	JC697402W	03 Oct 2012**
NAIB SUBEDAR	PAWAN KUMAR	JC697361X	11 Oct 2012**
NAIB SUBEDAR	MADHUSOODANAN PILLAY N	JC697362A	09 Nov 2012**
NAIB SUBEDAR	JANGAVE ASHOK SHIV MURTI	JC697764X	29 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	RAJINDER SINGH	JC697925P	28 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	KODE SUBBARAYUDU	JC697926X	20 Oct 2012**
NAIB SUBEDAR	SUKHWINDER SINGH	JC697977L	27 Oct 2012**
NAIB SUBEDAR	GANGADHAR SAHOO	JC697978N	26 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	V DEBRAJ	JC697979W	27 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	DHIREN KUMAR PANI	JC698265P	11 Jul 2013**
NAIB SUBEDAR	M SIVASANKARAN	JC697980L	29 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	RAM MOHAN K	JC697981N	03 Oct 2012**
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR	JC697982W	30 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR SINGH	JC697983Y	28 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	RANJAN KUMAR JENA	JC697987P	20 Oct 2012**
NAIB SUBEDAR	RAM MANOHAR YADAV	JC697984F	28 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	PAWAR JITENDRA CHINTAMANI	JC698028L	29 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	SURYAVANSHI SHRIHARI GANPAT RAO	JC698029L	29 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	UPENDRA PRASAD	JC698030H	28 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	DINESH KUMAR	JC698031L	28 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	PRAVEEN KUMAR MALL	JC698216M	29 Sep 2012**
NAIB SUBEDAR	PROMOD KUMAR CHOUDHARY	JC698178F	05 Jan 2013**
**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 12 without effect on pay & allces			

NAIB SUBEDAR	SOMESWAR GHOSH CHOUDHURY	JC698057A	05 Jan 2013***
NAIB SUBEDAR	SANTOSH KUMAR PAL	JC698108H	14 Jan 2013***
***Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 12 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SATISH KUMAR	JC698056X	01 Feb 2013
Granted seniority in the rank of Subedar wef 11 Dec 12 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	JEEWAN SINGH KHATI	JC698032N	01 Mar 2013
NAIB SUBEDAR	BHOJI MAHADEV MALLAPA	JC698033W	01 Mar 2013
NAIB SUBEDAR	MUSHTAQ AHMAD MIR	JC698034Y	01 Mar 2013
NAIB SUBEDAR	VILVANATHAN	JC698011X	01 Mar 2013
NAIB SUBEDAR	MS ARUMU GAM	JC698035F	01 Apr 2013
NAIB SUBEDAR	SHIRKE ARUN NHANU	JC698036K	01 Apr 2013
NAIB SUBEDAR	PITAMBER ROUT	JC698037M	01 Apr 2013
NAIB SUBEDAR	KISHORE MAHANTA	JC698038P	01 Apr 2013
NAIB SUBEDAR	BHARAT BHUSHAN	JC698039X	01 Aug 2013
NAIB SUBEDAR	JANGAVE GANPATI SHIVMURTI	JC698040M	01 Aug 2013
NAIB SUBEDAR	MAGADE ZUNJAR REVANSIDHA	JC698063N	02 Sep 2013****
****Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 13 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	RAM SAHAY SINGH	JC698109L	03 Oct 2013#
NAIB SUBEDAR	PUSHP RAJ	JC698110A	04 Oct 2013#
#Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 13 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SATYAPAL	JC699139P	01 Nov 2013
NAIB SUBEDAR	SURESH KUMAR SHIVHARE	JC698150F	01 Nov 2013
NAIB SUBEDAR	YUDHABIR SINGH	JC698151K	03 Dec 2013##
NAIB SUBEDAR	BHUPAL SINGH	JC698199X	01 Dec 2013
NAIB SUBEDAR	GAJENDRA SINGH	JC698200F	20 Dec 2013##
##Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 13 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	MOHAMMAD JABEER	JC698221X	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	DEVI SINGH	JC698533N	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	SAGI P	JC698222A	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	ARBIND KUMAR SHUKLA	JC698223H	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	DANBEER SINGH	JC698201K	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	LALLA SINGH	JC698307W	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA KUMAR PANDEY	JC698321H	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	SURENDRA SINGH RAWAT	JC698385N	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	PURAN CHAND PATHAK	JC698331M	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	HEM CHANDRA	JC698425K	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	PRATAP KUMAR PANDAB	JC698477A	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	BISWANATH SARKAR	JC698790L	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	RAJ KISHORE	JC698561A	07 Feb 2014###
NAIB SUBEDAR	PRABHAKAR SINGH	JC698554K	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	DEVENDRA KUMAR	JC698680W	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR OJHA	JC698681Y	03 Feb 2014###
###Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 14 without effect on pay & allces			

NAIB SUBEDAR	MUNISH KUMAR	JC698695Y	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	ROHTASH KUMAR	JC698679F	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	CH VENKATESWARA RAO	JC699592M	11 Jul 2014@
NAIB SUBEDAR	RANA ANILKUMAR GAJENDER SINGH	JC698696F	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	DEO NANDAN PRASAD MANJHI	JC698698M	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	AVINAS KUMAR	JC698699P	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	AMAR SINGH RAJ KUMAR	JC698697K	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	B MADHU SUDANA	JC698809Y	02 Jul 2014@
NAIB SUBEDAR	RAJEEV KUMAR	JC699136F	01 Aug 2014@
NAIB SUBEDAR	PRAFULL KUMAR CHANDRA	JC698810N	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	KAMAL SINGH	JC698811W	01 Aug 2014@
NAIB SUBEDAR	JAGDISH CHANDRA TATRARI	JC699050H	14 Mar 2014@
NAIB SUBEDAR	VIDHYA SAGAR	JC699103W	24 Mar 2014@
NAIB SUBEDAR	VINOD KUMAR PV	JC698988K	01 Sep 2014@
NAIB SUBEDAR	SUBRATA SARKAR	JC698934H	01 Sep 2014@
@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 14 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	MIRZA ISTIYAK BEG	JC698873W	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	ANAND BAS	JC698935L	01 Sep 2014@@
NAIB SUBEDAR	NARENDRA KUMAR PRADHAN	JC698874Y	01 Sep 2014@@
NAIB SUBEDAR	SWAMI NATH YADAV	JC699157X	01 Sep 2014@@
NAIB SUBEDAR	DABHOLKAR MOHAN RAMAKANT	JC699073K	01 Apr 2014
@@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 14 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SHYAMVIR SINGH	JC699156P	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	HARRAJ SINGH	JC698875F	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	VED PAL SINGH	JC698989M	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	BURUD SHAMRAO GANPATI	JC699110M	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	UTTRA KUMAR	JC699104Y	07 Nov 2014@@@
@@@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 14 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR GUPTA	JC699178N	01 Dec 2014
NAIB SUBEDAR	YADAV SANTOSH SHITALA PRASAD	JC698876K	01 Dec 2014
NAIB SUBEDAR	DEEPAK KUMAR MALLICK	JC698877M	18 Dec 2014\$
\$Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 14 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	JAI SINGH	JC699137K	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	PRAVEEN KUMAR	JC699075P	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	GOLAK BIHARI SAHU	JC698990F	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	JADHAV VIJAY KUMAR GANAPATRAO	JC699209H	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	NEELACHALA SAHU	JC699276N	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	R RAJENDIRAN	JC699277W	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	RAMESH CHANDRA	JC699305X	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	RAJESH KUMAR YADAV	JC699306A	02 Mar 2015\$\$
\$\$Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SURENDER KUMAR	JC699307H	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	CHATAR SINGH	JC699309N	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	MAN SINGH	JC699479X	20 Apr 2015\$\$\$

NAIB SUBEDAR	SHAIK ABDUL RAHIM	JC699310H	01 Apr 2015
\$\$\$Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	PARSEKAR BALKRISHNA MADHUKAR	JC699311L	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	DALBIR SINGH	JC699317M	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	KAMLESH NARAIN GUPTA	JC699472N	12 Jun 2015+
+Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	T S NATARAJAN	JC699473W	10 Jul 2015++
NAIB SUBEDAR	MANORANJAN DASH	JC699523W	10 Jul 2015++
NAIB SUBEDAR	ASHWANI KUMAR	JC699612P	25 Jul 2015++
++Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	M SRINIVASULU	JC699579H	31 Aug 2015+++
+++Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	PATARE DATTU LAXMAN	JC699580X	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	A SURENDIRAN	JC699687M	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	SUKHVINDER PAL SINGH	JC699781W	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	VIRENDRA SINGH	JC699803K	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	K BOOPATHI	JC699831W	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	R RATHINA SAMY	JC699782Y	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	P MUNEESWARAN	JC699832Y	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	GOURANGA CHANDRA MOHANTY	JC700306P	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	RAM SWAROOP SINGH	JC699907L	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	HARISH CHANDRA	JC700004H	04 Nov 2015^
NAIB SUBEDAR	GAJRAJ SINGH SHEKHAWAT	JC699884P	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	ARVIND GAIKWAD	JC699885X	02 Nov 2015^
NAIB SUBEDAR	JAMEROUL HAQUE	JC699886A	21 Nov 2015^
NAIB SUBEDAR	SIVA PRASAD NA	JC699887H	18 Dec 2015^
NAIB SUBEDAR	AMAR NATH	JC699958Y	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	RAMESH SINGH	JC699908N	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	NEPAL SINGH	JC699909W	01 Nov 2015
^Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	VP DINESH BABU	JC699911N	03 Dec 2015^^
NAIB SUBEDAR	ROHIT PRADHAN	JC699913Y	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	RAM KISHAN	JC699914F	30 Dec 2015^^
NAIB SUBEDAR	SISTU HARI KRUSHNA	JC699915K	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	KAMAN SINGH SAMANT	JC700050X	01 Dec 2015
^^Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	AJITH KUMAR PT	JC700052H	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	JAGAT SINGH MATE	JC700054N	21 Jan 2016^^^
^^^Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	RAMPHAL VICAL	JC700055W	01 Feb 2016
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (CLK SD)			
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA MEETHARWAL	JC697424P	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	PARSU RAM NAIK	JC697441P	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	SABHAPATI YADAVA	JC697443A	01 Apr 2014

NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR	JC697425X	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	BRAJESH KUMAR	JC697463N	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	RAMNANDAN PRASAD	JC697841F	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	GADANKUSH NARENDRA SHAMRAO	JC697997Y	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	RAUT VAJENATH DATTATRAYA	JC697908P	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	SUBHASH CHANDRA	JC698413P	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	RAM KISHORE SINGH	JC698051Y	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	RAJBIR	JC697912X	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	SHUBHLKASH KUMAR TYAGI	JC698239N	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	KADAM HIMAT RAMRAO	JC697951W	14 Jun 2014*
NAIB SUBEDAR	D DANIEL	JC697952Y	07 Jun 2014*
NAIB SUBEDAR	R SEKAR	JC697953F	01 Jun 2014*
NAIB SUBEDAR	KR CHERAN CHENGUTTUVAN	JC697954K	01 Jun 2014*
NAIB SUBEDAR	BHUWAN LAL SAHU	JC697955M	06 Jun 2014*
NAIB SUBEDAR	ANAND SINGH BISHT	JC697999K	24 Jun 2014*
(* Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	DOLENDRA PATRNAIK	JC697996W	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	S NAGESWAR RAO	JC698001N	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	BHAWANI DIN	JC698002W	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	SANJAY SINGH	JC698003Y	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	SATBIR SINGH	JC698004F	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	SHIV OM DWIVEDI	JC698005K	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	ANGAWTON SINGHA	JC698006M	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	SIBANANDA MONDAL	JC698007P	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	PRAMOD KUMAR PATTANAIK	JC698131W	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	BISWANATH HALDER	JC698202M	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	ALAUDDIN MANDAL	JC698134K	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	SIBSANKAR MANDAL	JC698135M	07 Jul 2014**
NAIB SUBEDAR	GOURHARI JANA	JC698136P	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	JAGADISH CHANDRA GAIN	JC698155A	01 Jul 2014
(** Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	BRIJ KISHOR RAI	JC698240H	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	THAMBY NESA KUMAR N	JC698238L	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	GYAN PRAKASH	JC698241L	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	GULAB CHANDR TRIPATHI	JC698242N	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	HITESH	JC698244Y	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	JEEWAN SINGH NEGI	JC698361K	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	RAMESH CHANDRA	JC698245F	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	RAM NAWAL RAM	JC698540K	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	PARKASH CHAND	JC698375K	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	JITENDRA PRASAD	JC698380P	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	BABU T J	JC698345M	01 Sep 2014

NAIB SUBEDAR	KRISHNA PADA DATTA	JC698378X	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	SUDARSAN PANDA	JC698451L	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	DEVENDRA PRATAP SINGH	JC698538M	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	PIJUSH KANTI PAL	JC698492P	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	BAM BAHADUR SINGH	JC698454Y	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	MUNIRATNAM	JC698460M	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	KANHERE ANIL SUBRAO	JC698501L	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	GAJERA DALSUKH DHANJI	JC698496L	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	KAMBALE NANA SAHEB KHANDU	JC698497N	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	JAYA PRAKASH M	JC699146L	01 Nov 2014
NAIB SUBEDAR	DEVENDRA KUMAR	JC698498W	01 Nov 2014
NAIB SUBEDAR	DARSHAN SINGH	JC698499Y	01 Nov 2014
NAIB SUBEDAR	RAMAN SHARMA	JC698500H	01 Nov 2014
NAIB SUBEDAR	PREM CHAND	JC698569M	01 Nov 2014
NAIB SUBEDAR	BALMIKI TIWARI	JC698567F	01 Nov 2014
NAIB SUBEDAR	GOUR KISHORE SINGHA	JC698578N	01 Nov 2014
NAIB SUBEDAR	VED PRAKASH PANDEY	JC698568K	01 Dec 2014
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA SINGH	JC698579W	01 Dec 2014
NAIB SUBEDAR	PRABIR CHATTOPADHYAY	JC698580L	01 Dec 2014
NAIB SUBEDAR	BATESHWAR MISHRA	JC698581N	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	BASANT KUMAR	JC698584F	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	SURESH KUMAR	JC698641X	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	SANJEEV KUMAR	JC698642A	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	PARKASH SINGH	JC698643H	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	PAWAN KUMAR	JC698645N	14 Mar 2015*
NAIB SUBEDAR	BALJIT SINGH	JC698646W	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	DEVENDRA KUMAR	JC698647Y	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	RAM DULAR PRASAD	JC698648F	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	SHINDE PARSHURAM SAWATA	JC698650Y	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	JAI RAM SINGH	JC698651F	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	KARNAIL CHAND	JC698652K	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	ARUN KUMAR	JC698653M	01 Apr 2015*
*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	SURAJ MOHAN SINGH	JC698756L	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	SUSHIL KUMAR DASH	JC698654P	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	BALBIR SINGH YADAV	JC699128H	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	N DEVA RAJAN	JC698758W	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	N RENGARAJ	JC698846M	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	RAMA NAND	JC698782M	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	HAJARE SANTAJI NAMDEO	JC698783P	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	RAMESH CHAUHAN	JC698813F	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	RAJ KUMAR SINGH	JC698825W	01 Apr 2015

NAIB SUBEDAR	AJAY KUMAR	JC698991K	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	HARI SHANKAR	JC698826Y	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	SAMENDRA SINGH CHAUHAN	JC698850P	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	AJAY KUMAR SINGH	JC698838N	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	SIVA KUMARAN P	JC699082L	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	SURENDRA KUMAR	JC699189A	02 Apr 2015**
NAIB SUBEDAR	HARA PRASAD NAYAK	JC699083N	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	LAXMI DHAR PRUSTY	JC699084W	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	ASHOK KUMAR	JC699085Y	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR DAS	JC699211A	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	P MEYYAPPAN	JC699086F	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	TEJ RAM	JC699190P	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	KALINDRA SAHU	JC699191X	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	RAJ KUMAR	JC699192A	09 Apr 2015**
**(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	ANUSURU PRAKASA RAO	JC699193H	06 Jun 2015***
NAIB SUBEDAR	MANI KANT KUMAR	JC699194L	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	RANVER SINGH THAKUR	JC699195N	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	KALYAN SINGH	JC699323A	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	CHAVAN PURUSHOTTAM MOHANRAO	JC699324H	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	BENI MADHAV SHARMA	JC699325L	01 May 2015
*** (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	PRAJAPATI BHARAT K SOMA BHAI	JC699326N	06 Jun 2015#
NAIB SUBEDAR	JAYA PRAKASH S	JC699327W	08 Jun 2015#
NAIB SUBEDAR	ASHOK SINGH CHAUHAN	JC699328Y	01 Jun 2015
NAIB SUBEDAR	SANT RAM	JC699329F	06 Jun 2015#
NAIB SUBEDAR	MEWA LAL VERMA	JC699330W	01 Jun 2015
NAIB SUBEDAR	SHYAM LAL TAMTA	JC699331Y	13 Jun 2015#
# (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	J P JASOLA	JC699332F	01 Jul 2015
NAIB SUBEDAR	SHYAM KISHOR	JC699333K	02 Jul 2015##
## (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	UMAPATHID	JC699334M	01 Aug 2015
NAIB SUBEDAR	RAMAN KUMAR JHA	JC699335P	03 Aug 2015###
NAIB SUBEDAR	JITENDRA BAHADUR SINGH	JC699337A	01 Aug 2015
NAIB SUBEDAR	PURAN SINGH KARKI	JC699338H	01 Aug 2015
NAIB SUBEDAR	VIJAY SINGH	JC699339L	01 Aug 2015
NAIB SUBEDAR	SITA RAM PRAJAPAT	JC699340A	01 Aug 2015
NAIB SUBEDAR	LADAKAT GANPAT RAGHUNATH	JC699440L	01 Aug 2015
NAIB SUBEDAR	DEVINDER SINGH	JC699441N	01 Aug 2015
NAIB SUBEDAR	SHAIKH JALAL SAHEBLAL	JC699442W	01 Aug 2015
NAIB SUBEDAR	SHIV NIRANJAN PRASAD SINGH	JC699444F	01 Aug 2015

NAIB SUBEDAR	NAGENDRA SINGH	JC699445K	01 Aug 2015
###(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	AJAY KUMAR SINGH	JC699446M	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	OMKAR NATH GUPTA	JC699447P	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	RAM PRAVESH SINGH	JC699448X	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR	JC699449A	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	KARAMBIR SINGH	JC699514P	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	SATYA PAL	JC699515X	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	RAJENDER PRASAD	JC699516A	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	SHINDE RAMCHANDRA NARAYAN	JC699517H	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	RAJBIR SINGH YADAV	JC699581A	03 Oct 2015@
NAIB SUBEDAR	KULDEEP SINGH	JC699582H	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	NIRAJ KUMAR	JC699583L	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	SUKHDEV SINGH	JC699601H	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	ADAN PAL	JC699618W	01 Oct 2015
@ (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	RAM DAYAL	JC699584N	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	RAJ KANWAR	JC699619Y	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	PRADEEP PS	JC699585W	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	HARI SINGH	JC699586Y	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	AJAI KUMAR K	JC699588K	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	RAJEEVAN PILLAI K	JC699589M	04 Dec 2015@@
NAIB SUBEDAR	SUNIL AK	JC699590F	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	RAVINDRA MAHARAJ	JC699647L	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	VEER SINGH	JC699648N	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	GIRISH KUMAR B	JC699649W	01 Dec 2015
@@ (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	OMANA KUTTAN N	JC699651N	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	SAJI D	JC699652W	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	BALWAN SINGH	JC699653Y	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	BRAJADU LAL SAMAI	JC699723M	29 Jan 2016@@@
NAIB SUBEDAR	LOKESH KUMAR	JC699724P	01 Jan 2016
@@@ (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	AMAR SINGH	JC699725X	11 Jan 2016\$
\$ (Granted seniority in the rank of Subedar wef 03 Jan 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	SHANKER BAITHA	JC699726A	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	SANDEEP KUMAR GAUR	JC699727H	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	SIVA KUMAR P	JC699728L	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	RUHAL AMIN BISWAS	JC699729N	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	OM PRAKASH SAD	JC699730H	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	HARISH CHANDRA	JC699732N	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	JOSE ABRAHAM	JC699733W	01 Feb 2016

NAIB SUBEDAR	ARUN KUMAR KM	JC699734Y	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	S RAJASEKARAN	JC699735F	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	R JEGANNATH	JC699736K	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	JAGADEESH BABU B	JC699948P	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	GOPAL SHARAN BHARDWAJ	JC699853P	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA PRASAD	JC699949X	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	VINOD KUMAR SHARMA	JC699854X	01 Mar 2016

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (SKT)

NAIB SUBEDAR	CHAUDHARI SUBHASH PANDHARINATH	JC696904M	01 Dec 2013
NAIB SUBEDAR	DEVKINANDAN	JC696905P	01 Dec 2013
NAIB SUBEDAR	BINOD KUMAR THAKUR	JC696907A	01 Dec 2013
NAIB SUBEDAR	TOGI KOTESWAR RAO	JC696992H	01 Dec 2013
NAIB SUBEDAR	K MUTHU RAMALINGAM	JC696997M	01 Dec 2013
NAIB SUBEDAR	SURENDRA SINGH	JC696993W	01 Dec 2013
NAIB SUBEDAR	SHYAM DEW SINGH YADAW	JC696994Y	01 Dec 2013
NAIB SUBEDAR	UDAY DAS	JC697053X	02 Dec 2013*
NAIB SUBEDAR	PARALE MAHADEO MAHIPATI	JC697054A	01 Dec 2013
NAIB SUBEDAR	JUGMOHAN SINGH BISHT	JC697242F	01 Dec 2013
NAIB SUBEDAR	NICHOLAS RAVI P	JC697243K	02 Dec 2013*
NAIB SUBEDAR	PRABU RAO K	JC697514W	01 Dec 2013

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2013 without effect on pay and allces)

NAIB SUBEDAR	MUNJPRA GIRISH KUMAR RAVJI	JC698371N	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	RAMESH MALAVIYA	JC697464W	24 Feb 2014**
NAIB SUBEDAR	BAIDYA NATH THAKUR	JC697513N	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	NAIPAL SINGH	JC697569A	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	AJAYA KUMAR G	JC697663K	02 Jan 2014**
NAIB SUBEDAR	MOHAMMED GHOUSE I	JC697723N	01 Jan 2014
NAIB SUBEDAR	DEVENDRA NARAIN	JC697837Y	01 Jan 2014

***(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allces)

NAIB SUBEDAR	SARDAR SINGH BHATI	JC697778K	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	DEVI LAL	JC697782A	01 Feb 2014
NAIB SUBEDAR	PRADEEP NARAYAN PANDEY	JC697783H	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	SHRI BHAGWAN	JC697909X	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	SAM SUL ISLAM	JC697910M	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	SUBHAS CHANDER YADAV	JC697998F	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	RAM SHANKAR	JC697957X	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	BABU RAM	JC697958A	01 Mar 2014
NAIB SUBEDAR	RISHI KUMAR	JC697911P	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	MADAN LAL	JC698233M	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	OMKAR SINGH	JC697956P	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	RAM NIWAS	JC698008X	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	SANATAN SINGH	JC698009A	01 Apr 2014

NAIB SUBEDAR	SANTOSH KUMAR SRIVAS	JC698010P	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	PARMATMA PRASAD YADAV	JC698052F	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	SARANGADHARAN K	JC698129Y	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	GIRJA SHANKER PANDEY	JC698132Y	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	RAVINDRA KUMAR UPADHYAY	JC698133F	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	ANAND KISHORE SINGH	JC698154X	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	SHYAM SUNDER	JC698159W	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	ALADU NARASINGH MURTY	JC698160L	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	SHYAM DEO RAY	JC698237H	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	ARUNODAYA SAMAL	JC698352H	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	SURENDRA SINGH	JC698248P	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	MD NIYAMAT	JC698382A	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	SAKURU SATYANARAYANA	JC698274W	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	SATYANDRA PRASAD RAI	JC698253A	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	ARVIND KUMAR	JC698346P	01 Apr 2014
NAIB SUBEDAR	VIPIN KUMAR	JC698277K	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	GAJENDRA PRATAP	JC698354N	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	SANJAI KUMAR SINGH	JC698350X	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	RAM KISHOR	JC698353L	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	MD MANIRUL ISLAM	JC698347X	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	SUJARAM CHOUDHARY	JC698359M	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	MANOJIT GHOSH	JC698418N	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	JEEV RAJ BHATI	JC698373Y	01 May 2014
NAIB SUBEDAR	SHIV RAJ SINGH	JC698369W	23 Jun 2014***
NAIB SUBEDAR	SANTOSH KUMAR	JC698381X	03 Jun 2014***
NAIB SUBEDAR	GOPINATH K	JC698417L	21 Jun 2014***
NAIB SUBEDAR	RAMVIR SINGH	JC698463A	23 Jun 2014***
*** (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	DEEPAK KUMAR GHOSH	JC698374F	30 Jul 2014#
# (Granted seniority in the rank of Subedar wef 03 Jun 2014 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	MUTHU K	JC698465L	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	D BABU	JC698495H	06 Aug 2014##
NAIB SUBEDAR	VIRENDRA PAL SINGH	JC698537K	05 Jul 2014##
NAIB SUBEDAR	RANVIR SINGH	JC698562H	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	WAHANE RAJHAUNSA PARASH RAM	JC698585K	08 Jul 2014##
NAIB SUBEDAR	ASHOK KUMAR SHARMA	JC698586M	07 Jul 2014##
NAIB SUBEDAR	KARAN SINGH	JC698587P	07 Jul 2014##
NAIB SUBEDAR	CHANDA RAM CHOWDHARY	JC698655X	06 Aug 2014##
NAIB SUBEDAR	G RAMA SAMY	JC698656A	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	RAMASHARY YADAW	JC698657H	03 Jul 2014##
NAIB SUBEDAR	SATYENDRA KUMAR	JC698658L	01 Jul 2014
NAIB SUBEDAR	RAJPUT VINOD MEGHA SINGH	JC698659N	19 Jul 2014##

NAIB SUBEDAR	AMRUDIN ANSARI	JC698660H	27 Jul 2014##
NAIB SUBEDAR	MADARGAVE UDHAV DHODIBA	JC698661L	30 Jul 2014##
NAIB SUBEDAR	HARI SHANKER	JC698662N	19 Jul 2014##
##(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	RAJESH RAO LIKHITKAR	JC699129L	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR PANDE	JC698663W	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	UPENDRA KUMAR SHARMA	JC698748M	07 Aug 2014###
NAIB SUBEDAR	BALBIR SINGH	JC699216Y	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	HARI RAM	JC698992M	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	RAVI SHANKAR TRIPATHI	JC698849A	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	RAM NIWAS	JC698847P	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	MUTHU KUMAR A	JC698922N	01 Aug 2014
NAIB SUBEDAR	MAYANDI T	JC698848X	01 Aug 2014
### (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	SEETHARAMA SHETTY K	JC696757P	06 Oct 2014@
@ (Granted seniority in the rank of Subedar wef 09 Aug 2014 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	KARAMJIT SINGH	JC699060M	01 Sep 2014
NAIB SUBEDAR	RAMPAL CHOUHAN	JC699047H	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	UMESH KUMAR	JC699053W	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	RAKESH KUMAR RAI	JC698923W	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	TEK CHAND	JC699054Y	01 Oct 2014
NAIB SUBEDAR	CHANDRA PRAKASH RAI	JC698924Y	01 Nov 2014
NAIB SUBEDAR	CHANDER VIR SINGH NAUHWAR	JC699196W	01 Nov 2014
NAIB SUBEDAR	KULAMANI MAHANTA	JC699197Y	01 Dec 2014
NAIB SUBEDAR	KANTHA RUBAN S	JC699198F	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	MADAN KUMAR YADAV	JC699199K	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	VIR SINGH	JC699200N	03 Jan 2015@@
NAIB SUBEDAR	PALLA JAYAPAL REDDY	JC699201W	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	KAILASH CHANDRA PARIDA	JC699203F	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR RAI	JC699341H	01 Jan 2015
@@ (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	PRADEEP KUMAR	JC699342L	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	SUKHPAL SINGH	JC699343N	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	DESHAPREMA NAYAK	JC699345Y	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	RAJ SINGH	JC699346F	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	MAHENDRA KUMAR SINGH	JC699347K	02 Feb 2015@@@
NAIB SUBEDAR	PREM	JC699348M	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	ANUPA KUMAR MOHINI	JC699349P	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	RAJESH KUMAR	JC699350K	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	SYLVESTER DAYANAND	JC699351M	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	SHANKER DAYAL SINGH	JC699352P	01 Feb 2015
NAIB SUBEDAR	VENKATA SUBRAMANIAN T	JC699353X	01 Feb 2015

NAIB SUBEDAR	ARUN KUMAR TRIPATHI	JC699354A	01 Feb 2015
@@@ (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	R PALANI APPAN	JC699355H	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	CORNELIUS LAKRA	JC699356L	02 Mar 2015\$
NAIB SUBEDAR	P SURYA NARAYANA	JC699405H	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA PRASAD KAPRI	JC699450P	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	SAJJAN SINGH	JC699451X	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	KAILASH BAHADUR	JC699452A	01 Mar 2015
NAIB SUBEDAR	KANHAIYA KUMAR PANDEY	JC699453H	02 Mar 2015\$
NAIB SUBEDAR	JADHAV BALASAHEB MOHAN	JC699454L	02 Mar 2015\$
\$(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	SURENDRA SINGH	JC699455N	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	KHEMA RAM	JC699456W	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	NAIK DEEPAK GOPAL	JC699457Y	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	MULIK ANANDA RAO VISHNU	JC699458F	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	MANGARAJ PRADHAN	JC699459K	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	BODAPATI SRINIVASA RAO	JC699460Y	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	DESALE SANJAY VINAYAK	JC699461F	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	MAHAVIR PRASAD RATHOR	JC699493K	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	DINESAN G	JC699462K	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	DANIEL KL	JC699494M	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	BAIJU PHILIP	JC699495P	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR V	JC699496X	01 Apr 2015
NAIB SUBEDAR	SHINDE PRAKASH KADUBA	JC699497A	26 May 2015\$\$
NAIB SUBEDAR	DINESH SINGH	JC699498H	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR SAH	JC699499L	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	HARIOM	JC699500P	01 May 2015
NAIB SUBEDAR	AJAY KUMAR VERMA	JC699501X	01 May 2015
\$\$ (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	ARUN KUMAR YADAV	JC699502A	13 Jun 2015\$\$\$
NAIB SUBEDAR	VINOD KUMAR SHARMA	JC699503H	08 Jun 2015\$\$\$
NAIB SUBEDAR	CHITTARANJAN GOUDA	JC699504L	18 Jun 2015\$\$\$
NAIB SUBEDAR	DHARMENDRA	JC699505N	15 Jun 2015\$\$\$
NAIB SUBEDAR	PRASANTA KUMAR NAYAK	JC699506W	08 Jun 2015\$\$\$
NAIB SUBEDAR	SURINDER SINGH	JC699507Y	01 Jun 2015
\$\$\$ (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	NARPAT SINGH	JC699509K	01 Jul 2015
NAIB SUBEDAR	PRASANTH M KURUP	JC699609P	01 Jul 2015
NAIB SUBEDAR	KHOKAN DAS	JC699611M	30 Jul 2015%
NAIB SUBEDAR	RAJ KUMAR	JC699565H	01 Jul 2015
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR	JC699566L	31 Jul 2015%
% (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2015 without effect on pay and allces)			

NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR	JC699567N	01 Aug 2015
NAIB SUBEDAR	PARMJEET SINGH	JC699568W	10 Aug 2015%%
NAIB SUBEDAR	SUDHANSU SEKHAR PRADHAN	JC699569Y	01 Aug 2015
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR PATHAK	JC699570N	01 Aug 2015
%% (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	DHIRENDRA PRASAD THAKUR	JC699571W	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	DEWA RAM CHOUDHARY	JC699572Y	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	RAM NIWAS YADAV	JC699573F	01 Sep 2015
NAIB SUBEDAR	KARNAIL SINGH	JC699574K	17 Nov 2015%%%
%%% (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	RAVIKANT YADAV	JC699575M	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	SUNDARA VADIVEL N	JC699576P	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	MAHIPAL SINGH NEGI	JC699577X	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	SELVARAJ P	JC699640F	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	PRASANTA DATTA	JC699642M	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	DILIP KUMAR THAPA	JC699643P	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	ARUN KUMAR	JC699645A	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	SUBHAS CHANDRA HALDER	JC699644X	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	KAPRE SANJAY TUKARAM	JC699646H	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	NARASAPPA TASILDAR	JC699654F	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	KAPIL KRISHNA BISWAS	JC699655K	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	KIRANKUMAR PADHY	JC699656M	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	GIRISH CHANDRA BARO	JC699657P	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	JAMALUDDIN	JC699658X	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	SANDIP KUMAR KHATUA	JC699737M	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	MOOL CHAND	JC699738P	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	PAWAN KUMAR CHOUDHARY	JC699740M	02 Feb 2016%%%
NAIB SUBEDAR	PIJUSH KANTI GHOSH	JC699741P	29 Feb 2016%%%
%%%% (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2016 without effect on pay and allces)			

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (DVR MT)

NAIB SUBEDAR	BABBAN YADAV	JC699758H	29 Aug 2015
(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 July 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	SAHUKARI KAVEESWARA RAO	JC700559K	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	KIRATWAD GANGADHAR MANIK RAO	JC700561F	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	YOGESH KUMAR YADAVA	JC700562K	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	KARAD KASHINATH NAMDEV	JC700522H	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	YOGENDER SINGH	JC699874L	01 Dec 2015

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (AMB ASST)

HAVILDAR	KHOT ASHOK APPASAHEB	13980862A	NOW	JC701319Y	31 Dec 2015
(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SATISH KUMAR PEMMU	13981912M	NOW	JC701265H	01 Nov 2015
(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allces)					

HAVILDAR	JOHNSON MC	13982179Y	NOW	JC701094F	01 Sep 2015
HAVILDAR	RADHAY SHYAM SINGH	13981118P	NOW	JC701095K	01 Sep 2015
HAVILDAR	BHABATARAN ROY	13982077H	NOW	JC701096M	01 Sep 2015
HAVILDAR	TRILOCHAN DWIVEDI	13982075X	NOW	JC701097P	01 Sep 2015
HAVILDAR	BISWAJIT KAYAL	13980834N	NOW	JC701106L	10 Oct 2015*
HAVILDAR	RAJBIR SINGH	13981593L	NOW	JC701107N	08 Oct 2015*
HAVILDAR	ANIL KUMAR	13982070Y	NOW	JC701108W	03 Oct 2015*
HAVILDAR	BIRENDRA PRATAP SINGH	13982054F	NOW	JC701109Y	08 Oct 2015*
HAVILDAR	MD SAHIDUR RAHMAN	13982126A	NOW	JC701110N	14 Oct 2015*
HAVILDAR	RAMESH SINGH YADAV	13982065N	NOW	JC701111W	08 Oct 2015*
HAVILDAR	RAM SINGH	13982062A	NOW	JC701112Y	08 Oct 2015*
HAVILDAR	JAI PRAKASH YADAV	13982059A	NOW	JC701113F	05 Oct 2015*
HAVILDAR	ARUN KUMAR SINGH	13982098Y	NOW	JC701114K	03 Oct 2015*
HAVILDAR	PRADEEP KV	13982213N	NOW	JC701115M	01 Oct 2015
HAVILDAR	RANDHIR KUMAR SINGH	13982080H	NOW	JC701116P	08 Oct 2015*
(* Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2015 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	PRAMOD SINGH	13982114L	NOW	JC701176K	10 Nov 2015**
HAVILDAR	DADAN KUMAR SHAH	13982095L	NOW	JC701191Y	01 Nov 2015
HAVILDAR	PRESENJIT SARKAR	13982261N	NOW	JC701173W	10 Nov 2015**
HAVILDAR	ASHOK TARALE	13982272A	NOW	JC701193K	10 Nov 2015**
HAVILDAR	PRAVIN KUMAR JHA	13982129N	NOW	JC701264A	01 Nov 2015
HAVILDAR	TARUN KUMAR GUHA	13982140M	NOW	JC701278A	02 Dec 2015**
HAVILDAR	D VENKATA RAMANA RAO	13982232Y	NOW	JC701212K	17 Nov 2015**
HAVILDAR	JAGTAR SINGH	13982262W	NOW	JC701192F	12 Nov 2015**
HAVILDAR	RAM NIWAS	13982394K	NOW	JC701185L	13 Nov 2015**
HAVILDAR	RATAN LAL MEENA	13982393F	NOW	JC701200P	13 Nov 2015**
HAVILDAR	MADAN SINGH DHAMI	13982385H	NOW	JC701177M	05 Nov 2015**
(** Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	HARI DAS M G	13982389Y	NOW	JC701202A	01 Dec 2015
HAVILDAR	UPENDRA KUMAR	13982379P	NOW	JC701203H	01 Dec 2015
HAVILDAR	NARENDRA KUMAR SINGH	13982384A	NOW	JC701204L	01 Dec 2015
HAVILDAR	ASHOK KUMAR	13982388W	NOW	JC701346H	01 Jan 2016
HAVILDAR	JITALESH SINGH	13982383X	NOW	JC701348N	01 Jan 2016
HAVILDAR	DEVENDRA KUMAR	13982381M	NOW	JC701349W	01 Jan 2016
HAVILDAR	BISHWAMBHAR SAHU	13982439Y	NOW	JC701345A	01 Jan 2016
HAVILDAR	VIVEKANANDAN K	13982462M	NOW	JC701350L	01 Feb 2016
HAVILDAR	D JOSEPH	13982461K	NOW	JC701351N	01 Feb 2016
HAVILDAR	GOPAL GOGOI	13982479A	NOW	JC701387M	03 Feb 2016***
(***) Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2016 without effect on pay and allces)					

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (DVR MT)

HAVILDAR	SOORAJ KUMAR WANI	13985030H	NOW	JC701028Y	13 Sep 2015
(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allces)					

HAVILDAR	HARENDRA KUMAR	13985029N	NOW	JC701243K	30 Nov 2015*
HAVILDAR	PALLAB GHOSH	13985064W	NOW	JC701175F	01 Dec 2015*
(* Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 11 Sep 2015 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	MIR NASIM ALI	13985081W	NOW	JC701201X	01 Oct 2015
HAVILDAR	SHAMBHU NATH YADAV	13985128W	NOW	JC701255Y	01 Dec 2015
HAVILDAR	VIJENDER PRASAD	13985133F	NOW	JC701315H	26 Dec 2015**
(** Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)					

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (SKT)

HAVILDAR	SELVARAJ P	13980578K	NOW	JC699640F	15-Oct-13*
HAVILDAR	PRASANTA DATTA	13980530W	NOW	JC699642M	08-Oct-13*
HAVILDAR	DILIP KUMAR THAPA	13980817N	NOW	JC699643P	08-Oct-13*
HAVILDAR	ARUN KUMAR	13980678P	NOW	JC699645A	16-Nov-13*
HAVILDAR	SUBHAS CHANDRA HALDER	13980612Y	NOW	JC699644X	16-Nov-13*
HAVILDAR	KAPRE SANJAY TUKARAM	13981198X	NOW	JC699646H	05-Oct-13*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 13 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	NARASAPPA TASILDAR	13981281P	NOW	JC699654F	01-Nov-13
HAVILDAR	KAPIL KRISHNA BISWAS	13980611W	NOW	JC699655K	22-Nov-13**
HAVILDAR	KIRANKUMAR PADHY	13981290W	NOW	JC699656M	01-Nov-13
HAVILDAR	GIRISH CHANDRA BARO	13976105N	NOW	JC699657P	01-Nov-13
HAVILDAR	JAMALUDDIN	13977520F	NOW	JC699658X	01-Nov-13
HAVILDAR	SANDIP KUMAR KHATUA	13977617M	NOW	JC699737M	03-Jan-14**
**(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 13 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	MOOL CHAND	13978267X	NOW	JC699738P	28-Dec-13***
HAVILDAR	ASALKAR UMESH MARUTI	13978588P	NOW	JC699739X	01-Dec-13
HAVILDAR	PAWAN KUMAR CHOUDHARY	13978606M	NOW	JC699740M	01-Dec-13
HAVILDAR	PIJUSH KANTI GHOSH	13978651Y	NOW	JC699741P	01-Dec-13
HAVILDAR	SUMIT BHOWMIK	13979358N	NOW	JC699742X	06-Dec-13***
HAVILDAR	DEVKATE YUVARAJ TRIMBAK RAO	13979488W	NOW	JC699743A	05-Dec-13***
HAVILDAR	BRAJENDRA SINGH	13979602H	NOW	JC699744H	01-Dec-13
HAVILDAR	VAIDYA SANJAY KUMAR	13979653W	NOW	JC699745L	01-Dec-13
HAVILDAR	YADAV YATENDRA SINGH RAMESHAWAR D	13979657M	NOW	JC699746N	01-Dec-13
HAVILDAR	KISHOR KUMAR SAHU	13981134M	NOW	JC699747W	01-Dec-13
HAVILDAR	RAJENDRA PRASAD JADLY	13981212Y	NOW	JC699748Y	04-Dec-13***
HAVILDAR	SOUMITRA KUMAR DAS	13980616P	NOW	JC699749F	01-Dec-13
HAVILDAR	ANIL NP	13981300P	NOW	JC699750W	01-Dec-13
HAVILDAR	DEVENDRA NATH DIXIT	13981346X	NOW	JC699836P	01-Dec-13
HAVILDAR	JAY SINGH	13981345P	NOW	JC699837X	01-Dec-13
*** (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 13 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	PRAVEEN KUMAR SHARMA	13981364A	NOW	JC699838A	01-Jan-14
HAVILDAR	AJAY PANWAR	13981361M	NOW	JC699840X	01-Jan-14
HAVILDAR	VIJAY SINGH	13981409P	NOW	JC699841A	01-Jan-14

HAVILDAR	GIRISH BABU C	13981498Y	NOW	JC699842H	20-Jan-14@
HAVILDAR	SUSHEEL KUMAR	13981292F	NOW	JC699843L	01-Jan-14
HAVILDAR	SHIV PUJAN YADAVA	13977612N	NOW	JC699844N	01-Jan-14
HAVILDAR	RAM BALAK DAS	13978632N	NOW	JC699845W	01-Jan-14
@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	MANOJ KUMAR SHARMA	13978800F	NOW	JC699950M	01-Feb-14
HAVILDAR	AJAY KUMAR SINGH	13979072Y	NOW	JC699951P	01-Feb-14
HAVILDAR	RAMESH CHANDRA MISHRA	13979793H	NOW	JC700154Y	01-Mar-14
HAVILDAR	BISWAJIT PARIJA	13980531Y	NOW	JC700033X	01-Mar-14
HAVILDAR	RAVINDER RANA	13979868P	NOW	JC700034A	04-Mar-14@@
HAVILDAR	SATISH SINGH	13980434F	NOW	JC700035H	01-Mar-14
HAVILDAR	SUKHVEER SINGH	13981171A	NOW	JC700036L	01-Mar-14
HAVILDAR	BHAGWATI PRASAD	13981214K	NOW	JC700037N	01-Mar-14
@@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	CHANDAN SINGH	13981222H	NOW	JC700010W	01-Apr-14
HAVILDAR	DALJIT SINGH	13981266A	NOW	JC700011Y	01-Apr-14
HAVILDAR	RABINDRA SAHU	13981289F	NOW	JC700012F	01-Apr-14
HAVILDAR	SANJIT MAITY	13980815H	NOW	JC700047X	01-Apr-14
HAVILDAR	BHUWAN CHANDRA PANT	13981354W	NOW	JC700048A	01-Apr-14
HAVILDAR	PRADEEPAN PAMBALLY	13981609L	NOW	JC700151L	01-Apr-14
HAVILDAR	DIPAK DAS	13980614K	NOW	JC700013K	01-Apr-14
HAVILDAR	HARENDRA SINGH RAWAT	13981353N	NOW	JC700014M	01-Apr-14
HAVILDAR	SINGH JAYRAJ HEERA	13981327M	NOW	JC700015P	01-Apr-14
HAVILDAR	VASANTHAN K S	13981588A	NOW	JC700217W	01-Apr-14
HAVILDAR	SUNIL KUMAR J	13981667P	NOW	JC700016X	01-Apr-14
HAVILDAR	JEEVAN KUMAR	13981722A	NOW	JC700134L	01-Apr-14
HAVILDAR	BALBIR SINGH	13981452W	NOW	JC700135N	01-Apr-14
HAVILDAR	ALEXANDER GEORGE	13980851N	NOW	JC700049H	01-Apr-14
HAVILDAR	NIRANJAN KUMAR	13981796P	NOW	JC700136W	01-Apr-14
HAVILDAR	PAWAN KUMAR	13981797X	NOW	JC700017A	01-Apr-14
HAVILDAR	SURENDRA NATH	13981920L	NOW	JC700018H	01-Apr-14
HAVILDAR	AVADHESH	13981936W	NOW	JC700019L	28-Apr-14 @@@
HAVILDAR	BHUPENDRA SINGH KHARAYAT	13981685X	NOW	JC700020A	01-Apr-14
HAVILDAR	KANTI PRASAD	13981937Y	NOW	JC700021H	03-Apr-14 @@@
HAVILDAR	DALVEER SINGH RAWAT	13981938F	NOW	JC700155F	01-Apr-14
@@@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	TAPAS MANDAL	13980613F	NOW	JC700304K	12-May-14 #
# (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 21 Apr 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	ANIL KUMAR	13981942K	NOW	JC700255M	01-May-14
HAVILDAR	ARVIND KUMAR SINGH	13981943M	NOW	JC700256P	01-May-14
HAVILDAR	DINESH KUMAR SHARMA	13981996L	NOW	JC700257X	06-May-14 ##
HAVILDAR	RANJAN KUMAR DEY	13980855K	NOW	JC700258A	01-May-14

HAVILDAR	R SRINIVASAN	13981249A	NOW	JC700320F	01-Jul-14 ##
HAVILDAR	SURESH KUMAR	13981994A	NOW	JC700300N	01-May-14
HAVILDAR	PARIMAL GHOSH	13982023F	NOW	JC700259H	01-May-14
HAVILDAR	APU BISWAS	13982338L	NOW	JC700301W	01-May-14
HAVILDAR	RAKESH KUMAR SHARMA	13982217K	NOW	JC700260X	01-May-14
HAVILDAR	AREKAR PRAMOD SUDHAKAR	13982218M	NOW	JC700299K	01-May-14
##(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	VIKRAM SINGH	13981684P	NOW	JC700263L	03-Jun-14###
HAVILDAR	NAND KUMAR PANDEY	13982191A	NOW	JC700293H	01-Jun-14
HAVILDAR	DALVEER SINGH	13982297M	NOW	JC700264N	01-Jun-14
HAVILDAR	CHITRA SEN SINGH	13982307L	NOW	JC700265W	01-Jun-14
HAVILDAR	RAMAVADH MOURYA	13982308N	NOW	JC700266Y	02-Jun-14###
###(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	UTTAM SINGH	13982295F	NOW	JC700321K	01-Jul-14
HAVILDAR	DUBULE DINKAR ANAND RAO	13982355L	NOW	JC700322M	01-Jul-14
HAVILDAR	RAKESH PANDEY	13982333M	NOW	JC700323P	01-Jul-14
HAVILDAR	AJAY SINGH	13982322A	NOW	JC700324X	01-Jul-14
HAVILDAR	CHANDRA PAL PRAJAPATI	13982324L	NOW	JC700325A	01-Jul-14
HAVILDAR	KP VIJAYAN	13981294M	NOW	JC700326H	01-Jul-14
HAVILDAR	GAJINDER SINGH	13981360K	NOW	JC700327L	02-Jul-14\$
HAVILDAR	ARVIND KUMAR SHARMA	13982294Y	NOW	JC700328N	18-Jul-14\$
HAVILDAR	ISHWAR SINGH	13982436L	NOW	JC700329W	01-Jul-14
HAVILDAR	BINOD BIHARI NAIK	13982491F	NOW	JC700330L	02-Jul-14\$
HAVILDAR	SAROJ KUMAR	13982516H	NOW	JC700331N	01-Jul-14
HAVILDAR	RAJESH KHIRWAR	13982588M	NOW	JC700332W	01-Jul-14
HAVILDAR	UMESH KUMAR	13982661A	NOW	JC700441H	30-Jul-14\$
HAVILDAR	ANAND KISHOR MISHRA	13982727L	NOW	JC700442L	14-Jul-14\$
HAVILDAR	SANJAY KUMAR MISHRA	13982723P	NOW	JC700443N	14-Jul-14\$
HAVILDAR	PRAMOD KUMAR	13981626L	NOW	JC700444W	14-Jul-14\$
\$(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	TEJ PRAKASH TRIPATHI	13981151M	NOW	JC700445Y	01-Aug-14
HAVILDAR	CHAMPESWAR LAHAN	13981867L	NOW	JC700446F	01-Aug-14
HAVILDAR	BABU LAL	13982722M	NOW	JC700447K	02-Aug-14\$\$
HAVILDAR	SUNIL NARAYANAN	13981291Y	NOW	JC700448M	01-Aug-14
HAVILDAR	SURESH CHANDRA	13982334P	NOW	JC700449P	01-Aug-14
HAVILDAR	DHEERENDRA SINGH	13981944P	NOW	JC700450K	01-Aug-14
HAVILDAR	INDRASHAN YADAWA	13980816L	NOW	JC700451M	01-Aug-14
HAVILDAR	SALGUNANASAN S	13981477H	NOW	JC700452P	01-Aug-14
HAVILDAR	GITE BABASAHEB RADHAKISAN	13982195W	NOW	JC700453X	14-Aug-14\$\$
HAVILDAR	SUKHBIR SINGH	13982730L	NOW	JC700454A	01-Aug-14
\$\$ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	PARMA NAND SINGH	13982731N	NOW	JC700491N	01-Sep-14

HAVILDAR	RAJESH KUMAR UPADHYAY	13982743H	NOW	JC700492W	01-Sep-14
HAVILDAR	LABDE CHINTAMAN VAMAN	13981225W	NOW	JC700550P	27-Oct-14\$\$\$
HAVILDAR	ABHI RAM NAYAK	13980458L	NOW	JC700551X	01-Oct-14
HAVILDAR	SURENDAR SINGH	13982739A	NOW	JC700552A	05-Oct-14\$\$\$
HAVILDAR	MAHENDER SINGH	13982745N	NOW	JC700513F	07-Oct-14\$\$\$
HAVILDAR	KRISHAN KUMAR	13982744L	NOW	JC700514K	04-Oct-14\$\$\$
\$\$\$ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	VINOD KUMAR	13982737P	NOW	JC700614P	01-Dec-14%
HAVILDAR	LEKH RAJ RAGHAV	13982740P	NOW	JC700615X	01-Nov-14
% (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	SURYA PRAKASH	13982748F	NOW	JC700616A	01-Dec-14
TO BE NAIB SUBEDAR (LABORATORY ASSISTANT)					
HAVILDAR	MAHTAB SINGH	13985207L	NOW	JC701199L	19 Nov 2015
Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 14 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PALWE SANJAY NIVRUTTI	13986811H	NOW	JC701011L	22 Aug 2015
Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 14 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	SHAMBHU NATH SINGH	13986035N	NOW	JC700660K	01 Jan 2015
HAVILDAR	JITENDRA KUMAR CHAUDHARY	13986834K	NOW	JC700661M	01 Jan 2015
HAVILDAR	CHOBE RAM KRISHNA DEVIDAS	13986812L	NOW	JC700662P	01 Jan 2015
HAVILDAR	SARABJIT SINGH MOND	13986843L	NOW	JC700663X	01 Jan 2015
HAVILDAR	MOHABUB ALAM MALLICK	13986983X	NOW	JC700762A	01 Mar 2015
HAVILDAR	KADAM ANAND KONOBA	13987022H	NOW	JC700763H	02 Mar 2015*
HAVILDAR	KRISHNA NAND KAPRI	13987129X	NOW	JC700764L	01 Mar 2015
HAVILDAR	JADHAO PRALHAD SOPAN	13987267Y	NOW	JC700778L	01 Mar 2015
*Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	RAJESH KUMAR	13987184N	NOW	JC700779N	01 Apr 2015
HAVILDAR	JERIL MATHEW	13987113M	NOW	JC700780H	01 Sep 2015**
**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PUSHP RAJ SINGH	13986147N	NOW	JC700794H	01 May 2015
HAVILDAR	RAVI KUMAR V	13987324P	NOW	JC700795L	01 May 2015
HAVILDAR	SURESH P	13987360A	NOW	JC700881W	01 May 2015
HAVILDAR	SATHISH N	13987399M	NOW	JC700882Y	01 May 2015
HAVILDAR	SHYAM LAL	13987502M	NOW	JC700883F	01 May 2015
HAVILDAR	BHARAT SINGH RAWAT	13987499X	NOW	JC700905P	07 May 2015***
HAVILDAR	SANTOSH SINGH RAWAT	13987500F	NOW	JC700884K	01 May 2015
HAVILDAR	INDRA PAL SINGH	13987471X	NOW	JC700891A	01 May 2015
***Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	K MUTHIAH	13987758P	NOW	JC700885M	01 Jun 2015
HAVILDAR	PRADEEP KUMAR	13987786F	NOW	JC700952M	01 Jul 2015
HAVILDAR	ANIL KUMAR	13987851W	NOW	JC701007H	20 Jul 2015****
HAVILDAR	SANTOSH KUMAR MISHRA	13987903F	NOW	JC701157Y	02 Nov 2015****
HAVILDAR	SHAIL PRAKASH SINGH	13988005P	NOW	JC701008L	15 Jul 2015****

HAVILDAR	RITU RAJ SINGH PARIHAR	13988170A	NOW	JC701057N	25 Jul 2015****
****Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PARITOSH BISWAS	13988284L	NOW	JC701080F	01 Sep 2015
HAVILDAR	SUNIL KUMAR RAY	13988270L	NOW	JC701181P	16 Oct 2015#
HAVILDAR	KISHOR KUMAR RAY	13988407M	NOW	JC701139W	08 Oct 2015#
HAVILDAR	DEEPAK SINGH	13988576N	NOW	JC701137L	10 Oct 2015#
HAVILDAR	VINOD KUMAR TIWARI	13988568P	NOW	JC701138N	10 Oct 2015#
HAVILDAR	RAMAN KUMAR DWIVEDI	13988569X	NOW	JC701172N	04 Nov 2015#
#Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	BHAGWAN SINGH	13988565F	NOW	JC701158F	02 Nov 2015##
HAVILDAR	RADHA CHARAN SHARMA	13988694F	NOW	JC701159K	02 Nov 2015##
HAVILDAR	KENJALE RAJA RAM SUDAM	13988806W	NOW	JC701182X	05 Nov 2015##
HAVILDAR	KEDAR SINGH	13988841Y	NOW	JC701160Y	20 Nov 2015##
HAVILDAR	M RAMAN	13988944X	NOW	JC701162K	02 Nov 2015##
HAVILDAR	TRILOK SINGH	13988924K	NOW	JC701163M	01 Nov 2015
##Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PRADEEP SINGH	13988961X	NOW	JC701215X	01 Dec 2015
HAVILDAR	INDRAJEET SINGH	13989168P	NOW	JC701216A	01 Dec 2015
HAVILDAR	SURESH KUMAR DUBEY	13989176N	NOW	JC701274K	01 Dec 2015
HAVILDAR	LEKH RAM CHANDEL	13989204P	NOW	JC701217H	01 Dec 2015
HAVILDAR	SURAJ KUMAR	13989326Y	NOW	JC701218L	01 Dec 2015
HAVILDAR	TARA CHAND SHARMA	13989359K	NOW	JC701219N	01 Dec 2015
HAVILDAR	SANJEEV KUMAR DOGRA	13989364P	NOW	JC701220H	01 Dec 2015
HAVILDAR	RAMESH KUSHWAHA	13989508M	NOW	JC701221L	01 Dec 2015
HAVILDAR	TIRLOK SINGH	13989496H	NOW	JC701222N	01 Jan 2016
HAVILDAR	MOOL SINGH	13989687X	NOW	JC701223W	01 Jan 2016
HAVILDAR	RAJESH KUMAR SINGH	13990072Y	NOW	JC701414L	01 Feb 2016
HAVILDAR	ATUGADE SURESH DADU	13990265Y	NOW	JC701415N	03 Feb 2016###
###Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 16 without effect on pay & allces					

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (N ASST)

HAVILDAR	SUBHENDU JANA	13982899A	NOW	JC700696H	02 Sep 2015*
(* Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 10 Feb 2015 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SANJAY KUMAR	13984152A	NOW	JC701098X	03 Sep 2015**
(** Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2015 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SHANKAR S	15413601K	NOW	JC701117X	22 Jan 2016***
HAVILDAR	SHAJI VV	13984163M	NOW	JC701118A	05 Oct 2015***
(***) Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2015 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SANJAY KUMAR	13984158F	NOW	JC701119H	01 Nov 2015
HAVILDAR	GHATAGE DINKAR SHANKAR	13984200P	NOW	JC701120X	19 Dec 2015#
(# Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	LALITA NARAYAN ROUT	13984236N	NOW	JC701174Y	01 Dec 2015
HAVILDAR	NARAYAN PRADHAN	13984237W	NOW	JC701210Y	01 Dec 2015

HAVILDAR	KADAM BHAU SADASHIV	13984201X	NOW	JC701333L	01 Jan 2016
HAVILDAR	AJITH KUMAR G	13982158H	NOW	JC701334N	01 Jan 2016
HAVILDAR	P CHINNASAMY	13984021P	NOW	JC701244M	01 Jan 2016
HAVILDAR	S NAGASESHAIAH	13984063F	NOW	JC701302L	01 Jan 2016
HAVILDAR	RAVI SINGH	13984177M	NOW	JC701245P	01 Jan 2016
HAVILDAR	PATIL KALLAPA RAMU	13984197A	NOW	JC701335W	01 Jan 2016
HAVILDAR	KRISHAN KUMAR	13984175F	NOW	JC701336Y	09 Jan 2016###
(## Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	DEVENDRA KUMAR SINGH	13984212K	NOW	JC701337F	01 Feb 2016
HAVILDAR	TARA CHAND	13984181P	NOW	JC701341K	01 Feb 2016
HAVILDAR	PANKAJ KUMAR	13984219N	NOW	JC701338K	01 Feb 2016
HAVILDAR	SABALE SANJAY BHAU SAHEB	13984253N	NOW	JC701339M	01 Feb 2016
HAVILDAR	MANOJ KUMAR YADAV	13984224Y	NOW	JC701342M	03 Feb 2016###
HAVILDAR	SUBODH KUMAR	13984215X	NOW	JC701344X	01 Feb 2016
(### Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2016 without effect on pay and allces)					

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (CLK SD)

HAVILDAR	BARRI LAKSHMANA DAS	13975695L	NOW	JC699947M	01-Jan-14*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 03 Dec 13 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	ARAGE LAXMAN APPASO	13979524W	NOW	JC699997X	13-Mar-14**
**(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	YADAV MANIK DNYANOBA	13979509F	NOW	JC700058K	01-Apr-14
HAVILDAR	TALEKAR DNYANESHWAR YASHAWANT	13979513K	NOW	JC700059M	01-Apr-14
HAVILDAR	BARKADE VITTHAL NANA	13979515P	NOW	JC700060F	01-Apr-14
HAVILDAR	RAMESH PAL	13979606Y	NOW	JC700062M	17-Apr-14***
HAVILDAR	DHENDE ARJUN NIVRUTTI	13979534A	NOW	JC700061K	01-Apr-14
HAVILDAR	PRAMOD KUMAR SHARMA	13979747N	NOW	JC700063P	01-Apr-14
HAVILDAR	VINAY KUMAR	13979757X	NOW	JC700064X	01-Apr-14
HAVILDAR	D RAVI KUMAR	13979151N	NOW	JC700065A	01-Apr-14
HAVILDAR	SUNDER LAL	13979762H	NOW	JC700066H	01-Apr-14
*** (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	RAJBIR SINGH	13979761A	NOW	JC700252Y	01-May-14
HAVILDAR	AKHILESH CHANDRA DUBEY	13979791X	NOW	JC700253F	01-May-14
HAVILDAR	DEWARI LAL	13979773P	NOW	JC700254K	10-May-14@
@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	SATBIR SINGH	13979786M	NOW	JC700533P	31-Oct-14@@
HAVILDAR	RAM NATH SINGH YADAV	13979792A	NOW	JC700267F	01-Jun-14
HAVILDAR	DILBAG SINGH	13979801W	NOW	JC700268K	01-Jun-14
HAVILDAR	KADAM RAJENDRA ANNA	13979941H	NOW	JC700269M	01-Jun-14
HAVILDAR	KUMBHAR KRISHNAT GANAPATI	13979936X	NOW	JC700270F	01-Jun-14
HAVILDAR	ARUN KUMAR	13980024L	NOW	JC700271K	13-Jun-14@@

HAVILDAR	SHRI KRISHNA VERMA	13980234L	NOW	JC700272M	01-Jun-14
HAVILDAR	HARI OM	13978222X	NOW	JC700274X	01-Jun-14
@@(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	HARTAJ SINGH	13980257M	NOW	JC700333Y	01-Jul-14
HAVILDAR	SUBE SINGH YADAV	13980441X	NOW	JC700334F	01-Jul-14
HAVILDAR	NATHUNI YADAV	13980440P	NOW	JC700335K	01-Jul-14
HAVILDAR	RAJENDRA KUMAR	13980454P	NOW	JC700336M	01-Jul-14
HAVILDAR	PRADEEP KUMAR KHUNTIA	13980461L	NOW	JC700337P	01-Jul-14
HAVILDAR	ANIRUDDH YADAW	13980473A	NOW	JC700338X	01-Jul-14
HAVILDAR	HARI SHANKAR	13980515F	NOW	JC700339A	01-Jul-14
HAVILDAR	MANOJ KUMAR MAHARANA	13979378F	NOW	JC700340P	01-Jul-14
HAVILDAR	SATYABRATA SAMANTA	13980526N	NOW	JC700341X	01-Jul-14
HAVILDAR	SWAPAN KUMAR DAS	13980529F	NOW	JC700342A	01-Jul-14
HAVILDAR	SUSIL KUMAR MANNA	13980527W	NOW	JC700343H	15-Jul-14@@@
HAVILDAR	PARAMJIT SINGH	13980551M	NOW	JC700344L	01-Jul-14
HAVILDAR	NABODH KUMAR JHA	13980585A	NOW	JC700345N	02-Jul-14@@@
HAVILDAR	BISWAJIT MUKHERJEE	13980773F	NOW	JC700346W	01-Jul-14
HAVILDAR	SURJYA NARAYAN CHOUDHURY	13980791K	NOW	JC700347Y	01-Jul-14
HAVILDAR	TRIBHUWAN CHANDRA PATHAK	13980777X	NOW	JC700348F	01-Jul-14
HAVILDAR	ANOOP SINGH	13980738Y	NOW	JC700395Y	04-Jul-14@@@
HAVILDAR	JAGANNATH DASH	13980789M	NOW	JC700396F	04-Jul-14@@@
HAVILDAR	SATISH PIM PAR KAR	13980492L	NOW	JC700397K	04-Jul-14@@@
@@@(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	PRAFULLA KUMAR SWAIN	13980797L	NOW	JC700398M	02-Aug-14#
HAVILDAR	BINDA PRASAD PAL	13979771K	NOW	JC700399P	01-Aug-14
HAVILDAR	KARTIK CHANDRA SAU	13980523A	NOW	JC700400Y	12-Aug-14#
HAVILDAR	RANJAN KUMAR BHUYAN	13980794X	NOW	JC700401F	01-Aug-14
HAVILDAR	DEBENDRA KUMAR DAS	13980792M	NOW	JC700402K	11-Aug-14#
HAVILDAR	DIBAKAR NAYAK	13980787F	NOW	JC700403M	01-Aug-14
HAVILDAR	ARUN KUMAR THAKUR	13980783L	NOW	JC700404P	01-Aug-14
HAVILDAR	SIBAKUMAR DEBAMISRA	13980796H	NOW	JC700405X	01-Aug-14
HAVILDAR	MANGAONKAR PRAKASH BABURAO	13979532P	NOW	JC700406A	01-Aug-14
HAVILDAR	TARA CHAND	13980597P	NOW	JC700407H	01-Aug-14
HAVILDAR	BASANTA KUMAR TRIPATHY	13980790F	NOW	JC700408L	01-Aug-14
HAVILDAR	PRAMOD KUMAR MOHANTY	13980460H	NOW	JC700409N	01-Aug-14
HAVILDAR	SHAIKH BASHIR NAJIR	13979940A	NOW	JC700410H	01-Aug-14
HAVILDAR	KANHU CHARANA SAHU	13980788K	NOW	JC700411L	01-Aug-14
HAVILDAR	SUSHIL CHANDRA	13980747A	NOW	JC700412N	01-Aug-14
HAVILDAR	RAJU SUNASAGADA	13980857P	NOW	JC700413W	01-Aug-14
HAVILDAR	BAIJU INDUHOODAN	13981103M	NOW	JC700414Y	01-Aug-14

HAVILDAR	DIPAK KAR	13981131Y	NOW	JC700415F	01-Aug-14
#(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 14 without effect on pay and Allces)					
HAVILDAR	PARMESWAR MOHANTA	13981135P	NOW	JC700475W	01-Sep-14
HAVILDAR	RAM CHANDRA KUMHAR	13981090A	NOW	JC700476Y	01-Sep-14
HAVILDAR	PABITRA KUMAR HAZRA	13981108L	NOW	JC700477F	01-Sep-14
HAVILDAR	S SAJI	13981114Y	NOW	JC700478K	01-Sep-14
HAVILDAR	SHAIKH GULAM NABI GULAM MOHAMMAD	13981188N	NOW	JC700479M	01-Sep-14
HAVILDAR	JOGINDER SINGH	13981192W	NOW	JC700480F	01-Sep-14
HAVILDAR	P WILSON	13981232M	NOW	JC700481K	01-Sep-14
HAVILDAR	DEVI LAL	13981169H	NOW	JC700482M	01-Sep-14
HAVILDAR	DALWINDER SINGH	13981159Y	NOW	JC700483P	01-Sep-14
HAVILDAR	DALAVI TIKARAM BUDHAJI	13981187L	NOW	JC700484X	01-Sep-14
HAVILDAR	PRANAB KUMAR PRAMANIK	13981109N	NOW	JC700485A	01-Sep-14
HAVILDAR	JADHAV JALANDAR NAMDEV	13981190L	NOW	JC700486H	01-Sep-14
HAVILDAR	VIRENDRA PAL SINGH	13981211W	NOW	JC700487L	01-Sep-14
HAVILDAR	BHAGWAN DAS	13981210N	NOW	JC700488N	01-Sep-14
HAVILDAR	NARENDRA SINGH	13981219H	NOW	JC700489W	01-Sep-14
HAVILDAR	CHANDAN SINGH RAUTELA	13981220X	NOW	JC700490L	01-Sep-14
HAVILDAR	SURENDRA SINGH	13981348H	NOW	JC700534X	04-Oct-14##
HAVILDAR	JAGRAM SINGH	13981343K	NOW	JC700535A	24-Nov-14##
HAVILDAR	ANAND GIRI	13981355Y	NOW	JC700536H	07-Oct-14##
HAVILDAR	RAJNISH KUMAR SHARMA	13981351H	NOW	JC700537L	10-Nov-14##
HAVILDAR	BHUWAN CHANDRA JOSHI	13980776P	NOW	JC700515M	08-Oct-14##
HAVILDAR	R SAJAN	13981305N	NOW	JC700538N	01-Oct-14
HAVILDAR	BISWAJIT SAHA	13980521P	NOW	JC700509Y	04-Oct-14##
HAVILDAR	SHEGOKAR PANDURANG RAMDAS	13981585M	NOW	JC700539W	10-Oct-14##
HAVILDAR	PAITHANE PRAKASH BHIMRAO	13981595W	NOW	JC700540L	14-Oct-14##
HAVILDAR	JADHAV DHANRAJ ANKUSH	13981599M	NOW	JC700541N	05-Nov-14##
HAVILDAR	KAMLESH KUMAR	13981672A	NOW	JC700510N	05-Oct-14##
HAVILDAR	RAM NARESH	13981663Y	NOW	JC700542W	04-Oct-14##
HAVILDAR	MUKTAR ALI	13981666M	NOW	JC700543Y	08-Oct-14##
HAVILDAR	PREM PAL	13981675N	NOW	JC700544F	07-Oct-14##
HAVILDAR	SHIVE KISHOR SINGH	13981669A	NOW	JC700545K	05-Oct-14##
HAVILDAR	MUJAWAR RASHID MUBARAK	13981602F	NOW	JC700511W	07-Oct-14##
HAVILDAR	NAND KISHOR JHA	13981786L	NOW	JC700546M	31-Oct-14##
HAVILDAR	GANESHWAR NATH CHATURVEDI	13981803A	NOW	JC700512Y	04-Oct-14##
HAVILDAR	GANGA RAM	13981927P	NOW	JC700547P	08-Oct-14##
HAVILDAR	RAJESH KUMAR	13981924F	NOW	JC700548X	01-Oct-14
HAVILDAR	KHALIQ AHMAD KHAN	13981926M	NOW	JC700549A	06-Oct-14##
##(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 14 without effect on pay and Allces)					

HAVILDAR	BIKRAM SINGH	13981948L	NOW	JC700605N	05-Nov-14###
HAVILDAR	RAMBIR SINGH	13981935N	NOW	JC700606W	01-Nov-14
HAVILDAR	ROSHAN LAL	13981933H	NOW	JC700607Y	01-Nov-14
HAVILDAR	K JAYA KUMAR	13982127H	NOW	JC700608F	07-Nov-14###
HAVILDAR	SUDHIR KUMAR SINGH	13982094H	NOW	JC700609K	01-Nov-14
HAVILDAR	PRAMOD KUMAR GUPTA	13982148Y	NOW	JC700610Y	01-Nov-14
HAVILDAR	LOKES KUMAR	13982278F	NOW	JC700611F	01-Nov-14

###(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 14 without effect on pay and Allces)

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (AMB ASST)

HAVILDAR	BIKRAMJIT SINGH	13982395M	NOW	JC701347L	07 Apr 2016
(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	RAJU G	13982541F	NOW	JC701388P	01 Mar 2016
HAVILDAR	K AJAYA KUMAR	13982540Y	NOW	JC701389X	01 Mar 2016
HAVILDAR	CHANDRA SHEKHAR BHARATI	13982481X	NOW	JC701390M	01 Mar 2016
HAVILDAR	SURENDRA KUMAR SINGH	13982550H	NOW	JC701518M	01 Apr 2016
HAVILDAR	ARVIND KUMAR SINGH	13982518N	NOW	JC701519P	01 Apr 2016
HAVILDAR	KALOO RAM	13982583N	NOW	JC701520K	01 Apr 2016
HAVILDAR	RABINDRA PRASAD GUPTA	13982551L	NOW	JC701527N	01 May 2016
HAVILDAR	RAM SANEHI RAM	13982571Y	NOW	JC701570P	01 Jun 2016
HAVILDAR	RABINDRA NATH	13982559X	NOW	JC701571X	01 Jun 2016
HAVILDAR	SURENDRA SINGH NEGI	13982589P	NOW	JC701572A	01 Jun 2016
HAVILDAR	SWAPAN KUMAR JANA	13982591M	NOW	JC701573H	01 Jun 2016
HAVILDAR	JIWAN GURANG	13982619F	NOW	JC701670A	01 Aug 2016
HAVILDAR	PRANAY KUMAR	13982580A	NOW	JC701671H	01 Aug 2016
HAVILDAR	PRADEEP KUMAR RAI	13982650N	NOW	JC701672L	01 Aug 2016
HAVILDAR	SUDAMA PRASAD	04072987L	NOW	JC701673N	01 Aug 2016
HAVILDAR	HARISH CHANDRA UPADHYAY	13982689A	NOW	JC701674W	01 Aug 2016
HAVILDAR	ASHOK KUMAR	13982741X	NOW	JC701675Y	01 Aug 2016
HAVILDAR	AJAI KUMAR SINGH	13982742A	NOW	JC701676F	01 Aug 2016
HAVILDAR	LUHAR RADHESHYAM LUXMAN	13982770M	NOW	JC701677K	01 Aug 2016
HAVILDAR	CHAUHAN KULDEEP SINGH HARI SINGH	13982799P	NOW	JC701673P	18 Aug 2016*
HAVILDAR	SADI RAJAYA REDDY	13982931K	NOW	JC701764X	10 Aug 2016*

(* Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)

A.K. TIWARI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 262, dated 18th November 2016—The President is pleased to make the following promotion/substantive :-

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major (GD) Bhuwan Chandra Murari JC-262924A Formerly ARTY

05 Apr 2015

In the rank of Subedar (GD)

Subedar (GD)	Khageswar Gharti Magar	JC-623498P	Formerly 8 GR	04 Apr 2015
Subedar (GD)	Prakash Kumar Neupane	JC-629568Y	Formerly 9 GR	04 Apr 2015
Subedar (GD)	Jugendra Singh	JC-469878H	Formerly RAJ RIF	04 Apr 2015
Subedar (GD)	Rama Sah	JC-559863F	Formerly BIHAR	04 Apr 2015
Subedar (GD)	Subhash Chand	JC-520678X	Formerly DOGRA	04 Apr 2015
Subedar (GD)	Balraj Singh	JC-450663P	Formerly GRENADIERS	04 Apr 2015
Subedar (GD)	Lamchung Tsering	JC-588381P	Formerly LADAKH SCOUTS	04 Apr 2015
Subedar (GD)	Dilavar Singh	JC-265212H	Formerly ARTY	05 Apr 2015
Subedar (GD)	Devarajulu M	JC-269607F	Formerly ARTY	05 Apr 2015
Subedar (GD)	Sat Paul	JC-819111N	Formerly CMP	07 Apr 2015

In the rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar(GD)	Gopal Singh	JC-298508F	Formerly AAD	04 Apr 2015
Naib Subedar(GD)	Mohd Raza	JC-588250K	Formerly LADAKH SCOUTS	04 Apr 2015
Naib Subedar(GD)	Bhatkande Jotiba Shankar	JC-459213Y	Formerly MLI	04 Apr 2015
Naib Subedar(GD)	Indra Bahadur Thapa	JC-607696W	Formerly 3 GR	04 Apr 2015
Naib Subedar(GD)	Anand Ram Gurung	JC-617759F	Formerly 5 GR	04 Apr 2015
Naib Subedar(GD)	Rudra Bahadur Pradhan	JC-634864N	Formerly 11 GR	04 Apr 2015
Naib Subedar(GD)	Om Prakash	JC-540542F	Formerly KUMAON	04 Apr 2015
Naib Subedar(GD)	Birendra Singh	JC-540916A	Formerly KUMAON	04 Apr 2015
Naib Subedar(GD)	Munshi Ram	JC-520962N	Formerly DOGRA	05 Apr 2015

In the rank of Naib Subedar (GD)

Nb Subedar(GD)	Kamleswar Singh	JC-276766F	Formerly ARTY	05 Apr 2015
Nb Subedar(GD)	Babulal Yadav	JC-277470F	Formerly ARTY	05 Apr 2015
Nb Subedar(GD)	Ved Prakash	JC-278077Y	Formerly ARTY	06 Apr 2015

R P S NEGI
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in